सूर्योदय : 6:55
सूर्यास्त : 5:25
अधिकतम तापमान : 19.0
न्यूनतम : 10.0

RNI NO : UPHIN/2010/31173
डाक पंजीकरण संख्या: SSP/LW/NP-422/2014-2016
वर्ष-17 अंक-211 पेज-16
मूल्य : 3 रुपया
लखनऊ, बुधवार, 10 जनवरी 2024
27 जमादिउल उस्सानी, 1445 हिजरी

हिन्दी दैनिक

अवधनामा

www.avadhnama.com

श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान

यूपी में 22 को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और शराब की दुकानें

निर्देश

- अयोध्या में खुलेगा विश्व का पहला सेवन स्टार शाकाहारी होटल
- दुनिया के लिए मॉडल होगा यह शहर
- विकास से रोजगार सृजन की संभावना को विराट स्वरूप मिला
- जो दस साल पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्याधाम में बहुप्रतीक्षित श्रीरामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएं।

मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने श्रीरामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन-पूजन के उपरांत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद, आयुक्त सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं हैं। होम स्टे की व्यवस्था भी है। टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25-50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराएं। 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से रामभक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिथ्य-सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जनसहयोग लें। धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल न उड़े, गंदगी न हो। जगह-जगह कूड़ेदान रखे हों। वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। अभी 3800 से अधिक स्वच्छताकर्मी तैनात हैं, 1500 कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाएं। अयोध्या प्रतिबंधित पॉलीथिन मुक्त नगर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि अभी अयोध्या के बदलने की शुरुआत है, देखते जाइए। आने वाले समय में यहां कई ऐसे मॉडल लागू होंगे जो पूरे देश के लिए नजीर बनेंगे। राम के धाम के भीतर विश्व स्तरीय विकसित महानगर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है तो इसके बाहरी हिस्से को भी हर तरह की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अयोध्या को लेकर देश-दुनिया उत्सुक है, नई उमंग है, इस भाव को अनवरत बनाए रखना होगा। योगी ने बताया कि अयोध्या के विकास के लिए कई वर्षों की प्लानिंग के साथ सरकार काम कर रही है। आठ नए होटल यहां बन रहे हैं। इसके अलावा 25 के प्रस्ताव मिले हैं। जिसमें कई फाइव और सेवन स्टार होटल शामिल हैं। देश में पहली बार सेवन स्टार शाकाहारी होटल यहीं पर खुलने जा रहा है। आज इसकी फ्रांस में घोषणा हो रही है। डिजीटल टूरिस्ट मैप यहां आने वालों का मददगार बनेगा। राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अयोध्या स्वच्छ और दिव्य कुंभ की तरह दिखेगी।



सीएम योगी मंगलवार को यहां सर्किट हाउस के सभागार में संवाददाताओं से मुखातिब थे।

22 को पूरे दिन अस्सी से राजघाट तक मुफ्त नौकायन

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाविक समाज भी उल्लास से मनाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर नाविकों ने पूरे दिन पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आमजन को निशुल्क नौकायन कराने का फैसला लिया है। मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर काशी के सभी 84 घाटों के नाविकों की बैठक में इस पर मुहर लग गई। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने बताया कि 22 जनवरी को पूरे दिन निशुल्क नौका संचालन होगा। लोग अस्सी से राजघाट या फिर गंगा उस पार बिना कोई शुल्क दिए आ-जा सकते हैं। उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए। हर एक वीवीआईपी के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मौसम के दृष्टिगत संभव है कि कुछ अतिथि एक-दो दिन पहले ही आ जाएं, ऐसे में उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था हो।

उस्ताद राशिद खान का निधन

नई दिल्ली। मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद राशिद खान का मंगलवार को 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस खबर के सामने आते ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लेकर दिग्गज हस्तियों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद राशिद खान के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित, उस्ताद राशिद खान ने फ्यूजन की खोज और जुगलबंदियों का प्रदर्शन करके बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह अपने पीछे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी विरासत छोड़ गए। मैं उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। वहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद राशिद खान एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे, जिनकी उल्लेखनीय विरासत न केवल हमारे देश के लिए, बल्कि वैश्विक संगीत बिरादरी के लिए एक अमूल्य खजाना है।

दम घुटने से पांच की मौत

हादसा

- कमरे में कोयला सुलगाकर सोए थे, जान गंवाने वालों में तीन सगे भाई-बहन, दो की हालत गंभीर

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव अल्लीपुर भूड़ सर्की उर्फ ढक्का मोड़ में ठंड से बचने के लिए घर के कमरे में अलाव जलाकर सो रहे ट्रक चालक रईसुद्दीन की बेटी सोनम (20) बड़ा बेटा जैद (16), छोटा बेटा माहिर (11) और सिहाली जागीर की रहने वाली साले की बेटी महक (15) और धनौरा निवासी साढू की बेटी कशिश (8) की दम घुटने से मौत हो गई। जबकि रईसुद्दीन की पत्नी हुसन जहां और साला रियासत की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। एडीएम और एएसपी ने मुआयना किया। रईसुद्दीन संभल-काशीपुर के लिए ट्रक चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका घर गांव के बाहर हसनपुर-संभल रोड किनारे हैं। सोमवार को सिहाली जागीर के रहने वाले उनके साले रियासत अपनी बेटी महक के साथ आए हुए थे। जबकि धनौरा के रहने वाले साढू आस मोहम्मद की बेटी कशिश भी रईसुद्दीन के घर आई हुई थी। सभी लोग खाना खाने के बाद घर के कमरे में सोए थे। इस दौरान उन्होंने ठंड से बचने के लिए कोयल का अलाव जलाकर कमरे में रख लिया। जिसके चलते रात में कोयले से निकले धुएं के कारण परिवार के सभी सदस्यों का दम घुट गया। इस घटना की भनक आसपास के लोगों को भी नहीं लगी। मंगलवार की दोपहर रईसुद्दीन ने अपने घर के नंबर पर फोन किया तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की।

गुजरात में पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन

अपार व्यावसायिक संभावनाओं का खुलेगा द्वार

सम्मेलन

- शिखर सम्मेलन के लिए 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड शो में से एक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कई उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा।

अपार व्यावसायिक संभावनाओं के साथ नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने का यह मंच लाखों अवसर पैदा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जनवरी, 2024 को गया और यह 13 जनवरी, 2024 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां वह ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2003 में मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दसवां संस्करण गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। शिखर सम्मेलन का यह दसवां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों को सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में मनाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के लिए 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। शिखर सम्मेलन इंडस्ट्री 4.0, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की दिशा की ओर बढ़ने जैसे विश्व स्तर पर प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलनों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कंपनियां वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी।

राष्ट्रपति ने शमी सहित अन्य को खेल पुरस्कारों से नवाजा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में क्रिकेटर मोहम्मद शमी, कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत, पैरा-तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। वही 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चन्द्रशेखर शेट्टी, रंकीरेड्डी सात्विक साई राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी, एथलेटिक्स श्रीशंकर एम,पारुल चौधरी मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, घुड़सवार अनुश अग्रवाल, दिव्याकृति सिंह, गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर, हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक, पुखरामबम सुशीला चानू, कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी, खो-खो खिलाड़ी नसरीन,शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह, स्क्वाश खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस खिलाड़ी अयहिका मुखर्जी, कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार, एंटीम वुशु खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी, पैरा आर्चरी खिलाड़ी शीतल देवी, ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ी इलूरी अजय कुमार रेड्डी, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव, लॉन कटोरे में पिंकी को अर्जुन पुरस्कार मिला।

महाराष्ट्र की सीटों पर बनी बात

बंटवारा

- बिहार सध गया और महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं दिल्ली में संभले, पर यूपी में अटका है गठबंधन

नई दिल्ली। कांग्रेस के अंदर खाने से बड़ी खबर आ रही है। पार्टी के एक महासचिव का कहना है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं भी गठबंधन का अधिक पेंच नहीं फंसेगा। अखिलेश यादव के करीबी और दुबई से लौटकर आए नेता का कहना है कि रालोद, सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे की बात चल रही है।

हालांकि, अंदर खाने से खबर है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इसमें चौथे दल के रूप में बसपा की इंट्री का प्रयास कर रहा है। बताते हैं बिहार में में मोटी-मोटी सहमति बन गई है। अब केवल राजद और जद(यू) को आपस में समझना है। सूत्र का कहना है कि जद(यू) के वर्तमान में लोकसभा में 16 सांसद हैं, लेकिन गठबंधन में सहयोगी दलों का ख्याल रखना होता है। इसे जद(यू) और सहयोगी दल राजद दोनों समझते हैं।

राजद के एक विधायक की माने तो 16 सीट पर राजद और 16 सीट पर जद(यू) 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शेष सीट कांग्रेस और वाम दल के पाले में जाएगी। इसलिए सहमति बनने में कोई बड़ा रोड़ा नहीं है। महाराष्ट्र में भी कोई बड़ा पेंच नहीं फंसने वाला है। रविवार तक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ नेता का कहना है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा आरंभ होने से पहले इंडिया गठबंधन अपने भीतर के सभी पेंच सुलझा लेगा। इस समय इसका समाधान ही उच्च प्राथमिकता में है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस लिए गंभीर हैं।

23 सीटों की शिवसेना ने रखी डिमांड

दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले संजय राउत ने आजतक से कहा कि वो मीटिंग में शिवसेना के लिए 23 सीटों की डिमांड रखेंगे। उन्होंने कहा, हमने पिछले लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमारी पार्टी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वोटर ट्रांसफर हो गया है।

पार्टी के एक राज्य के प्रभारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई बहुत चिंता नहीं है। वह कहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयानों पर मत जाइए। इंडिया गठबंधन के सभी नेता इसकी एकजुटता के

मां ने चार साल के बेटे की हत्या की

हैवानियत

- गोवा से शव लेकर बेंगलुरु जाते समय गिरफ्तार, होटल में खून मिलने से खुलासा

पणजी। गोवा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने चार साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। आरोपी मां बेटे के शव को बैग में रखकर गोवा से कर्नाटक जा रही थी, जिसके बाद गोवा पुलिस ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला ने हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास किया था। गौरतलब है कि आरोपी सूचना सेठ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की सीईओ हैं। मापुसा शहर की एक अदालत ने छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले पर जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी सूचना सेठ ने कैंडोलिम में सर्विस अपार्टमेंट के एक कमरे में अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, जहां उन्होंने छह जनवरी को चेक इन किया था। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद आरोपी महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी।

ईडी टीमों पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने अपनाया सख्त रुख

बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

फटकार

- ईडी टीम पर 800-1000 लोगों ने किया था हमला
- शाहजहां शेख अभी तक फरार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी और कार्रवाई के दौरान इसके अधिकारियों पर हमले को लेकर सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों पर हुए हमलों पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन परिस्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिनके कारण हमले हुए उसमें ईडी अधिकारी घायल हो गए। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से केंद्रीय जांच एजेंसी टीमों पर हमलों के बाद की गई कार्रवाई का विवरण भेजने को भी कहा है। दरअसल, बीती पांच जनवरी को ईडी पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी। पीडीएस घोटाले के मामले में जब एजेंसी उत्तर 24 परगना में टीएमसी संयोजक शाहजहां शेख के तीन परिसरों पर तलाशी ले रही थी। तलाशी के दौरान एक परिसर में सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी टीम पर 800-1000 लोगों ने हमला किया।

शाहजहां को ज्योति प्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। ईडी ने एक बयान में कहा कि हमलावर लाठी, पत्थर और ईंट से लैस थे। इस घटना में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ईडी अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट आदि भी छीन लिए।

राममय होगा पूरा जिला, घर-घर प्रज्वलित होगी राम ज्योति

14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर चलेगा स्वच्छता अभियान

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरे जिले में 14 जनवरी से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा, जिनमें रामकथा, रामलीला, शास्त्रीय संगीत की पूरी श्रृंखला शामिल है। बुधवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जनपदीय अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट में बैठक कर प्राणप्रतिष्ठा का उत्सव (दीपोत्सव) को मनाने का खाका खींचा। बैठक का सफल संयोजन, संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया।बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे जिले में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ जनपदवासियों को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने अफसरो को निर्देश दिए कि जिले के सभी पौराणिक एवं प्रमुख मंदिरों पर दीपोत्सव का आयोजन हो, इसकी सभी मुकम्मल तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्र के आयोजन के लिए बीडीओ एवं शहरी क्षेत्र के लिए ईओ नोडल अधिकारी होंगे। लोगों को भी अपने घर पर दीप जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे पर्व की तरह हर घर में मनाया जाएगा। ग्राम स्तर पर इस आयोजन के लिए नोडल ग्राम सचिव होंगे। डीपीआरओ को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित हो।डीएम ने सभी जनपदवासियों से अपने घरों में दीप के माध्यम से राम ज्योति प्रज्वलित करने की अपील भी की। यह ऐतिहासिक अवसर है और हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। डीएम ने डीआईओएस एवं बीएसए को निर्देश दिए कि विद्यालय स्तर पर इस आयोजन से संबंधित विविध (चित्रकला, निबंध, कविता एवम् स्लोगन लेखन) प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हुए विजेताओं को पुरस्कृत करें। इस संबंध में डीएम ने अफसरो से भी सुझाव जाने एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए।बैठक के दौरान डीएम ने अफसरो से बार-बार अपील की कि जिलेभर में आयोजन की भव्यता में कोई कमी ना रहे। यह शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस पुनीत अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं। जिले के हर घर, मंदिर एवं दफ्तर में राम ज्योति प्रज्वलित हो। इसपर पूर्ण मनोयोग से काम करे। जिले के प्रमुख चौराहों की साज सज्जा कराए और प्रमुख मंदिरों, चौराहों पर रामभजन बजवाए जाए।सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने आयोजन के संबंध में सभी अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व बताएं। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में ईओ और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ को साफ-सफाई एवं चूना छिड़काव का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन सूचना अधिकारी सुचित्त चौधरी ने जिला मुख्यालय, ईओ ने नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए मंदिरों में आयोजन के संबंध में जरूरी जानकारी देते हुए अपनी तैयारिया बताई। बैठक में सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों को लॉटरी सिस्टम से मिलेंगे कृषि यंत्र

लखीमपुर खीरी। कृषि विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल से टोकन जारी किए गए हैं। जिन यंत्रों के लिए लक्ष्य से अधिक टोकन जारी किए गए हैं। उन यंत्रों के लिए लाभार्थियों को चयन टोकन के बाद माध्यम से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने दी।उन्होंने किसान भाइयों को सूचित करते हुए बताया कि लॉटरी संपन्न करने की कार्रवाई डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में 11 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से की जाएगी, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और इसके पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष ई-लाटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

समाचार पत्र वितरक हैं समाज के सजग प्रहरी: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। तराई में लगातार बढ़ रही ठंड से समाचार वितरकों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रशासन की ओर से कंबल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ सभी समाचार वितरकों को कंबल वितरित किया। प्रशासन से कंबल पाकर समाचार पत्र वितरकों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि आम आदमी तक समाचार पत्रों को पहुंचाने वाले समाचार पत्रवितरक प्रशंसा के पात्र हैं। उनका काम किसी चुनौती से कम नहीं है। वितरक सच्चे अर्थ में कर्मयोगी के साथ ही समाज के भी सजग प्रहरी हैं। अखबार वितरण चुनौतीपूर्ण कार्य है।वितरक बदलते मौसम ठंडी, गर्मी व बरसात में भी हमें देश-दुनिया की खबरों से अपडेट कराने के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। वितरक सुबह होते ही बिना किसी छुट्टी के रोज अखबार पहुंचाने का जज्बा लोगों के लिए मिसाल है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में भी अखबार लोगों तक विश्वसनीय खबरें पहुंचाने का साधन बने हैं। उन्होंने समाचार पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे समाचार पत्र वितरकों के कार्य को सराहा। समाचार पत्र वितरक अखबार रूपी इमारत के नींव के पत्थर हैं। हर परिस्थिति में लोगों के जागने से पहले रोज सुबह समाचार पत्र घरों तक पहुंचाना सर्दी-गर्मी और बारिश या अन्य कैसी भी कठिनाई हो वितरक रोज अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। रोज सुबह तीन-साढ़े तीन बजे उठ कर लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाना काबिले तारीफ है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। थाना निघासन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/24 धारा 498ए/304बी भादंवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1.सूरज पुत्र सनासर (पति मृतका) 2.मीना पत्नी सनासर (सास मृतका) 3.सनासर पुत्र जगदीश (ससुर मृतका) निवासीगण ग्राम परागीपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया । अभियुक्तगण सूरज, मीना व सनासर उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है गौरतलब है कि दिनांक 08.01.2024 को वादी की तहरीरी सूचना कि वादी की बहन को पति व उसके ससुरालीजन पति, ससुर-सास व देवर-देवरानी द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग न पूरी कर पाने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, जिससे क्षुब्ध होकर वादी की बहन द्वारा साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा लेने के सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0 08/24 धारा 498ए, 304बी भा0दं0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम पति सूरज आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था।

02 नफर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। थाना धौरहरा पुलिस टीम द्वारा चेंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन करते हुए सिसैया बस स्टैण्ड बहराईच - लखीमपुर खीरी मुख्य मार्ग 02 नफर अभियुक्तो दयाराम पुत्र सूरज प्रसाद पंकज कुमार पुत्र राधेश्याम नि0गण मूडापासी पो0 सिकन्दराबाद थाना नीमगांव को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की बहुमूल्य अष्टधातु मूर्ति की बरामदगी हुई है, जिसका वजन 03 कि0ग्रा0 250 ग्राम है व अनुमानित कीमत करीब 05 करोड रूपये बता जा रही है तथा अभियुक्त पंकज कुमार उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महिला को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत

लखीमपुर-खीरी। सड़क पर तेज रफ़्तार का क़हर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। आये दिन कोई न कोई तेज रफ्तार के कारण अपनी जान से हाथ धो रहा है। मंगलवार को सड़क पर जा रही एक महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र के क़स्बा रकेहटी का है। यहां सोमवती (62) पत्नी सोहन निवासी सुक्खनपुरवा सड़क पर पैदल जा रही थी। तभी पीछे से आये एक ट्रक ने सोमवती को टक्कर मारते हुए रौंद दिया। जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गई।ट्रक चालक मौक़े से फ़रार हो गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार मेले का किया गया आयोजन

महराजगंज, रायबरेली। ब्लॉक परिसर महराजगंज में मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एकदिवसीय विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, रोजगार मेले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रतिभा किया। आपको बता दें कि, विकासखंड परिसर में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी द्वारा किया गया। इस रोजगार मेले में कई निजी कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर रोजगार प्रदान किया गया। रोजगार मेले में कुल 181 अभ्यर्थियों ने प्रतिभा किया, जिसमें 79 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस अवसर पर सहायक खंड विकास अधिकारी, जिला समन्वयक तनुजा यादव, जिला कौशल प्रबंधक राजीव कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दिनेश पाल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

कमरे में जलती अंगीठी रखकर सोए एक परिवार के दो बच्चों की दम घुटने से मौत

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। मैलानी में सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलती अंगीठी रखकर सोए एक परिवार के दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। उनके माता-पिता की हालत गंभीर है। पिता का उपचार मैलानी के ही निजी अस्पताल में हो रहा है, जबकि मां की हालत गंभीर है। उसे पीलीभीत रेफर किया गया है मैलानी के मोहल्ला ईदगाह में खुटार रोड पर रहने वाले राम प्यारे ने बताया कि उनके पुत्र रमेश विश्वकर्मा की पत्नी रेनू विश्वकर्मा की तबियत बिगड़ गई थी। इसलिए उसने सोमवार रात सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलती अंगीठी रख ली थी। कमरे में रमेश विश्वकर्मा (38), उसकी पत्नी रेनू (35), बेटी अंशिका (आठ) और बेटा कृष्णा (सात) थे। ये सभी कमरे में जलती अंगीठी रखकर ही सो गए सुबह सात बजे तक रमेश के न उठने पर दरवाजा खटखटाया। किसी के न जागने पर खिड़की से झांका, तो सब बेसुध दिखाई दिए। अनहोनी की आशंका से खिड़की से हाथ डालकर दरवाजे का खोला। अंदर जाने पर पता चला कि सभी लोग बेहोशी की हालत में हैं। आनन-फानन सबको निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने अंशिका और कृष्णा को मृत घोषित कर दिया रमेश को यहीं निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत ठीक बताई गई है, जबकि पत्नी रेनू विश्वकर्मा की गंभीर हालत को देखते हुए पीलीभीत रेफर किया गया है। घटना से रमेश के पिता राम प्यारे, माता फितना देवी और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पाकर नगर में भी शोक की लहर दौड़ गई, जिसने भी सुना, वह रमेश के घर की ओर दौड़ गया परिजन के मुताबिक रमेश की माता अस्थमा से पीड़ित हैं। उनकी तबियत खराब चल रही थी। मां को सर्दी से बचाने के लिए रमेश ने तीन दिन पहले ही अंगीठी बनवाई थी। उसे क्या पता था कि जिस अंगीठी को उसने अपनी मां को राहत दिलाने के लिए बनाया है, वही अंगीठी उसके दो मासूम बच्चों के लिए काल बन जाएगी परिजनों ने बताया कि जिस कमरे में रमेश अपने परिवार के साथ सो रहा था, वह पूरी तरह से बंद था। कमरे में लगी एक खिड़की को परदे से बंद करने के साथ ही रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। इसी से कमरे में रखी जलती अंगीठी से निकलने वाली गैस से दम घुटने से यह हादसा हो गया।

मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी अम्बर सिह का लखीमपुर सदर स्थानांतरण हो जाने पर विदाई समारोह किया गया आयोजित

मोहम्मदी खीरी। मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी मे तैनात रहे अम्बर सिह का लखीमपुर सदर स्थानांतरण हो जाने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमे सभी ने इंस्पेक्टर अम्बर सिंह की कार्यशैली की तारीफ की और फूल मालाओं से उनका विदाई समारोह किया उस समय उनके साथ रहे कोतवाली से लेकर चौकी तक तैनात सिपाहियो की आखें नम हो गई जिसे देखकर वो खुद भावुक हो गए और आंखे नम हो गई , प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मदी की तरफ से सेल्फी प्वाइंट पर कोतवाली प्रभारी अम्बर सिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमे मुख्य रूप से सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे कार्यक्रम मे दर्जा राज्य मंत्री/ क्षेत्रीय विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिह, नपाप अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा उर्फ कन्हैया, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शुक्ला, अतुल रस्तोगी ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। शाल उढाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में एसडीएम डॉ अवनीश कुमार, सी ओ अरुण कुमार सिंह समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

फूड सेफ्टी वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अवधनामा संवाददाता

रायबरेली। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम हर्षिता माथुर ने फूड सेफ्टी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह वाहन जनपद के विभिन्न तहसीलों व ब्लॉकों के गांवो में जाकर खाने पीने की वस्तुओं की जांच करेगी। जिससे बढ़ती बीमारियों पर रोक लग सके। वहीं पहले दुकानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के जांच के नमूने लखनऊ भेजे जाते थे लेकिन अब इस वैन के आ जाने से कुछ ही घंटे में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी तथा जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर संबंधित दुकानदार या खाद्य पदार्थ विक्रेता पर कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात अजीत कुमार, सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रायबरेली के आदेश के उपरान्त खाद्य सचल प्रयोगशाला को सदर तहसील के राही व शहर क्षेत्र कचेहरी रोड़ में भेजा गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी, उदय राज मौर्य, राजेश कुमार एवं सौरभ उत्तम के द्वारा हल्दी, मिर्च, धनिया व खाद्य तेल, दूध के लगभग 52 नमूनें, खाद्य सचल प्रयोगशाला के द्वारा जांचे गये।

बाईक ने मजदूर को मारी जोरदार टक्कर, मौत

सहारनपुर। मजदूरी कर घर लोट रहे मजदूर को तेज़ गति से आ रही बाईक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मजदूर को जिला अस्पताल रैफ़र कर दिया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार नानौता क्षेत्र के ग्राम ओलरा निवासी करीब 28 वर्षीय सोनू पुत्र भोपाल कस्बे में मजदूरी कर नगर के निकटवर्ती ग्राम ओलरी में अपने गांव ओलरी जा रहा था। ओलरा गांव निवासी दो युवक भी बाईक पर सवार होकर अपने गांव लोट रहे थे। जैसे ही वह कुतुबपुर रजबाहा सड़क मार्ग पर पहुंचे, तो सड़क पर पैदल आ रहे सोनू को पीछे से बाईक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सोनू के सिर में गंभीर चोट लग गई तथा बाईक सवार युवक भी सड़क पर आ गिरे। घायल सोनू को राहगीरों तथा परिजनों द्वारा नानौता सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आईएमए ने जिला अस्पताल में किया कंबल वितरण

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गरीब एवं असहायों को कम्बल वितरित कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया।

आईएमए अध्यक्ष डॉ.कलीम अहमद के नेतृत्व में जनपद के चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती गरीब मरीजो और उनके परिजनों को कंबल वितरित किये। आईएमए अध्यक्ष डॉ.कलीम अहमद ने कहा कि चिकित्सक समुदाय हमेशा ही बेसहारा और गरीब लोगों की मदद के लिए समय समय पर आगे आता रहा है। चाहे वो फ्री चेकअप केम्प हो, या फ्री दवा वितरण या अन्य कोई कार्य हो, इसमें आगे भी सभी चिकित्सक अपना सहयोग करते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.संजीव मांगलिक ने आईएमए के चिकित्सको के सेवाभाव की खुलकर प्रशंसा की और चिकित्सक वर्ग को अपने-अपने संस्थानों में भी गरीब मरीजो की मदद करने का संकल्प करवाया। कार्यक्रम जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ.रमेश चन्द्रा, जिला महिला अस्पताल अधीक्षिका डॉ.इंदिरा सिंह, डॉ.संजय यादव, डॉ.अखिल टण्डन, डॉ.कुणाल जैन आदि का पूर्ण सहयोग रहा।

नगर निगम नगर विकास जन सुविधाओं हेतु वचन बद्ध

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। (अहमद रज़ा) नगर निगम में आज संभव जनसुनवाई आयोजन में नगरायुक्त मैडम ग़ज़ल भारद्वाज ने काफ़ी लोगों की शिकायतों को सुना और अधिकारियों को मौके पर तुरंत अधीनस्थ अधिकारी को मौके पर भेज कर उनका त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए कर्मठ नगरायुक मैडम ग़ज़ल भारद्वाज ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में हर सम्भव तेज़ी लाएं जनता को शिकायत का मौक़ा ना दें मैडम ग़ज़ल के आदेशों के अनुपालन में आज आयी 20 शिकायतों में से 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया। उन्होंने नगर निगम द्वारा बनाये गए पीएम स्वनिधि बाजारों में वेंडरों के खड़े होने के स्थान को व्यवस्थित और सुनिश्चित करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए ,नगरायुक्त ग़ज़ल भारद्वाज ने आज निगम अधिकारियों की टीम के साथ जनसुनवाई संभव में शिकायतों को सुनते हुए उनके निस्तारण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई, पथ प्रकाश व पानी लिकेज आदि शिकायतों पर तुरंत टीम भेजकर उनका निस्तारण कराएं। अतिक्रमण व निर्माण सम्बंधी शिकायतों पर भी अविलंब अधिकारी भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराते हुए कार्वाई की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज कुल 20 संदर्भ प्राप्त हुए, इनमें से 16 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया गया। संभव के दौरान आज आई शिकायतों में स्वास्थय विभाग से सम्बंधित 4, जलकल से सम्बंधित 2, निर्माण सम्बंधी 13, तथा पथ प्रकाश सम्बंधी एक शिकायत प्राप्त हुई। नगरायुक्त ने गत जनसुनवाई में आयी 19 शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है।

गत जनसुनवाई में प्राप्त उक्त 19 शिकायतों में से 12 शिकायतों का निस्तारण जनसुनवाई वाले दिन ही करा दिया गया था। शेष अतिक्रमण सम्बंधी चार तथा जलकल सम्बंधी तीन शिकायतों का निस्तारण कराने की जानकारी भी अधिकारियों द्वारा नगरायुक्त को दी गयी। जनसुनवाई के दौरान अपर नगरायुक्त राजेश यादव, एस के तिवारी और मृत्युंजय सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अपात्र लाभार्थी एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं आपत्ति प्रत्यावेदन

सहारनपुर। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत नगर निगम सहारनपुर में 529 लाभार्थियों की डीपीआर में 28 लाभार्थी तथा 7285 लाभार्थियों की डीपीआर में 1195 लाभार्थी विभिन्न कारणोवश जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच में अपात्र पाये गये है। जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि दोनों डीपीआर में अपात्र पाये गये लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम एवं डूडा कार्यालय नुमाईश कैम्प में चस्पा की गई है। अपात्र चिन्हित किये गये लाभार्थियों को आपत्ति होने की दशा में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार उनकी पात्रता की जांच करने के उपरान्त कर्टेलमेन्ट डीपीआर सूडा मुख्यालय उप्र लखनऊ को प्रेषित किया जाना है।

पंजाबी एकता समिति ने लोहड़ी मिलन कार्यक्रम

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। पंजाबी एकता समिति द्वारा आज लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भंगड़ा, गिद्दा की धूम के साथ पंजाबी लोक गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। इस अवसर पर रेवड़ी, मूंगफ्ली व पॉपकोर्न का प्रसाद भी बांटा गया। आज संस्था द्वारा अंबाला रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित लोहड़ी मिलन समारोह में परम्परानुसार लोहड़ी की रस्म अदा करके सभी ने मिल कर लोहड़ी का गीत 'सुन्दर मुंदरिये' गीत गाकर एक दूसरे को मूंगफ्ली, रेवड़ी ओर पॉपकॉर्न वितरित किये। समिति द्वारा समाज सेवी स.तेजपाल सिंह एवं एक्टर मॉडल विशु भारती को संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम मे विशेष तौर पर पधारे संघ प्रचारक प्रवीर, अरविन्द और संघ चालक अशोक ने सभी को लोहड़ी की बधाई देते हुए अयोध्या मे राम मंदिर के बारे मे विस्तार से बताते हुए सभी से नवनिर्वित राममंदिर के दर्शन करने की अपील की। पंजाबी एकता समिति के अध्यक्ष एमपी सिंह चावला और महामंत्री राजीव फुटेला ने सभी को लोहड़ी की लख-लख बधाई देते हुए बताया कि समिति द्वारा जनहित के कार्यों की श्रखला मे फ़रवरी माह मे उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिकित्सको की टीम बुलाकर मुफ्त मल्टी स्पेशलिटी कैम्प पटेल नगर मे लगाया जायेगा। मार्च मे शहीदे आज़म भगत सिंह का बलिदान दिवस पर कार्यक्रम, अप्रैल मे 'जट्टा आई बैसाखी पारिवारिक कार्यक्रम' आयोजित किया जायेगा।

जनपद में भव्य तरीके से मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस

सात किलोमीटर लम्बी पेंटिंग होगी मुख्य आकर्षण: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जिलाधिकारी डा.दिनेश चंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनपद में भव्य तरीके व हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा, जिसका मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता विषय पर बनाई जाने वाली सात किलोमीटर लम्बी पेंटिंग होगी जो स्वयं में एक अनूठा रिकार्ड बनेगा। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों व स्कूल संचालकों को मतदाता शपथ दिलाते हुए कहा कि लोकतंत्र को सभी की सहभागिता से ही मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है।

दिल्ली रोड स्थित पाईनवुड स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. अर्चना द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, उपजिलाधिकारी श्वेता पांडेय, युवराज सिंह, अजय कुमार अम्बस्ट, अंकुर वर्मा, दीपक कुमार, प्रोग्रेसिव स्कूल्स सोसायटी के संयोजक सुरेंद्र चौहान, महासचिव सुधीर जोशी, पाईनवुड स्कूल की निदेशक श्रीमती संतोष गुप्ता व प्रधानाचार्य डा. संजीव जैन संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित करके किया। इस अवसर पर आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों के सम्बंध में जिले के सभी बोर्डों व विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध स्कूल-कालेजों के प्रधानाचार्यों व स्कूल संचालकों की बैठक में जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र ने समुचित दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गत लोकसभा चुनाव में सहारनपुर जिले में सहारनपुर जिले ने प्रथम स्थान हासल किया था। उन्होंने जिले के सभी प्रधानाचायों व स्कूल संचालकों का आह्वान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम सबके सामूहिक प्रयास कर सहारनपुर जनपद को मत प्रतिशत में प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करना होगा।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. अर्चना द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिले के प्रत्येक स्कूल-कालेज के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। प्रोग्रेसिव स्कूल्स सोसायटी के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान ने सभी स्कूल-कालेजों के प्रधानाचार्यों व संचालकों से अपील की कि वे इसे अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम मानते हुए सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। कार्यक्रम स्कूल संचालकों को पेंटिंग के लिए एक-एक मीटर की सात हजार सीट वितरित की गई।

स्मार्ट फोन मिलने से छात्राओं के चेहरे खिल उठे

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद डिजी शक्ति के तहत आज मुन्नालाल जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को स्मार्ट फोन वितरित किए गए और उनका सकारात्मक उपयोग किए जाने को प्रेरित किया गया। स्मार्ट फोन पाकर सभी छात्राओं के चेहरे खिल उठे। चिलकाना रोड स्थित महाविद्यालय के सभागार मे आयोजित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में अध्यनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु बीए फाइनल की 364 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजीव गुंबर एवं महापौर डॉ.अजय कुमार सिंह ने कॉलेज के प्राचार्या एवं मैनेजमेंट के सदस्यों हेमंत मित्तल एवं नीरज माहेश्वरी की उपस्थिति में छात्राओं को स्मार्ट फोन वितरण किया। इस अवसर पर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि छात्राएं स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करके तकनीकी शिक्षा से जुड़ेगी। उन्होंने छात्राओं को आह्वान किया कि स्मार्टफोन का सकारात्मक उपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

साथ ही उन्होंने नमो ऐप के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में महापौर ने छात्राओं को बताया कि वह कैसे तकनीक का सकारात्मक प्रयोग करते हुए भारत को 2047 तक विकसित भारत बना सकती है।

बजरंग बस्ती के रामभक्तों ने बरसते पानी और प्रचंड सर्दी में मो सहाव नाका में पूजित अक्षत वितरित किए

जालौन अवधनामा संवाददाता। नववर्ष के नवें दिन बरसते पानी और इस हाड़ कंपाने वाली सर्दी में बजरंग बस्ती के रामभक्तों ने मो सहाव नाका में कंजर वाल्मीक कुशवाहा व यादव समाज के लोगो के बीच अयोध्या से आये पूजित अक्षत व पत्रक व राम मंदिर के चित्र वितरित किये। सभी समाज की हिन्दू माताओं बहनों व भाइयो ने पूजित अक्षत अपने माथे पर लगाकर निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि 22 जनवरी को अपने घर के समीप के मन्दिर में भजन कीर्तन पूजन अर्चन करेंगे व अपने घरों में दीपमालिकाये प्रज्वलित करेंगे। 21जनवरी को द्वारकाधीश मन्दिर से निकलने वाली भगवान राम की शोभा यात्रा में सम्मलित होंगे। बजरंग बस्ती के संयोजक त्रिलोकी नाथ गुप्ता सह संयोजक शशिकांत वर्मा नगर सह संयोजक अखिलेश गुप्ता पालक सीताराम हूंका योगेंद्र राठौर पिंटू ठकुर राहुल यादव परमानन्द वर्मा बाबु विश्नोई ने रामभक्तों के साथ अक्षत पत्रक व चित्र वितरित किये।

व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महामंत्री ने थानाध्यक्ष से मिलकर नववर्ष की दी शुभकामनाएं

कौशाम्बी अवधनामा संवाददाता। नव निर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष जीतेन्द्र कौशल व महामंत्री विनोद केसरवानी ने व्यापार मंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ थानाध्यक्ष पश्चिमशरीरा धीरेन्द्र सिंह से मिलकर उन्हे और उनके समस्त स्टॉफ को नव वर्ष की शुभकामनाएँ दिया व थाना अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। मंडल अध्यक्ष ने नगर के समस्त सम्मानित व्यापारियों के हित मे कार्य करने का निवेदन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने थानाध्यक्ष से मिलकर कहा कि व्यापार मंडल के समस्त लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे आवश्यकता पडने पर सहयोग करेंगे। थानाध्यक्ष ने भी वादा किया कि व्यापारियों की किसी भी समस्या का कानून के दायरे रहकर हल किया जाएगा। व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल मे पश्चिम शरीरा व्यापार मंडल (रजिस्टर्ड) के संस्थापक शैलेन्द्र केसरवानी संरक्षक चन्द्रभूषण सिंह ,अध्यक्ष जीतेंद्र कौशल (सोनू कौशल) महामंत्री विनोद केसरवानी सोमेश सोनी,अनू कौशल ,रोहित गुप्ता विवेक केसरवानी ,सचिन रैना विकाश पांडे ,अखिलेश सरोज ,मो सोनू ,कुरैशी , हसीब और तमाम व्यापारी मौजूद रहे साथ मे सम्मानित पत्रकार बंधु वरिष्ठ पत्रकार रमेश सिंह, अजिल श्रीवास्तव ,विजय यादव मौजूद रहे।

उ.प्र. मा. शि. संघ के उपाध्यक्ष मोहर्रम अली का निधन

कौशाम्बी अवधनामा संवाददाता। जनपद के नगर पंचायत पूरब पश्चिमशरीरा निवासी हाजी मुहर्रम अली के निधन से कस्बे मे शोक की लहर दौड़ गयी इस अवसर पर एक शोक सभा का आयोजन डाक्टर शकील अहमद के आवास मे कई गयी। जिसमें डाक्टर शकील अहमद ने कहा मुहर्रम अली एक सामाजिक समरसता के मिसाल थे। कई अहम जिम्मेदारियां निभाने के कारण चाणक्य कहे जाते थे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, नगर निगम प्रयागराज के पूर्व पार्षद, मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रयागराज के पूर्व प्रवक्ता तथा आल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी के राष्ट्रीय सचिव जैसे पदो पर रहकर हर पद दक्षता से कार्य किया है । उन्होंने ने कहा मोहर्रम अली का सोमवार को शाम नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पश्चिम शरीरा, कौशांबी लाया गया, जहां मंगलवार शाम उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया । उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है । समाज का अगुआ व पथ प्रदर्शक अब हमारे बीच नही रहा। शोक सभा मे विजय यादव,दीपेन्द्र सिंह ,राजेन्द्र सिंह भगवान दास केसरवानी जीतेन्द्र कौशल रमेश सिंह मुहम्मद अख्तर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर दौड़ी शोक की लहर

कौशाम्बी अवधनामा संवाददाता। जिले के स्वतंत्रता सेनानी, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता मोहन श्याम केसरवानी का इलाज के दौरान निधन हो गया है,उनकी तबियत कुछ दिनो से खराब थी और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था,इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है,उनके निधन से परिजनो और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगर पालिका परिषद भरवारी निवासी मोहन श्याम केसरवानी आरएसएस से बहुत समय से जुड़े रहे ,वह स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हे सरकार द्वारा कई सुविधाएं मिल रही थी,मोहन श्याम केसरवानी मदर इंडिया स्कूल के प्रबंधक थे। पिछले कुछ दिनो से उनकी तबियत खराब थी और उनका इलाज दिल्ली में अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार को उनका निधन हो गया है,देर शाम तक उनका शव भरवारी पहुँचेगा। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को सुबह सन्दीपन घाट पर किया जाएगा। मोहन श्याम केसरवानी के निधन के खबर जैसे ही लोगो को मिली तो परिजनो में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

एनडीए इंडिया जो देगा सम्मान करेंगे गठबंधन

गाजीपुर अवधनामा संवाददाता। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। एनडीए या इंडिया जो भी सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी देगा उससे लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा सम्राट पैलेस छावनी लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में सात चरण में जागरुकता रैली निकाल रही है। जिसके प्रथम चरण में पूर्वांचल में गाजीपुर से जनसंपर्क चल रहा है। हम छोटी-बड़ी सभाओं के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी के फार्मूले पर काम करेंगे। पूरे देश में शिक्षा प्रणाली एक समान होनी चाहिए। गरीब या अमीर के बच्चों का एक ही पाठ्यक्रम के आधार पढ़ाई हो, क्योंकि जबतक शिक्षा का समुचित विकास नही होगा तबतक देश का सर्वांगिण विकास नही हो सकता है। श्रीराम मंदिर के संदर्भ में उन्होने कहा कि सभी लोगों को अपने-अपने धर्म के अनुसर पूजा-पाठ करने का अधिकार है।

उप मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत-अटसरई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हुए सम्मिलित

अवधनामा संवाददाता

कौशाम्बी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज ग्राम पंचायत-अटसरई में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोदभराई व बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी-रानी देवी, शकुन्तला देवी, सावित्री देवी, पुष्पा देवी एवं चन्द्रकली देवी को आवास की चाभी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी-अनूप कुमार, पुजारी लाल एवं घनश्याम को आवास स्वीकृत प्रमाण-पत्र वितरित किया। उन्होंने राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 210 स्वयं सहायता समूहों को रू0-3 करोड़ 15 लाख सीसीएल धनराशि सम्बन्धित समूह की महिलाओ को वितरित किया। इसी प्रकार उन्होंने ननकी, घनश्याम, गोमती, गुलाम रसूल एवं लखपतिया को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत प्रमाण-पत्र तथा संजना सिंह को दिव्यांग पेंशन स्वीकृत प्रमाण-पत्र एवं मंजू देवी, ज्योति देवी व सुमन देवी को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रमाण-पत्र तथा आराधना देवी, रेखा देवी व पुष्पा देवी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी की डमी चेक वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा संचालित अनुदान योजनान्तर्गत किसान उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति को इन-सीटू योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अनुदान धनराशि का डमी चेक वितरित किया। इसी प्रकार शिवम साहू एग्रीफार्मर प्रोड्यूशर लि0 को बैंक मशीनरी एवं सत्यम व राम प्रकाश को यन्त्रीकरण योजना के तहत पॉवर स्प्रेयर मशीन तथा ऊधो श्याम मिश्रा व रामदुलारी को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प की स्थापना के लिए अनुदान धनराशि का डमी चेक वितरित किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अटसराय के निपुण विद्यार्थियों-जानवी, वन्दना, राधिका मौर्य, अंशिखा मौर्य, अंशिखा पाल, नीरज, आयुष कुमार, नीरकान्त, मो0शाद व प्रशान्त को निपुण प्रमाण-पत्र एवं शिक्षण सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर सांसद विनोद सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य व जनपद के प्रभारी अवधेश गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंझनपुर वीरेन्द्र फौजी व भरवारी कविता पासी, पूर्व विधायक लाल बहादुर व शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी तथा जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मुकेश सिंह चौहान ने वाराणसी की घटना पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

बलरामपुर अवधनामा संवाददाता। जनपद मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के प्रदेश महामंत्री व जिला प्रभारी श्री मुकेश सिंह चौहान प्रदेश सचिव व प्रभारी राणा शिवम सिंह के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि आज पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है अपराधी बेख़ौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर है इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वालों अपराधों में 15 प्रतिशत अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं हालात कितने बद्तर हो गए हैं इसकी सिर्फ दो बानगी देखिए एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां दिनांक 2 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा का तीन लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया दिनांक 3 दिसंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है इस पर उनके खिलाफ फिर दर्ज कर दी गई दिनांक 5 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया ऐसे में सवाल या उठना है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में दो महीने क्यों लगे क्या पांच राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही थी अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है और दुर्भाग्य है कियह घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है।

जलेसर में बने घंटे को श्री राम मंदिर अयोध्या में किया जाएगा स्थापित

फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में लगने वाले अष्ट धातु के विशाल घंटा का रथ यात्रा को बीती रात जनपद से अयोध्या ले जाया गया। श्रीराम के अयोध्या में बन रहे हैं भव्य मंदिर में लगने वाले 2100 किलो वजन के अष्टधातु घंटा को जनपद एटा के जलेसर में बनाया गया है। बीती रात जलेसर अलीगंज होकर घंटे की शोभायात्रा कायमगंज सीमा पर पहुंची। भाजपा एवं तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और लोगों ने जय श्री राम का उदघोष किया। कायमगंज ट्रांसपोर्ट चौराहे पर ब्लॉक प्रमुख पति अरुण दुबे के नेतृत्व में भाजयुमो पूर्व नगर अध्यक्ष देवेंद्र दुबे अमर गुप्ता एवं सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रात्रि को भारी भीड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवाओं ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी चलाने से कायमगंज नगर की सड़कों पर जय श्री राम के जयकारों से गूजता रहा द्ययात्रा कायमगंज से फर्रुखाबाद नगर के प्रसिद्ध गुड़गांव देवी मंदिर पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता एवं सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में भाजपा जिला महामंत्री हिमांशु गुप्ता जिला महामंत्री डीएस राठौर अजीत पांडे पूर्व सभासद प्रबल त्रिपाठी जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी सह मीडिया प्रभारी पीयूष त्रिपाठी एवं सैकड़ो भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान रथ पर 2100 किलो वजन के अष्टधातु घंटा की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उतारी गई। मंदिर पर बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ता युवा जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगा रहे थे द्य तो भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने से नहीं चूके ।यात्रा के दौरान सांसद ने कहा कि पड़ोसी जनपद एटा के जलेसर कस्बे में निर्मित हुए अष्टधातु के घंटा को अयोध्या के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में स्थापित किया जा रहा है जो कि जनपद से होकर अयोध्या पहुंचेगा। यह अवसर वर्तमान पीढ़ी के लिए बड़े सौभाग्य का है जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। हर जगह प्रभु श्रीराम का गुणगान हो रहा है जगह-जगह यात्रा का स्वागत है।

शशि रंजन तिवारी बने भाजपा बनकटा के मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में हर्ष

देवरिया अवधनामा संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी जनपद देवरिया के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जनपद में संगठनात्मक फेर बदल करते हुए 11 मंडलों में नया मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिसके क्रम में भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र के बनकटा मंडल में सत्येंद्र पांडेय की जगह शशि रंजन तिवारी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पूर्व भाजपा के मंडल महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में वह बनकटा मंडल के मंडल उपाध्यक्ष थे। शशि रंजन तिवारी पार्टी के एक निष्ठावान एवं जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता स्वर्गीय राकेश तिवारी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे। मंडल अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। वही पर घाटी मंडल में अनिल शाही, पड़री में संजय पटेल एवं भाटपार रानी में राजेंद्र जायसवाल पर पार्टी ने पुनः विश्वास जताया है। इन सभी के मनोनयन पर जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, सांसद रवींद्र कुशवाहा, विधायक सभा कुंवर कुशवाहा, क्षेत्रीय मंत्री हरिचरण कुशवाहा, राजकुमार शाही, अजय कुमार दुबे, सुशील कुमार शाही, जयनाथ कुशवाहा गुड्डन, अशोक सिंह कुशवाहा, बिंदा कुशवाहा, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, डॉक्टर अरविंद सहाय, सुरेश तिवारी, सुरेंद्र सिंह टुनटुन, जयप्रकाश तिवारी, संतोष पटेल, विवेक कुशवाहा, सुरेश शर्मा, उत्सव कुशवाहा, राजन कुशवाहा, पंकज गोंड, आनंद पियूष उपाध्याय, चंदन मद्धेशिया, दुर्गेश्वर सोनी, राजेश गुप्ता, हृदय लाल शर्मा, अमरेंद्र मौर्य, देवा मौर्या, विशंभर पांडेय, हृदयानंद गुप्ता, हरिकेश कुशवाहा, अनिरुद्ध कुशवाहा, राकेश पाण्डेय ने प्रसन्नता व्यक्त किया।

तीसरी बार हंगामे के बीच कोटे की चयन प्रक्रिया रद्द

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। सहजनवा ब्लाक के ग्राम पंचायत कट्या में रिक्त चल रहे कोटे के चयन प्रकिया को हंगामे की वजह से तीसरी बार रद्द कर दिया गया। आगे की बैठक बुधवार को रखी गई है। मिली जानकारी से मंगलवार को कोटे चयन के लिए तीसरी बार खुली बैठक बुलाई गई थी। तहसीलदार राकेश कन्नौजिया की अध्यक्षता में खुली बैठक आयोजित किया गया। और दावेदारो से प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिए। दो पक्षों ने अपने प्रमाण पत्र जमा किया। लेकिन एक पक्ष के जगत नारायण द्वारा इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। अधिकारी प्रमाण पत्र जमा करने के लिए शपथ पत्र लिया। जिसमे एक सप्ताह का समय दिया था। जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जिससे खुली बैठक को रद्द करते हुए बुधवार को बैठक बुलाने की तिथि जारी कर दी। खुली बैठक में दोनो पक्षों ने काफी भीड़ जुटा रखी थी। इस दौरान नायब तहसीलदार भान प्रताप सिंह, एडीओ पंचायत अभय कुमार ग्राम सचिव गौरी सिंह,प्रधान सुशील सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

सड़क हादसे में महिला की मौत पति घायल

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। गीडा थाना क्षेत्र के बोकटा चौराहे पर इलाज कराने जा रहे दंपत्ति के बाइक में कंटेनर ने ठोकर मार दिया। जहां 60 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने केंटेनर को कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी से गौरी शंकर कन्नौजिया निवासी वार्ड 4 केशोपुर अपनी पत्नी मंतीरा देवी 60 को बाइक पर बैठाकर गोरखपुर इलाज कराने जा रहे थे। बोकटा चौराहे पर पहुंचे थे कि कंटेनर ने बाइक में ठोकर मार दिया। जिससे महिला कंटेनर के नीचे चली गई। जिसकी मौके पर मौत हो गई। तथा पति गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतिका के चार संताने 3 लडकिया और एक लड़का है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तथा कंटेनर को कब्जे में ले लिया है।

हर चुनाव में सपा का खुलकर विरोध करें

आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने सपा पर बोला हमला

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण का झूँठा ऐलान करने की साज़िश में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी शामिल कर लिया और हुआ वही जिसका अंदाजा पहले से था वोट लेकर सत्ता में आने के बाद सपा वादा भूल गई। हैरत तो यह कि सपा के सुर में सुर मिलाने वाले मौलाना भी सपा से दूर नही हुए बल्कि उनका साथ पहले की तरह मजबूत है। अब यह बताने की जरुरत नही कि झूठ किसने बोला और शिकार कौन हुआ।

यह बात आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने अपने बयान में कही है। उन्होंने अपनी बात तफसील से रखते हुए कहा कि वर्ष 2012 के चुनाव से पहले जारी विधानसभा के सपा के घोषणापत्र में मुसलमानो को 18 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया गया। सपा के इस ऐलान में मुसलमानों के धर्मगुरु फिरंगी महली व जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना मदनी, बुखारी आदि भी शामिल रहे और मुसलमानों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सपा के झूठ की कलई आखिर खुल ही गई और पता चल गया कि यह घोषणा केवल सत्ता में लौटने के लिए एक हथियार भर ही था क्योंकि सरकार में आने के बाद सपा मुखिया ने इस पर बात करना भी गंवारा नही किया। उन्होंने कहा कि सपा ने तो मुसलमानों के साथ धोखा किया ही उनसे बड़ा फरेब मौलाना व धर्मगुरुओं ने किया। सपा द्वारा 18 फीसदी आरक्षण का वादा पूरा न किये जाने पर किसी ने उनके इस कृत्य का विरोध नही किया। चाहे फिरंगी महली हो, बुखारी हो या अरशद मदनी सपा के इस धोखे का इन लोगों ने न विरोध किया और न ही सपा का साथ ही छोड़ा क्योंकि अगर ये वाकई तब पाक साफ रहे होते और उसके हिमायती न होते तो सपा से धोखा खाने के बाद, अब तक चाहे एक साथ या अलग-2 कई बार प्रेस कांफ्रेंस करके ऐलान या अपील कर चुके होते कि घोषणापत्र में वादा करके आरक्षण ना देने वाली धोखेबाज समाजवादी पार्टी को, मुसलमान वोट बिलकुल ना दें और हर चुनाव में सपा का खुलकर विरोध करें, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी सियासी पार्टी या सियासी नेता मुसलमानों से झूठे वादे करने वा धोखा देने की हिम्मत दुबारा ना कर पाता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे जाहिर है कि जितना मुसलमान सियासी दलों की साजिश का शिकार हुए उससे अधिक वह मुस्लिम धर्मगुरु व अगुवाई करने वालो के निशाने पर रह। बार बार किसी की कठपुतली बनने से बेहतर है कि मुसलमान उसके साथ कदम से कदम मिलाए जो भागीदारी व हिस्सेदारी की बात करे और न सिर्फ कहे बल्कि करके दिखा दे।

कांग्रेस प्रदेश महासचिव का तंज,भाजपा सरकार में महिलाएं हैं असुरक्षित

फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए प्रकाश प्रधान प्रदेश महासचिव ने भाजपा पर तंज कसा कि जवानी से 13 से किया बार उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट की आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15 प्रतिशत अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं जैसे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां दो नंबर 2023 को आईआईटी की छात्रा को तीन लड़कों द्वारा गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया और 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है द्य इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। पांच नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को उनकी पहचान कर ली गई और आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के प्रचार में भेज दिया गया ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपी पकड़े भी नहीं जाते यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और दुर्भाग्य है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी की है और ऐसी ही दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री के गोरखपुर की है जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया यह बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं द्य योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा कसता गया और कर्मचारियों पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखने के लिए बढ़ाई गई यह मोटिवेट व्यक्तिगत कुंडा और राजनीतिक विदेश से प्रेरित है योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है न्यायिक मांग की जांच करती है। इस दौरान प्रकाश प्रधान प्रदेश महासचिव, मृत्युंजय शर्मा, अंकुर मिश्रा कार्यवाहक कांग्रेस कमेटी, हिलाल शफीकी, जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया प्रभारी, प्रमोद कुमार पांडे, अम्मार अली जिला कोआडीनेटर, अमित कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे।

रोजगार मेला आयोजित

अवधनामा संवाददाता

मैनपुरी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अन्तर्गत उ.प्र कौशल विकास मिशन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय आईटीआई परिसर में आयोजित विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के द्वारा किया गया। रोजगार मेले में उपस्थित युवाओं को सम्बोधित करते हुये जिलाध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र-प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में निरतंर कार्य कर रही है, विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें प्रतिष्ठित कम्पनियों में रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के लिए वृहद स्तर पर विकास खंडों पर रोजगार मेले आयोजित कराकर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य निरतंर संचालित है। कार्यक्रम में जिला सेवायोजन अधिकारी विकास मिश्रा, प्रधानाचार्य, जिला समन्वयक रवि भूषण, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करहल श्याम बाबू, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोगांव अरूण कुमार, जिला कौशल प्रबन्धक फिरोज खान, जिला प्रोग्राम मैनेजर डीडीयू-जीकेवाई अभिषेक कुमार चौरसिया, गौरव कुमार यादव, एवं राजकीय आईटीआई के अनुदेशक आदि ने प्रतिभाग किया।

नियमित टीकाकरण के लिए एएनएम का प्रशिक्षण जरूरी

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। जिले में टीकाकरण बेहतर तरीके से हो, इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय के धनवंतरी सभागार में नव नियुक्त 20 एएनएम (सहायक नर्स दाई) को नियमित टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को सीएमओ डॉ राजेश झा की अध्यक्षता में हुआ। प्रशिक्षण में शहर की नौ और मझगांवा की 11 एएनएम सहित कुल 20 एएनएम को नियमित टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। इसके साथ ही एनएनएम को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान सीएमओ डॉ राजेश झा ने कहा नियमित टीकाकरण के सफल संचालन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को नियमित टीकाकरण के फायदे के बारे में अवगत कराना, इसके रख-रखाव के तरीके व किस वक्त कौन सा टीका लगाया जाये, इस संबंध में प्रशिक्षित होना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ संजय गुप्ता ने बताया नियमित टीकाकरण के तहत बच्चों को 12 प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव के टीके सरकारी प्रावधानों के तहत लगाए जाते हैं। इनमें टीबी, हेपेटाइटिस-बी, पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, टिटनेस, डायरिया, निमोनिया, खसरा, रूबेला एवं जापान इंसेफेलाइटिस आदि हैं। उन्होंने बताया- टीबी की रोकथाम के लिए बच्चों को जन्म के पश्चात बी.सी.जी. का एक टीका दिया जाता है। हेपेटाइटिस-बी, जो कि एक विषाणु के कारण होता है, जिससे लिवर प्रभावित होता है। पोलियो जिससे बच्चों के शरीर के किसी भाग में अचानक कमजोरी आ जाती है। गलाघोंटू जो आम तौर पर गले और टॉन्सिल को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इस प्रकार अन्य कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी तालिका के अनुरूप नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को सभी जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाये जाते हैं। दो दिवसीय प्रशिक्षण में यूनिसेफ के डीएमसी अरशद जमाल , जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता विश्वनाथ मल्ल ने नियमित टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रशिक्षण में डीडीएम प्रमोद यादव, संजय त्रिपाठी, , रेनू शर्मा, सरिता, पुष्पा, सुनीता, अनीता दुबे, विमला, वंदना, नीलम कुशवाहा, मधु तिवारी, प्रियंका, मधु, रीता सहित अन्य एएनएम शामिल रहीं।

बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाता है संपूर्ण टीकाकरण

समय-समय पर टीकाकरण की मिली जानकारी

एएनएम वंदना ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टीकाकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। उन्हें बताया गया कि बच्चे के जन्म के बाद बीसीजी, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ओपीवी दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को डेढ़ माह पर ओपीवी की पहली डोज, रोटा की पहली डोज, पीसीवी की पहली डोज, एफआईपीवी की पहली डोज और पेंटा की पहली डोज दी जाती है। इसके साथ ही ढाई माह पर कौन सा टीका और पांच वर्ष पर कौन सा टीका लगेगा इसकी जानकारी प्रशिक्षण में मिली है।

गरीबों की आसा पूरी करने का संकल्प एसएलमजी ग्रुप का नया सामाजिक उद्देश्य

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। लधानी समूह की कंपनी, एसएलएमजी बीवरेजेज, जो Coca Cola के भारत में प्रमुख बोटलिंग कंपनी के रूप में प्रसिद्ध है, और बीवरेजेज उद्योग में अग्रणी है, हमेशा से ही इस कंपनी ने समाज में योगदान करने का संकल्प दिखाया है।

इस संकल्प के परिणामस्वरूप, एसएलएमजी बीवरेजेज ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मंदिर हनुमान सेतु पर गरीबों को कंबल दान करने का कार्य किया। इस श्रेष्ठ कार्य में लधानी समूह ने 150 कंबल गरीबों को वितरित किए, जो ठंड से बचाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी कोविड काल में केजीएमयू में मास्क, सेनेटाइजर, और हैंडग्लब्स का वितरण किया गया था। कंबल वितरण के माध्यम से, ठंड से बचाव में सहायक होने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे गरीब लोगों को ठंड से राहत मिलती है। विवेक लधानी , संयुक्त प्रबंध निदेशक, एसएलएमजी बीवरेजेज, इसके माध्यम से, समाज में सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है और गरीबों को उच्चतम स्तर की जीवनस्तर की ओर एक कदम बढ़ाया जा सकता है। यह सामाजिक पहल गरीबों के प्रति समर्पित है और समृद्धि के अभिवृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। रचित लधानी, एसएलएमजी बीवरेजेज ने इस मौके पर एसएलएमजी बीवरेजेज के समाज सेवा में दिए जाने वाले संकल्प की बात की और बताया कि कंपनी समय-समय पर गरीबों की मदद के लिए उत्साहित रहेगी। उन्होंने आने वाले समय में भी समाज के कल्याण के लिए और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने का संकल्प किया। उन्होंने इस समर्थन और सेवाभाव से यह भी जताया कि मंगलवार को राम भक्त हनुमान जी का दिन है और उन्होंने आशा जताई कि बजरंग बली की कृपा हमें और हमारे देश को सदैव प्रेरित करती रहेगी। सौरभ लधानी, एसएलएमजी बीवरेजेज ने कहा की इस प्रकार के सामाजिक कार्यो से गरीब और आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मदद पहुंचती है। इस सामाजिक पहल के माध्यम से, समाज उन व्यक्तियों की समर्थन में शामिल होता है जो आर्थिक कमी और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इससे समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम और बढ़ता है।

कार्यालय-अधिशासी अभियन्ता (मु0)
जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग, लखनऊ

पत्रांकः 1888/ई0ई0(एच0क्यू0)/2023-24
दिनांकः 09/01/2024

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

जलकल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 18/01/2024 को अपरान्ह 03:00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय के कार्यालय के कैश काउन्टर से प्राप्त किये जा सकते है। सील्ड निविदायें दिनांक 18/01/2024 को अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय के कार्यालय में अपरान्ह 3:30 बजे तक सील्ड टेण्डर बाक्स में प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 18/01/2024 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे मुख्यालय के कार्यालय में खोली जायेंगी।

1. जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग मुख्यालय द्वारा वार्ड संख्या–104, अहियागंज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड मे श्री जीतू यादव के घर के पास लालबन्दी टोला में नये समरसेबिल पम्पसेट अधिष्ठापन इत्यादि का कार्य, धरोहर धनराशि रु0 4,500.00 एवं निविदा मूल्य रु0 200.00

अधिशासी अभियन्ता (मु0)
जलकल विभाग,
नगर निगम, लखनऊ

पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है: आलोक प्रसाद

अवधनामा संवाददाता

अयोध्याधाम। अयोध्या लोकसभा के प्रभारी तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर प्रदेश सरकार में बढ़ते हुई अपराध

को लेकर मे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध जताया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोकसभा प्रभारी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वालों अपराधों में 15 प्रतिशत अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। आलोक प्रसाद ने अपराधों पर बात करते हुए कहा इसकी सिर्फ दो बानगी देखिए एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां 02 नवम्बर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा का तीन लड़कों द्वारा जबरन गन प्वांइट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। 03 नवम्बर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। 05 नवम्बर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 08 नवम्बर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियो की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में दो महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और दुर्भाग्य यह है की ये घटना भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। आलोक प्रसाद ने कहा दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया।

श्रीरामलला प्राण-प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रीय उत्सव, 22 जनवरी को शिक्षण संस्थाओं में अवकाश: मुख्यमंत्री

अवधनामा संवाददाता

अयोध्याधाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्याधाम में बहुप्रतीक्षित श्रीरामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव% की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएं। मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने श्रीरामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन-पूजन के उपरांत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद, आयुक्त सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और

आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए। हर एक वीवीआईपी के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मौसम के दृष्टिगत संभव है कि कुछ अतिथि एक-दो दिन पहले ही आ जाएं, ऐसे में उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं हैं। होम स्टे की व्यवस्था भी है। टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25-50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से रामभक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं। संविधान की 08वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 06 भाषाओं में साईनेज हों।मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिथ्य-सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जनसहयोग लें। धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल न उड़े, गंदगी न हो। जगह-जगह कूड़ेदान रखे हों। वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। अभी 3800 से अधिक स्वच्छताकर्मी तैनात हैं, 1500 कर्मचारियों की संख्या और बढाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या प्रतिबंधित पॉलीथिन मुक्त नगर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता विषयक विशेष अभियान चलाएं। नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम करोड़ों सभी सनातन आस्थावानों के लिए हर्ष-उल्लास, गौरव और आत्मसंतोष का अवसर है। पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को सायंकाल हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों/प्रतिष्ठानों में रामज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा।

रोडवेज बस ने ऑटो मे मारी टक्कर एक की मौत तीन घायल

अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र में अयोध्या - लखनऊ हाइवे पर सोहावल चौराहा के निकट मंगलवार को सुबह परिवहन निगम की बस ने एक आटो में टक्कर मार दी। कोहरे के चलते हुए इस हादसे में आटो चालक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि आटो अयोध्या से भेलसर जा रहा था। इसी दौरान रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक आटो चालक का नाम मनोज तिवारी निवासी दर्शननगर बताया गया है। अन्य घायलों में अर्चना तिवारी, बालिका आदित्या व एक अन्य अज्ञात शामिल है। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि रोडवेज बस लेकर चालक मौके से फरार हो गया। जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

मण्डलायुक्त ने डॉ भुवन को मेडल पहनाकर किया सम्मानित

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में दो दिवसीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भवदीय शूटिंग रेंज अयोध्या

में किया गया जिसमें प्रदेश के 500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जैसे नोएडा, गाजियाबाद ,लखनऊ, प्रयागराज, सुल्तानपुर ,बस्ती , मेरठ आदि जिले के निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया, निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों को कमिश्नर गौरव दयाल ने अपने हाथों से मेडल पहनाकर सम्मानित किया और बधाई दी, इस प्रतियोगिता में शहर के विशिष्ठ डॉ डीआर भुवन ने भी शूटिंग बाजी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था ,जिन्हें सीनियर मास्टर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, अब तक डॉ भुवन को 46 मेडल प्राप्त हो चुके हैं, डॉक्टर भुवन की जीत पर अयोध्या के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है ,डॉ भुवन ने अपनी जीत का श्रेय मंडल कोच सनी वर्मा को दिया है ,इस मौके पर इंडिया शूटिंग टीम कोच दीपक कुमार दूबे ने कहा की शूटिंग प्रतियोगिता में जितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया उनका सराहनीय प्रदर्शन रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेलों इंडिया को ग्रास रूट तक ले जाना नए खिलाड़ियों को तैयार करना जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम रोशन करें इस तरह शूटिंग के गुण खिलाड़ियों को सिखाएं,वही अयोध्या मंडल कोच शनि कुमार वर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं और बाहर देशों में जाकर भी हमारे शूटिंग रेंज का नाम रोशन कर रहे हैं,।

रामनगरी में टूटेगा सऊदी अरब का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। सूर्यवंश की गौरवशाली राजधानी अब सूर्य की ही आभा से नव्य-भव्य स्वरूप को प्राप्त करने के साथ ही वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या को सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार जिस सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उल्लेख होने वाला है। सीएम योगी के दिशा-निर्देशन में बनी विशिष्ट कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) जल्द ही %दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन% परियोजना को पूर्ण करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.15 किमी के स्ट्रेच में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाकर यूपीनेडा अयोध्या की गौरवगाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। फिलहाल, करीब 70 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है और 22 जनवरी से पहले ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जाएगा।

जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फिर से अयोध्या का नाम होगा दर्ज

अयोध्या का नाम यूं तो दीपोत्सव को लेकर पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, मगर अब अयोध्या में सौर ऊर्जा के जरिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार द्वारा पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी (अयोध्या) प्रवीण नाथ पाण्डेय ने बताया कि 22 जनवरी के पहले ही अयोध्या में लक्ष्मण घाट से लेकर गुप्तार घाट होते हुए निर्मली कुंड तक 10.2 किमी के स्ट्रेच में 470 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 30 प्रतिशत कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट तक 310 सोलर लाइट्स को इम्पैनल्ड करके रोलआउट कर दिया गया है। जबकि गुप्तारघाट से लेकर निर्मली कुंड तक 1.85 किमी के स्ट्रेच में 160 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य जारी है। यह सभी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटें एलईडी बेस्ड हैं जो कि 4.4 वॉट पावर पर कार्य करती हैं तथा स्मार्ट टेक्नोलॉजी युक्त हैं। इनके इंस्टॉलेशन के जरिए लक्ष्मण घाट से लेकर निर्मली कुंड तक 10.2 किमी का स्ट्रेच दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा।

योगी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित परियोजना के जरिए जिस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने की प्रक्रिया के तहत कार्य जारी है वह फिलहाल सऊरी अरब के मलहम के नाम दर्ज है। यहां वर्ष 2021 में %लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स% के तौर पर गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया गया था। मलहम में 9.7 किमी स्ट्रेच में 468 सोलर पावर्ड लाइटें लगाकर वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया गया था, जबकि अब योगी सरकार के विजन अनुसार अयोध्या में 10.2 किमी स्ट्रेच में 470 सोलर पावर्ड लाइटें लगाकर इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जाएगा।

दीपोत्सव के बाद अब नया रिकॉर्ड बनाने पर हो रहा काम

वर्ष 2023 में दीपावली के वक्त सरयू घाटों पर दीपोत्सव में अवध विश्वविद्यालय के 25000 वॉलेंटियरों ने मिलकर 22.23 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई थी। ऐसे में, 22 जनवरी को जब प्रभु रामलला का श्रीविग्रह भव्य रामजन्मभूमि मंदिर में सुशोभित होगा, ऐसे में एक बार फिर सूर्यवंश की गौरवगाथा को नया प्रतिमान देते हुए सोलर पावर्ड स्ट्रीट्स लाइट्स की सबसे लंबी श्रृंखला को अयोध्या में संचालित करके इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित किया जाएगा।

सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिला: सांसद लल्लू सिंह

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मिल्कीपुर विधानसभा के रायपटी में लगाये गये शिविर में सांसद लल्लू सिंह व क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह सम्मलित हुए। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किए गये शिविर में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उसके निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देर्शित किया। उपस्थित जनसमूह के साथ नेताओं ने प्रधानमंत्री के संवाद को लाइव सुना। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिला है। सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलते हुए हम सबका विश्वास हासिल करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे है। इसमें सबका प्रयास समाहित है। अयोध्या विश्व पयर्टन के मानचित्र पर स्थापित हो गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को वैश्विक मानकों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही है।उन्होंने कहा कि अयोध्या विश्व मानचित्र पर स्थापित हो रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाओं में

एयरपोर्ट, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री द्वारा जनता को सर्मपित किया जा चुका है। अयोध्या में परिवाहन की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चस्तरीय सड़के व ओवरब्रिज बनाए जा रहे है। क्षेत्रीय मंत्री विजय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आवाहन के अनुसार सभी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की सायंकाल अपने घर को राम ज्योति से प्रकाशित करें।

जागरूकता शिविर में बंदियों को दिलाई फाइलेरिया उन्मूलन की शपथ

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 से 28 फरवरी के बीच सर्वजन दवा सेवन (आईडीए) अभियान चलाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा आइवरमेक्टिन, डाईथाईल कार्बामजीन और एल्बेंडाजोल खिलाएंगे। इस क्रम में जिला कारागार में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान एवं स्वयं सेवी संस्था प्रोजेक्ट कंसर्न इंटर नेशनल (पीसीआई) के सहयोग से एक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में बंदियों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें फाइलेरिया उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के नोडल अफसर और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वीबीडी) डॉ. डीके श्रीवास्तव ने बताया कि आईडीए अभियान के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी।

इस मौके पर कारागार के चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने सामने ही फाइलेरियारोधी दवा का सेवन करवाएंगे। दवा खाली पेट नहीं खानी है। दवा खाने के बाद किसी-किसी को जी मिचलाना, चक्कर या उल्टी आना, सिर दर्द, खुजली की शिकायत सामान्य प्रक्रिया है।

पीसीआई संस्था की जिला मोबिलाइजेशन समन्यवक महक पांडेय ने बताया कि फाइलेरियारोधी दवा का सेवन एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर बीमार को छोड़कर सभी को करना है। एक से दो वर्ष की आयु के बच्चों को केवल एल्बेंडाजोल की आधी गोली ही खिलाई जाएगी। इस अभियान के दौरान एएनएमए, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवाएं अपने सामने ही खिलाएंगी, ध्यान रखें कि दवा खाली पेट नहीं खानी है। शिविर में करीब 250 बंदियों के अलावा जेलर आलोक कुमार शुक्ला व फार्मासिस्ट विजय नारायण मौर्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

वृद्ध समेत दो लोगों की अस्वाभाविक मौत

बाराबंकी। बीते 24 घण्टे में दो अधेड़ व्यक्तियों की अस्वाभाविक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

जानकारी के अनुसार बसंत लाल रावत (53) पुत्र स्व. कन्हैयालाल निवासी ग्राम लालापुर मजरे पिपरौली थाना जहांगीराबाद बीते दिन दोपहर को गॉव के दो किमी दूरी पर बाग में फरेंदा के पेड़ पर चढ़ कर लकड़ी तोड़ रहे थे। तभी पैर फिसलने से जमीन पर गिरकर मौत हो गई। दूसरी घटना दरियाबाद थाना क्षेत्र में हुई। अंकुर सिंह 35 पुत्र चंद्र बख्श सिंह निवासी ग्राम पूरे अंगद थाना परसपुर जनपद गोण्डा अपने घर से एक किमी दूर कमियार थाना दरियाबाद स्थित खेत से आवारा पशु भगा रहा था। इसी दौरान वह दोपहर को विद्युत पोल के स्टे में उतरे करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर मौत हो गई।

विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सांसद ने किया संवाद

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। विकास खण्ड सिद्धौर के ग्राम पंचायत मुर्तजीपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित सांसद उपेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। सांसद उपेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, उज्जवला कनेक्शन, शौचालय, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सांसद ने पंचप्रण की शपथ दिलायी। और कहा कि विकसित भारत का निर्माण और अंत्योदय का मोदी जी का संकल्प इस यात्रा के माध्यम से साकार हो रहा है और यह देश के जन-जन में मोदी की गारंटी÷ का प्रत्यक्ष प्रमाण बन कर उभर रही। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष प्रवीण सिंह, राम कुमार मिश्रा, मदन किशोर, फूल चन्द्र अनुराग रावत, लल्लू रावत, राम राज कनौजिया, सुरजीत पाल, सत्यनाम सिंह वर्मा, दिनेश शर्मा, हनोमन वर्मा, जितेन्द्र वर्मा, रमाकांत, पवन मिश्रा, संदीप, अजय वर्मा, अलोक वर्मा, प्रवेश प्रजापति, कमला प्रसाद रावत, पुष्पेन्द्र कुमार, यदुनाथ दिवेदी, संजय कुमार, सुरेद्र वर्मा, जितेन्द्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, हरिओम वर्मा, लक्ष्मी राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सरकारी अधिकारियों को भाजपा के रंग में रंगने का काम कर रही यूपी सरकार: सुशील

बाराबंकी। भाजपा सरकार में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं पुलिस के हाथ संविधान से नहीं सरकार अपने हिसाब से चला रही है सरकारी अधिकारियों को सरकार भाजपा में रंगने का काम कर रही है ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। कल 10 जनवरी को राज्यपाल को ज्ञापन दे कर घटना की निन्दा एवं न्याय की मांग करेगी।

उक्त बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जनपदीय प्रभारी सुशील पासी ने आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उनके साथ जनपदीय प्रभारी, नवनियुक्त प्रदेश सचिव डॉक्टर मो0 शहजाद आलम भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुशील पासी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2 नवंबर 2023 को आईआईटी के बीएचयू की छात्रा के साथ तीन लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर दुष्कर्म किया गया और वीडियो बनाया गया और 3 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा बता दिया गया की घटना कों भाजपा के लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और 5 नवंबर को जब सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान कर ली गई और 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा पहचान लिया गया तो भाजपा द्वारा दुष्कर्म अपराधियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में भेज दिया गया। जघन्य घटना से यह प्रतीत होता है कि भाजपा का बेटी पढाओ - बेटी बचाओ का नारा सिर्फ दिखावा है हमारे प्रदेश के बेटियां सत्ता संरक्षित अपराधियों से सुरक्षित नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील पासी एवं प्रदेश सचिव डॉक्टर मो0 शहजाद आलम ने बताया कि यह बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर निवासी विनोद उपाध्याय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुराने विरोधी रहे है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, पार्टी प्रवक्ता सरजू शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा फोटोवाला, प्रदेश सचिव आदर्श पटेल, सलमान कादीर, सिकंदर अब्बास रिजवी, दिलशाद वारसी, अजीत वर्मा प्रशांत सिंह, अफजाल घोसी आदि कांग्रेसजन रहे।

नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पर किया हंगामा

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज। शिक्षक भर्ती के दूसरी काउंसलिंग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जॉइनिंग लेने पहुंचे 187 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जम कर हंगामा किया। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार की दोपहर में डायट कार्यालय से नियुक्ति पत्र लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जॉइनिंग करने पहुंचे थे कि तभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित भर्ती पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद विभाग ने उन्हें ज्वाइन कराने से इंकार कर दिया और शिक्षक अभ्यर्थी आग बबूला हो गए। शिक्षक अभ्यर्थियो का आरोप था कि विभाग ने जान बूझ कर उन्हें ज्वाइन कराने में देरी की है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 5 जनवरी को काउंसलिंग के बाद विभाग को नियम से 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए था लेकिन 6 जनवरी तो दूर विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को 7 जनवरी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इतना ही नहीं 8 जनवरी को जो नियुक्ति पत्र उन्हें दिया गया उस पर 7 जनवरी की ही तिथि अंकित है। जब की यह नियुक्ति पत्र आठ जनवरी की दोपहर में सभी को उपलब्ध कराया गया है। जिसके कारण शिक्षकों को ज्वाइन करने में समस्या आ रही है। हंगामें के बाद मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा के काफी समझने के बाद अभ्यर्थी शांत हुए और सभी को बीएसए ऑफिस में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया गया। जिसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में संबंधित भर्ती को लेकर स्थगन आदेश जारी होने के कारण ज्वाइन करने से उच्च अधिकारियों ने रोक लगाई है जिसके क्रम में सभी को हस्ताक्षर करा लिया गया है। मामले को शांत कर दिया गया है। शासन का जैसा निर्देश होगा उसी क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

अवैध नेपाली स्क्रैप के साथ दो गिरफ्तार

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज। ठूठीबारी भारत नेपाल सीमा पर ठूठीबारी में तैनात 22वी बटालियन के एसएसबी जवानों ने मुखबिर के सूचना पर स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के नौवाबारी गांव के समीप से घेराबंदी करके दो नेपाली व एक भारतीय ट्रैक्टर ट्राली पर लदी भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप के साथ दो नेपाली नागरिक को किया गिरफ्तार । एसएसबी टीम ने बरामद तस्करी के कबाड़ समेत दोनो युवकों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई के हेतु निचलौल कस्टम विभाग को सुपुर्द कर दिया है। अवैध तस्करी के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम के क्रम में ठूठीबारी तैनात 22वी बटालियन के एसएसबी टीम ने मुखबिर के सूचना पर बीती रात स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के नौवाबारी गांव के समीप से दो नेपाली व एक भारतीय ट्रैक्टर ट्राली पर लदी कबाड़ बीयर बोतल 1600 किलोग्राम, स्टील कबाड़ 2000 किलोग्राम, प्लास्टिक स्क्रैप 2200 किलोग्राम बरामद कर दो नेपाली नागरिक अरुण राय व राम केवल कोइरी को गिरफ्तार किया है। वही एक युवक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इस बाबत एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश कुमार विश्वास ने बताया की तीन ट्रैक्टर ट्राली पर लदी नेपाली स्क्रैप के साथ दो नेपाली युवक को हिरासत में लेकर निचलौल कस्टम विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है।

सपा विधायक पदयात्रा कर पहुंचे महादेवा मंदिर, किया जलाभिषेक

मसौली बाराबंकी। सपा के सदर विधायक सुरेश यादव ने मंगलवार को जिला मुख्यालय से महादेवा तक पैदल यात्रा कर लोधेश्वर महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान जगह जगह सपा कार्यकर्ताओ ने सदर विधायक का फूल मालाओ से स्वागत किया। सपा उम्मीदवार धर्मराज यादव उर्फ़ सुरेश यादव ने जीत पर पैदल यात्रा कर जलाभिषेक की मन्नत मांगी थी। चुनाव मे हैट्रिक लगाने वाले सदर विधायक सुरेश यादव ने मंगलवार को अपने सैकड़ो समर्थको के साथ पैदलयात्रा कर महादेवा मे जलाभिषेक किया। इस दौरान सदर विधायक का जगह जगह सपा कार्यकर्ताओ ने स्वागत किया। मसौली चौराहे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकील सिद्दीकी ने सदर विधायक का जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम से उत्साहित सदर विधायक ने कहा कि देवा एव महादेवा की पवित्र धरती से मुझे तीन बार सेवा करने का मौका मिला है। आज ही मन्नत मांगी है कि लोकसभा चुनाव मे सपा की जीत होने एव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव मे अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर पुनः पैदलयात्रा कर महादेवा मे पूजा अर्चना करने जाऊंगा। इसी क्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक प्रतिनिधि रिजवान संजय के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर धीरज रावत, विधानसभा महासचिव पप्पू वर्मा, ताजुद्दीन अंसारी, फकीर अली अंसारी, प्रवीण वर्मा, मोहम्मद शाहिद, प्रवेश वर्मा, फारूक प्रधान, उमेश यादव लल्ला यादव, बृजेश यादव, मिथिलेश वर्मा रामनरेश यादव मोहित सिंह, मोहित यादव, लवकुश यादव, उत्तम वर्मा वीरपाल वर्मा समेत आदि लोग उपस्थित रहे।

सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने इग्नू की सत्रांत परीक्षा का किया औचक निरीक्षण

अयोध्या। डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र में सत्र 2023 की सत्रांत परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनामिका सिन्हा ने औचक निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा की शुचिता के लिए पर्यवेक्षक के रूप में साकेत पी.जी. कॉलेज, हिंदी विभाग के डॉ. अनिल कुमार सिंह तैनात रहे।दूसरी ओर सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इग्नू द्वारा सत्र जनवरी 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चार वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। जिनमें बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. एवं बी.ए. मेजर इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल इंडिया, बी.ए. मेजर इन हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, एम.बी.ए. आदि विषयों में अभ्यर्थी सीधे प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त परास्नातक एम.एस.डब्लू., डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमो में प्रवेश शुरू हो चुका है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण संवाद

अवधनामा संवाददाता

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत टड़िया व जगरगठिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण संवाद व लाभार्थी परक योजनाओं की प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजन एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम में आये मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण कर बुके देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना,हर घर नल से जल, उज्जवला योजना, ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का स्टाल भी लगाया गया था। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।

ग्राम पंचायत टड़िया व जगरगठिया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रतिनिधि डा.पवन मिश्र ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का कार्य मोदी एवं योगी सरकार कर रही हैं। भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। हर घर लोगों को गैस सिलेंडर, शौचालय आदि का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। देश का विकास गाँव के रास्ते से होकर जाता है। इसलिए हम सभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने आये है। उन्होंने यह भी कहा कि पात्रता के आधार पर अब पति-पत्नी दोनों लोगों को पेंशन देने का कार्य सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने जनपद के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही और अयोध्या के भव्य रेलवे स्टेशन, मॉडर्न एयरपोर्ट के साथ भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों को सम्बोधित किया। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष एवं रमवापुर (खास) ग्राम प्रधान जफर आलम ने कहा कि कृषि प्रधान देश भारत की कृषि व्यवस्था को पीएम मोदी ने एक नया अयाम दिया है। सरकार की योजनाएं गरीबों, किसानों, युवाओं व महिलाओं तक पहुंच रही है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं। परसिया गाँव के पूर्व ग्राम सदानंद उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके घरों तक पहुँचा रही है, जिसके लिए कई विभाग केअधिकारी व कर्मचारी आकर लोगों को योजनाओं की लाभ दे रहे है। समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें लखपति बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लड़कियों की शिक्षित बनाने की बात कही। नोडल अधिकारी के रूप में एडीओ पंचायत मोहनलाल ने कहा कि हम सरकार के योजनाओं की जानकारी देने आये ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित न रह जाये।

डीएम की अध्यक्षता में हुआ जनपद स्तरीय संस्कृति उत्सव- 2023 का आयोजन

संस्कृति उत्सव का आयोजन कराने का उद्देश्य सभी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े विभिन्न विधाओं को संरक्षित रखें: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता संस्कृति उत्सव- 2023 का आयोजन जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार व सांसद डुमरियागंज प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल की उपस्थिति में मंगलवार को लोहिया कला भवन में सम्पन्न हुआ। अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि संस्कृति उत्सव का आयोजन कराने का उद्देश्य है कि सभी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। विभिन्न विधाओं को संरक्षित रखें। जिसके माध्यम से आप के आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कलाकारो के हुनर को प्रोत्साहित कर मंच के माध्यम से विभिन्न विधाओं में अपने कला प्रदर्शन कर अपने जनपद का नाम प्रदेश/देश/विदेश में रोशन में करे। मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र से तहसील स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले आज जनपद स्तर पर प्रतिभाग कर रहे है। इसमें से चयनित होने के पश्चात मण्डल स्तर पर तथा उसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करके अपने जनपद का नाम रोशन करेंगे। विभिन्न विधाओं में अच्छा प्रदर्शन कर तहसील स्तर से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगिया द्वारा लोहिया कला भवन में प्रतिभाग किया गया। निर्णायक मण्डल में दिग्विजय नाथ मिश्रा, रूपेश मिश्र, अरूण त्रिपाठी तथा मेराज अहमद थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय पर्यटन सूचना अधिकारी अंजू चौधरी, विभिन्न विधाओं के प्रतियोगी आदि उपस्थित रहे।

मातृत्व अभियान के अंतर्गत 35 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई

अवधनामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत बढ़नी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को जांच की गई। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला।अभियान के दौरान 35 गर्भवती महिलाओं की जांच पेट की जांच विटाल जांच,लैब जांच सहित पंजिका रजिस्टर पर उनको दर्ज किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि कुल 35 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई जिसमे से 9 महिलाओं को अतिजोख़िम गर्भवती श्रेणी में पाया गया जिनको जांच सहित उचित सलाह एवम दवाएं भी दी गई। इसके अलावा एचआरपी पंजिका में उनको दर्ज करते हुए उनका पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है। उन्होंने बताया कि जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे और उनको सही समय पर जांच, दवाओं की सुविधाएं मिले उसके लिए अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जांच के दौरान डॉक्टर निवेदिता,स्टाफ नर्स संध्या एवम सौम्या जैसवाल, शीला यादव, काउंसलर रिंकी, लक्ष्मी शर्मा, फर्मासिष्ट राम सहाय, एलटी अख्तर हुसैन, एमसीटीएस आपरेटर विजय कीर्ति चंदन, वार्ड ब्वाय मकसूद, जितेंद्र उपस्थित रहे।

घर-घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा का दिया जा रहा है निमंत्रण

अवधनामा संवाददाता

बस्ती। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले आम लोगों को 'अक्षत निमंत्रण' भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। विगत दिनों पहले ही भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने बस्ती किन्नरों को पूजित अक्षत बांटकर इस कार्यक्रम के लिए आमन्त्रित किया है। इसी क्रम के मंगलवार को जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कम्पनी बाग चौराहे पर मोची भाइयो को रामनामी पटका, पूजित अक्षत, भगवान राम का चित्र और एक पत्रक भेट कर इस कार्यक्रम में आमन्त्रित किया। इस आमंत्रण को पाकर मोची समाज के लोग भावुक हो गए और चेहरे पर खुशी छाई गई। मोची जगदीश प्रसाद ने कहां की पहली बार इस समाज को इतना सम्मान दिया है वो भी इतने पवित्र कार्य के लिए। इस दौरान जिलाध्ययक्ष विवेकानन्द मिश्र ने बताया की संपूर्ण भारत में, गाँव में, घर-घर में पूजित अक्षत के साथ ही राम मंदिर का फोटो भी ले जाएँगे। लोगों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह पास के मंदिर में एकत्र होकर उत्सव मनाएँ। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को टीवी पर देखने का अनुरोध किया है तथा शाम को प्राण-प्रतिष्ठा वाले दिन लोग अपने निवास पर दिवाली मनाएँ। 22 जनवरी को इन गाँवों में लोगों को अपने देवस्थल में एकत्र होने को कहा गया है। वहाँ वे एक साथ प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देख सकेंगे। कुछ स्थानों पर बड़ी स्क्रीन भी लगाए जा रहे है। गौरतलब है कि यह अक्षत जिले के कोने कोने में पहुँच चुके हैं जहाँ कार्यकर्ता इन्हें बाँट रहे हैं। घर-घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी समारोह का निमंत्रण अक्टूबर 2023 में दिया गया था। इस मौके भाजपा नेता अमृत कुमार वर्मा, नगर अध्यक्ष आलोक पाण्डेय, दिलीप पाण्डेय, श्रुति अग्रहरी, अखिलेश भट्ट अतुल, शिवम पांडेय, अभिषेक मिश्रा, बंटी, सचिन पांडेय, मुन्ना, शिवम कश्यप, डिंपल श्रीवास्तव, शिवम शर्मा, रजत विश्वकर्मा, राजन गुप्ता, पंकज पांडेय मौजूद रहे।

डीएवी पब्लिक स्कूल ने जीती कबड्डी स्पर्धा

टाण्डा अंबेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। डीएवीसीएमसी दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स जो कि डी ए वी वृजविहार गाजियाबाद में खेला गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अमबेडकर नगर जिले के डी ए वी आसोपुर टाण्डा की कबड्डी के खिलाड़ियों ने यू पी टीम से प्रतिभाग किया और क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की टीम को और सेमीफाइनल में हिमांचल प्रदेश की टीम को बड़े अंतर से पराजित किया। इसके बाद फाइनल मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए एक रोमांचक मुकाबले में दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल हासिल किया। उक्त अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन श्री आर के लीखा तथा मैनेजर श्री आर के सेट्टी ने फोन के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुवे उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद दिया। ज्ञात हो कि टीम की वापसी पर विद्यालय प्रांगण में उनका भव्य स्वागत किया गया तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जुगेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को मिठाइयाँ खिलाते हुए उनका उत्साह वर्धन किया। उनके शानदार खेल प्रदर्शन व उपलब्धि की सराहना करते हुए बताया कि यह सिर्फ विद्यार्थियों तथा विद्यालय के लिए ही नही बल्कि पूरे अम्बेडकर नगर जिले के लिए गर्व की बात है। प्रधानाचार्य ने स्कूल के टीचर्स का भी उत्साह बढाते हुए कहा कि छात्र छात्राएं देश के भविष्य हैं। इन्हें बुलंदियों पर ले जाना हम सभी का कर्तव्य है।

जेडी एस कपिलवस्तु ने खान क्रिकेट क्लब ठाकुरपुर को 58 रनों से दी शिकस्त

टीसीसी सनई क्रिकेट क्लब ने स्विफ्टर कैफे क्रिकेट क्लब से 4 विकेट से जीता मैच

अवधनामा संवाददाता

बर्डपुर सिद्धार्थनगर। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कैनवस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 सीजन 2 का तीसरा एवं चौथा क्वार्टर फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। जिसमें खान क्रिकेट क्लब ठाकुरपुर एवं जेडीएस क्रिकेट क्लब कपिलवस्तु के बीच खेला गया। जिसमें खान क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। जिसके पश्चात पहले बैटिंग करते हुए जेडीएस की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में 4 विकेट पर 137 रन बनाए।

वहीं जिसके जवाब में जीत के लिए 138 रन के लक्ष्य को लेकर उतरी खान क्रिकेट क्लब ठाकुरपुर की टीम 10 ओवरों और 2 गेंदों पर मात्र 59 रन बनाकर आल आउट हो गई और इस प्रकार जेडीएस की टीम ने 58 रनों से जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट के सेमी फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। जेडीएस के रिंकू पाल ने 3 ओवरों मैन 9 रन देकर चार विकेट तथा 17 गेंदों पर 29 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला टीसीसी सनई और स्विफ्टर कैफे क्रिकेट क्लब बर्डपुर के खेला गया जिसमें जिसमें टीसीसी ने टास जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। जिसके पश्चात पहले बल्लेबाजी करते हुए स्विफ्ट की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में कुल 112 रन बनाए। वहीं जीत के लिए 113 रनों के लक्ष्य लेकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीसीसी की टीम ने 11 ओवरों में ही 4 विकेट से मैच जीत लिया और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टीसीसी सनई के कृष्णा ने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। जिन्हें चांदी का सिक्का इनाम दिया गया। इस दौरान खण्ड विकास अधिकारी बर्डपुर सुरेश कुमार, एडीओ पंचायत रामपियारे, आयोजक नितेश पाण्डेय व बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

जूनियर डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हुआ बवाल, दो निलंबित

घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, जांच का दिया गया आदेश

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बीती रात जम कर बवाल हुआ। घटना में कई लोग घायल हो गये तथा मेडिकल कालेज में भी तोड़फोड़ किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसी प्रकार मामला शांत कराया। मारपीट के प्रकरण में तत्काल प्रभाव से दो जूनियर डाक्टर कृष्णानंद पासवान और मनमोह चौधरी को निलंबित करते हुए जांच शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक रात लगभग 11 बजे के आसपास एक सामान्य बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में ग्राम बसडिलिया निवासी एक व्यक्ति अपनी मां का इलाज करवा रहा था। जिनकी जाँच जूनियर डाक्टर कृष्णानंद पासवान कर रहे थे। इसी बीच मौके पर मौजूद राजन पांडेय से एक वार्ड व्वाय जो एक संविदा कर्मी बताया जाता है, ने बातचीत के जरिये कुछ हस्तक्षेप किया। जूनियर डाक्टर ने उसे बीच में टोकाटाकी से मना किया मगर उसका हस्तक्षेप जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि उक्त वार्ड व्वाय जूनियर डाक्टर कृष्णानंद से अपमानजनक बर्ताव करने लगा। इस पर डॉ कृष्णानंद ने अपने साथी जूनियर डाक्टरों को फोन कर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी दी। बताते हैं कि खबर पाकर मेडिकल के दर्जनों छात्र (जूनियर डाक्टर) भगते हुए वार्ड में पहुंच गये और अटेंडेंट को पीटने लगे। यह देख संविदा पर तैनात कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी मौके पर पहुंच गये और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। मारपीट के इस दौर में मेडिकल कालेज के दरवाजे के शीशे व अन्य सामान टूट गये। आधा दर्जन डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को चोटें भी आईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस समय मेडिकल कालेज में रहस्यमय चुप्पी है। इस बारें में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि दरअसल सारे मामले के पीछे असली कारण मेडिकल कालेज में दलाली के धंधे में वर्चस्व को लेकर हो रही है। इसे लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। इस सम्बन्ध में प्राचार्य डा. ए.के. झा ने बताया कि घटना में दो जूनियर डाक्टरों को निलम्बित करते हुए घटना की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर रात में पुलिस अधीक्षक को सारी जानकारी से अवगत कराया तथा पुलिस को बुला कर मामला शांत कराया। कहा कि यह घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रतियोगिता से गांव की छुपी प्रतिभा निखरेगी

अवधनामा संवाददाता

कुदरहा, बस्ती। कुदरहा कस्बे में स्थापित राघव राम बचन शिवा सरस्वती विद्यापीठ परिसर में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आयोजित खंड स्तरीय उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। श्री दुबे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता से गांव की छुपी प्रतिभा निखरेगी। ग्राम पंचायतो में युवक मंगल दल का गठन हुआ है। जिससे बच्चे अपना हुनर दिखाएगे। भाजपा सरकार अंतिम व्यक्ति को अवसर देने का काम कर रही है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा एक दिवसीय खंड स्तरीय खेल लीग प्रतियोगिता के आयोजन के तहत दौड़, लंबी कूद, गोला फेक, कबड्डी, वालीबाल, बैडमिंटन, कुश्ती खेलों का आयोजन होना था। लेकिन विभागीय जिम्मेदारों द्वारा व्यवस्था ठीक न होने से महज दो सौ मीटर के दौड प्रतियोगिता हो सका।

हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम ग्राम पंचायत सुकरौली में संपन्न

अवधनामा संवाददाता

बांसी सिद्धार्थनगर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुकरौली में आयोजित कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बांसी छोटे राजा और खण्ड विकास अधिकारी लाल जी शुक्ल ने उपस्थित जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया द्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे अति पिछड़े वर्ग के वंचित व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ा जाए और लाभान्वित किया जाए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली अति पिछड़ी जाति के आबादी हैं जिनको सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं हो पाती है और लाभ से वंचित रह जाते हैं वहां उपस्थित लोगों को विकसित राष्ट्र व प्रधान मंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा को साकार करने को लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई गयी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवस्तव,भाजपा मंडल महा मंत्री शैलेंद्र दुबे, अभिषेक त्रिपाठी,बद्री विशाल त्रिपाठी,ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी,आंगनबाड़ी और कृषि विभाग के कर्मचारी,आदि मौजूद रहे।

एसपी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा मंगलवार को जनसुनवाई कर शिकायतकर्ता की समस्या को सुनकर संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को गूगल मीट के माध्यम से तत्काल गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 भूमि विवाद, 00 पारिवारिक विवाद व 12 अन्य विवाद से संबंधित थे। प्राप्त शिकायतों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया।

पुण्यतिथि पर शांति पाठ के साथ कम्बल वितरित

छावनी अवधनामा संवाददाता। छावनी कस्बे में समाजसेवी गोपाल जी सोनी ने अपनी माँ स्व. सुखदेई देवी के चौथी पुण्यतिथि पर गत बर्ष की भाँति इस वर्ष भी मंगलवार को शांति पाठ के साथ अपने कस्बे व आसपास के जरूरत मंद दर्जनो लोगो को कम्बल वितरित किया कम्बल वितरण करने में अजीत सोनी पूर्व प्रधान ,राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका रामपति वर्मा,दीपक सोनी सहित अन्य मौजूद आसपास क लोग मौजूद रहे कम्बल वितरित करने को लेकर समाजसेवी गोपाल जी सोनी के कहा सेवा ही समर्पण है शीतकालीन समय चल रहा है सेवा करने के क्रम माँ की पुण्यतिथि पर हर बर्ष 9 जनवरी को जरूरत मंद ,गरीब तथा विकलांग वृद्धजनो को घर पर बुलाकर कम्बल वितरण किया जाता है तथा वृद्धजनो का आर्शीबाद प्राप्त होता है जो नही आये थे उन्हें देर शाम उनके घर पहुँच कर कम्बल वितरित किया गया।

12 से होगा अटेवा आपके द्वार जन संवाद कार्यक्रम

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। अटेवा आपके द्वार जन संवाद कार्यक्रम आगामी 12 जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए संगठन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। सभी शिक्षक कर्मचारी संघर्ष में सहभागी बनें और पुरानी पेंशन की बहाली की तरफ आगे बढ़ें। उक्त बातें अटेवा के प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मंगलवार को कही। उन्होंने आगे कहा कि अटेवा के शीर्ष नेतृत्व ने नये वर्ष में अपने संघर्ष के क्रम को और भी धारदार बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आगामी 12 जनवरी से अटेवा-आपके द्वार जन संवाद कार्यक्रम के तहत अटेवा के पदाधिकारी विभिन्न कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों पर पहुंच कर अपने साथियों से सम्पर्क व चर्चा करेंगे। परिचर्चा करके निजीकरण व नई पेंशन के दुष्परिणामों को अवगत कराते हुए आगामी कार्यक्रमों के लिए समर्थन व सहयोग की अपील करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 25 जनवरी को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। इस के बाद 4 फरवरी को लखनऊ में अम्बेडकर पार्क से रेजीडेंसी तक रन फॉर ओपीएस कार्यक्रम का आयोजन होना है। उन्होंने सभी शिक्षक कर्मचारियों से कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

एसएसबी 50वीं वाहिनी द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

अवधनामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत चंदनपुर में सशस्त्र सीमा बल 50 वीं वाहिनी द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कस्टम इंस्पेटर बढ़नी प्रदीप कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन सशस्त्र सीमा बल कमान्डेंट 50 वीं वाहिनी एल पी उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान एक लव्य विद्या निकेतन विशुनपुर विश्राम व रामसुन्दर गुरु जी की टीम के द्वारा थारु जनजाति पर अधारि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम मे विशिष्ट अतिथि प्रधान फूलमती,नीलम चौधरी, महिनकी देवी, धनीराम, रामसुन्दर व क्षेत्रीय वनाधिकारी डी.पी.सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान एसएसबी के अपर सीएमओ विद्या के द्वारा मानव चिक्तिसा शिविर में निःशुल्क 33 लोगों को दवा का वितरण किया गया। प्रशिक्षण में तीनों टरेडो बेल्डिंग, मोबाइल रिपेरिंग व इलेक्ट्रिशियन आदि मे लगभग 96 युवको ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरुस्कार का वितरण किया गया इस दौरान उप कामाण्डेंट अभिषेक सिंह, दीपक सिंह व इंस्पेक्टर कम्पनी कमाण्डर कुणाल कुमार सब इंस्पेक्टर अंग्रेज सिंह व एस एस वी के जवान रोहित थापा इंतियाज खान आदि लोग मौजूद रहे।

जय श्रीराम के नारों के बीच निकली अक्षत कलश यात्रा

आलापुर अम्बेडकरनगर। विकास खण्ड जहांगीरगंज अन्तर्गत गांव शंकरपुर वर्जी में अधिवक्ता शाशिकान्त मिश्रा के आवास पर खण्ड़ प्रचारक जयप्रकाश पाठक, सक्षम पंडित के नेतृत्व में अक्षत कलश यात्रा निकाली अयोध्या में रामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत कलश यात्रा जय श्रीराम के नारों के साथ कलश को सिर पर रख कर पैदल यात्रा निकाली गई। मालूम हो राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित अक्षत कलश यात्रा भक्ति भाव के साथ पूरे गाँव मे घर घर निकाली गई और घर- घर अक्षत बांटकर निमन्त्रण दिया गया।इस दौरान एक ही नारा एक ही राम, जय श्रीराम जय श्रीराम से शंकर पुर बर्जी गांव गूंज उठा। अधिवक्ता शाशिकान्त मिश्रा ने बताया कि लोगों के संघर्षो का प्रतिफल है जो 550 वर्षो बाद धरातल पर देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं अक्षत कलश यात्रा में शामिल हुई जिससे प्रतीत होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के प्रति जन-जन की श्रद्धा जाग चुकी है।

81 वर्ष की पूनम्मा जोसेफ का हुआ देहांत

टाण्डा अंबेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। टाण्डा की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान कॉस्मोपोलिटन स्कूल टाण्डा के प्रबन्धक जॉन पोल जोसेफ की माता जी पूनम्मा जोसेफ का देहांत केरल राज्य स्थित उनके पैतृक आवास पर इलाज के दौरान बीमारी की स्थिति में हो गया। वे लगभग 81 वर्ष की थी। उनके भरे पूरे परिवार में प्रबन्धक जॉन पोल जोसेफ सबसे छोटे भाई है। उन्होंने बताया कि माताजी की सन्तानों में तीन भाई व दो बहनें है। उनके देहान्त का समाचार सुनते ही स्कूल के शिक्षक शिक्षकाओं में शोक की लहर दौड़ गई। शोक सभा आहूत की गई। सभी ने दुख व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की छमता प्रदान करने व मृतात्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर अनूप सर, शशांक, सीता सोंनी, मो. इरफान, मारिया, रेखारानी, बैशाख आदि उपस्थित रहे।

जरूरतमंदों को बांटा गया कम्बल

टाण्डा अंबेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। गरीब, निरीह, कमजोर लोगो व जरूरतमंदों में शासन की तरफ से वितरण किया जाने वाला कम्बल नगर पालिका परिषद टाण्डा की चेयरमैन शबाना नाज़ के कर कमलों द्वारा शीत लहरी व ठण्डक से बचाये जाने के लिए वितरण कियागया ।जिसमे नगर के 25 वार्डो में से चिन्हित कमजोर, विकलांगो, निरीह व जरूरत मन्दों महिलाओं व पुरुषों को वार्ड सभासदों ने पालिका परिषद परिसर में मंगलवार को बुलाया था जिसमे कई विकलांग भी आये थे। जरूरतमंदों को ससम्मान कुर्सी पे बैठाया गया था।

आपत्तिजनक टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुये सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा एक केस में अनर्गल टिप्पणियों को लेकर विरोध करते हुये साफकहा है कि अनावश्यक टिप्पणियों से हाईकोर्ट के बचना चाहिये। जिन बातों का कोई औचित्य नही उन पर टिप्पणी का क्या तुक है। टिप्पणी में कई बातें अनावश्यक है। इस फैसले को लेकर कलकत्ता सरकार ने याचिका भी दायर की है। चूकि यह मसला बहुत संवेदनशील है इसे लेकर जो निर्णय शीर्ष अदालत देगी वह भविष्य के लिये मार्गदर्शन बनेगा। हाईकोर्ट के निर्णय में सत्तात्मक सत्ता जो औरतो का हर तरह से शोषण करती आई है उसी के पक्ष में वकालत करती नजर आती है।

जिस केस को लेकर यह चर्चा की जा रही है वह महिला का जबरदस्ती आपहरण कर महिला से जबरन शादी व पास्को ऐक्ट में सजायाफ्ता की सुनवाई का है। हाईकोर्ट ने कहा किशोरी का कर्तव्य है शारीरिक अखन्डता और आत्ममूल्य की रक्षा करें। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की भर्त्सना करते हुये बिल्कुल सही कहा है कि बेहद अपत्तिजनक और पूरी तरह से गैर जरूरी है। अगर यह बात क्षणभर के लिये मान भी लिया जाय तो यह मानदन्ड मर्दो के लिये क्यों गैर जरूरी है। महिला चरित्र का ऐसा विश्लेषण अपाच्य है।

अदालतें पितृसत्तात्मक सत्ता के विरोध में स्त्रियों के पक्ष में न्यायपूर्ण बराबरी का स्तर दिलाने के लिये कई कानून बनाये है और बनाती जा रही है। समय-समय पर महिलाओं के पक्ष में कानून बनाने के लिये अदालते सरकारों को हिदायत देती रहती है। इस दिशा में कानून बनते भी जा रहे है। यौन इच्छाओं यौनो उन्माद पर काबू रखना तो हर सभ्य नागरिक का कर्तव्य है। इसमें औरत और मर्द का विभेद सरासर अन्याय है। अर्से से चली आ रही प्रितसतत्मक नियमों की प्रताड़ना स्त्रियां कब से सहती आ रही है। बहुत सी स्त्री प्रतिभा पर्दे के अन्दर लैगिंक भेदभाव में दबकर मर जाती है। जिससे समाज, देश को बड़ा फायदा मिल सकता है। दैहिक स्वच्छता के आड़ में पुरूषों द्वार स्त्रियों पर अत्याचार और शोषण हमेशा थोपा गया है। हालाकि अब स्थिति काफी सुधरी है पर अभी स्थितियां बदलने की बहुत गुजांइश है।

तज्जुब होता है जिस देश में नारियां पूज्य मानी जाती थी, वहां स्त्रियां को इतनी लम्बी पितृतात्मक सत्ता का दन्ड भोगना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का यह संज्ञान निश्चित रूप से अदलतों, सरकारो समाज के लिये दिशासूचक का काम करेगा। पेपरों में रोज, आपहरण, बलात्कार शारीरिक शोषण और हत्या की खबरे आती रहती है। किसी भी दिन का पेपर इससे अछूता नहीं रहता है। अदालतों और सरकारो को और सख्ती दिखाने की जरूरत अभी भी महसूस होती रहती है।

पद्म भूषण नवाब मीर अक़बर अली खाँ

मीर साहब को 1961 में पदम भूषण एवं 1989 में पदम विभूषण के सम्मान से नवाज़ा जा चुका ह। वह सन् 1972 से 1974 तक उ0प्र0 के राज्यपाल रहे तथा 25 अक्टूबर को उड़ीसा के राज्यपाल बनाये गये और 1976 तक वह उड़ीसा में पदासीन रहे। इस प्रकार दो राज्यों के राज्यपाल रहने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त रहा। मीर साहब लम्बे समय तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। मूलतः वह एक कांग्रेसी थे। जब मीर साहब बीमार पड़े तो उन्हें एम्बूलेन्स द्वारा एयरकेअर हास्पिटल ढ़ाका में भर्ती कराने ले जाया गया, मगर 87 वर्ष की आयु में, ढ़ाका हास्पिटल पहुंचने से पहले ही 18 जून 2009 को, प्रातः10:30 बजे एम्बुलेन्स में ही दम तोड़ दिया।

मीर साहब का जन्म 16 अगस्त 1962 को राजस्थान के एक गांव बागासर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका सम्बन्ध मैहर घराने से था।

मुहम्मद क़मर खाँ

वह सरोद वादन में अपनी कला प्रवीणता के लिये प्रख्यात हुये। वह भारतीय शास्त्री संगीत के क्षेत्र में विश्वस्तर पर अपनी पहचान रखते थे। संगीत के अन्तर्गत सरोदवादन के क्षेत्र अप्रैल 2009 तक उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वह हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साधक थे और मुख्य रूप से पांच वर्षों तक उन्होनें विश्व के पटल पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का झण्डा बुलन्द रखा। देश के पश्चिम में, भारतीय शास्त्रीय संगीत को स्थापित करने और उसे प्रतिष्ठित करने में मीर साहब की प्रमुख भूमिका रही। मीर साहब ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, लन्दन विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की। मीर साहब, शहीद-ए-मिल्लत कहलाए जाने वाले, तत्समियिक संयुक्त भारत के लियाकत अली खाँ के सुपुत्र थे। मीर साहब शास्त्रीय संगीत के पहले ऐसे साधक थे, जिनको वर्ष 1991 में मैक आर्थर फाउण्डेशन की फेलोशिप प्रदान की गयी। मीर साहब को 1961 में पदम भूषण एवं 1989 में पदम विभूषण के सम्मान से नवाज़ा जा चुका ह। वह सन् 1972 से 1974 तक उ0प्र0 के राज्यपाल रहे तथा 25 अक्टूबर को उड़ीसा के राज्यपाल बनाये गये और 1976 तक वह उड़ीसा में पदासीन रहे। इस प्रकार दो राज्यों के राज्यपाल रहने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त रहा। मीर साहब लम्बे समय तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। मूलतः वह एक कांग्रेसी थे। जब मीर साहब बीमार पड़े तो उन्हें एम्बूलेन्स द्वारा एयरकेअर हास्पिटल ढ़ाका में भर्ती कराने ले जाया गया, मगर 87 वर्ष की आयु में, ढ़ाका हास्पिटल पहुंचने से पहले ही 18 जून 2009 को, भारतीय समयानुसार प्रातः10:30 बजे एम्बुलेन्स में ही दम तोड़ दिया। इस प्रकार भारतीय संगीत क्षेत्र की एक महान हस्ती को राज्यपाल के पद तक पहुंचने का सौभाग्य हासिल हुआ। साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी विद्धता के लिए उनके योगदान एवं सरोदवादन में उनकी दक्षता को देश कभी भुला नहीं पायेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिज़वी ने ग्रुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वज़ीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित कराकर प्रथम तल, मस्जिद नूर महल, साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

किसी भी लेख में कोई विवाद के लिए 'अवधनामा' जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

पोलिटिकल एडीटर : एम.एम. मोहसिन
स्थानीय संपादक
मोहम्मद आलम रिज़वी
RNI No UPHIN/2010/31173
टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716
avadhnamahindi@gmail.com,

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करती है कि क्यूसीओ को लागू करने से पहले उनकी प्रतिक्रिया, तकनीकी इनपुट और व्यावहारिक सुझावों पर विचार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को लंबी अंतरण अवधि देकर उनके हितों की रक्षा की जाए। सरकार उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करने और उन निर्माताओं का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार है, जो गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं।

उच्च गुणवत्ता में भारत को दुनिया में अग्रणी बनाना

विनिर्माण क्षेत्र में 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने में भारत दुनियाभर में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है कि मेड इन इंडिया ब्रांड गुणवत्ता की गारंटी हो, जो भारतीय और विदेशी उपभोक्ताओं के लिए आनंद का परिचायक बने।

पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि एक लाभदायक बाजार तभी कायम रह सकता है जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन हो। इस रणनीति का एक प्रमुख घटक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पर जोर देना है। इसके जरिये क्यूसीओ यह सुनिश्चित करता है कि सभी उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों।

यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है, जिससे उपभोक्ताओं को उत्पादों तथा व्यवसायों के संबंध में विश्वसनीय, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का भरोसा प्राप्त होता है। इसके जरिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग व उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल ने 140 करोड़ भारतीयों के परिवार को दुनिया से जुड़ने और सर्वोत्तम उत्पादों व व्यवहारों के बारे में जानने में मदद की है। वे किसी उत्पाद को खरीदने से पहले नियमित रूप से प्रदर्शन, स्थायित्व और निर्भरता के लिए ग्राहक समीक्षाओं की जांच करते हैं। यदि वे उत्पाद से असंतुष्ट हैं, तो वे सार्वजनिक रूप से कमियों को उजागर करते हैं। इसलिए, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत और नवीनता के बीच संतुलन बनाना समय की मांग है। मोदी सरकार सुरक्षित, विश्वसनीय व बेहतर गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराने और भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत गुणवत्ता इको-सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है। मई 2014 से पहले, 106 उत्पादों को कवर करने वाले केवल 14 क्यूसीओ जारी किए गए थे। सूची को अब 653 उत्पादों को कवर करते हुए 148 क्यूसीओ तक बढ़ा दिया गया है। इनमें एयर कंडीशनर, खिलौने और जूते जैसे घरेलू उत्पाद शामिल हैं।

निर्यात पर गुणवत्ता नियंत्रण : क्यूसीओ ने 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के मिशन को गति दी है। क्यूसीओ के तहत कई उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। कच्चा लोहा उत्पाद, सौर डीसी केबल, दरवाजे की फिटिंग, छत के पंखे, हेलमेट, स्मार्ट मीटर, हिंजेस, एयर कूलर और एयर फिल्टर गुणवत्ता-नियंत्रित उत्पाद हैं, जो आयात किए जाने की तुलना में कहीं अधिक निर्यात किए जाते हैं।

क्यूसीओ द्वारा कवर किए गए कास्ट आयरन उत्पादों का पिछले साल 535 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ था, जबकि आयात मुश्किल से 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लगभग 25 क्यूसीओ में ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जहां आयात से अधिक निर्यात होता है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्यूसीओ भारत में मजबूत गुणवत्ता चेतना के निर्माण पर केंद्रित हैं। इससे देश में खराब गुणवत्ता वाले सामानों की डंपिंग को कम करने में भी मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं तक पहुंच हमारे अमृत काल में प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है। क्यूसीओ लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण आग लगने, खिलौनों में जहरीले रसायनों के कारण बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने और बिजली के शॉर्ट-सर्किट जैसे जोखिमों के कारण घटिया उत्पाद घरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

शानदार उदाहरण : गुणवत्ता-नियंत्रण कैसे उपभोक्ताओं और निर्माताओं की मदद के लिए विनिर्माण को आमूल रूप से उन्नत कर सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण खिलौना उद्योग है। इस क्यूसीओ के कार्यान्वयन से पहले, भारतीय खिलौना बाजार सस्ते, घटिया उत्पादों से भरा पड़ा था। वर्ष 2019 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक सर्वेक्षण से पता चला कि मुश्किल से एक-तिहाई खिलौने प्रासंगिक बीआईएस मानकों का पालन करते हैं, और उनमें से अधिकांश बच्चों के लिए खतरनाक थे। यह मोदी सरकार के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था, जिसने एक जनवरी, 2021 से इस क्षेत्र के लिए क्यूसीओ के साथ तेजी से हस्तक्षेप किया था।

इससे भारत में खिलौनों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय बाजार में 84 प्रतिशत खिलौने बीआईएस मानकों का पालन करते हैं। क्यूसीओ ने न केवल भारतीय बच्चों को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने उपलब्ध कराए हैं, बल्कि 2018-19 की तुलना में 2022-23 में उनके निर्यात में 60 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और घरों में उपयोग होने वाले अन्य उत्पादों पर कई गुणवत्ता मानदंड लागू किए गए हैं। इनमें स्मार्ट मीटर, बोल्ट, नट और फास्टनर, छत के पंखे, अग्निशामक यंत्र, कुकवेयर, बर्तन, पानी की बोतलें, पाइप्ड नेचुरल गैस के उपयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव, लकड़ी आधारित बोर्ड, इंसुलेटेड फ्लास्क और इंसुलेटेड कंटेनर आदि शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करती है कि क्यूसीओ को लागू करने से पहले उनकी प्रतिक्रिया, तकनीकी इनपुट और व्यावहारिक सुझावों पर विचार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को लंबी अंतरण अवधि देकर उनके हितों की रक्षा की जाए। सरकार उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करने और उन निर्माताओं का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार है, जो गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं।

गुणवत्ता अभिशासन, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद : उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करने का अभियान 140 करोड़ भारतीयों के अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया है। उनके भावनात्मक, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन ने विकास को गति दी है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया है और भारत को विश्व स्तर पर उज्ज्वल बनाया है। उल्लेखनीय है कि पांच साल में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों ने हाल के विधानसभा चुनावों में अपने मतदान से प्रधानमंत्री के उच्च गुणवत्ता वाले प्रशासन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। यह भारतीय निर्माताओं के लिए एक मजबूत संदेश है। जब लोग चयन करते हैं - अपने मत से या अपने बटुए से - तो वे सर्वोत्तम गुणवत्ता चुनते हैं। याद रहे कि क्वालिटी इज फ्री के लेखक फिलिप क्रॉस्बी ने एक बार कहा था यदि आप गुणवत्ता से बाहर हैं, तो आप व्यवसाय से बाहर हैं।

हिन्दी का अमृत महोत्सव कब?

राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का एहसास करते हुए बापू ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भारतवर्ष के इस गूंगेपन को दूर के लिए भारत के अधिकतम राज्यों में बोली और समझी जाने वाली हिन्दी भाषा को उपयुक्त पाकर बापू ने उसे सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप प्रतिष्ठित और स्थापित किया। बापू ने कहा था कि हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नही है, देवनागरी में लिखे जाने पर वह हिन्दी और अरबी में लिखे जाने पर उर्दू कही जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा में वे सब प्रकार के शब्द आने चाहिए जो जनता में प्रचलित हो।

आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के माध्यम से अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वाले जननायकों को याद कर रहे हैं उनके याद में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन केन्द्र एवं राज्य सरकार मिल कर कर रहे हैं। इन सब कार्यों और आजादी की लड़ाई में एक महती भूमिका का निर्वहन करने वाली हिन्दी का अमृत महोत्सव कब मनाया जायेगा? यह प्रश्न विचारणीय है। हिन्दी को मजबूत करने और हिन्दी को उसका स्थान दिलाने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देशवासियों से अपील की थी कि किसी बच्चे का उचित मानसिक विकास तभी सम्भव है जब वह मातृभाषा में पढ़ाई करता है। मातृभाषा से मतलब हिन्दी से नही है यह उस राज्य विशेष की भाषा है जैसे मेरे राज्य में गुजराती, फिर भी देश में एक भाषा होनी चाहिए, यदि कोई दूसरी भाषा सीखना चाहे तो वह हिन्दी होनी चाहिए। उन्होने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि राजभाषा हिन्दी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाय। इसके साथ ही साथ बताया कि हिन्दी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के लिए नही बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। जब तक अन्य भाषाओं से शब्दों को लेकर हिन्दी को सर्वग्राही नही बनाया जायेगा तब तक इसका प्रचार प्रसार नही हो पायेगा। यह पहली बार है जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ-साथ हिन्दी शब्दकोष को बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को जोड़ने की अपील की गयी है।

डॉ रामेश्वर मिश्र

आजादी की लड़ाई में संचार के माध्यम के रूप में बापू ने हिन्दी को ही चुना, इसके लिए उन्होंने अपने देशवासियों को समय-समय पर हिन्दी की महत्ता बताई। बापू की हिन्दी सहज, सरल, स्नेहयुक्त और अपनेपन से प्रभावित थी। गांधीयुग और बापू द्वारा राजनैतिक सक्रिय भागीदारी से पहले भी बापू ने हिन्दी की प्रशंसा करते हुए 1906 में अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में इस प्रकार लिखा है कि 'हिन्दी', मीठी, नम्र, ओजस्वी भाषा है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का एहसास करते हुए बापू ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भारतवर्ष के इस गूंगेपन को दूर के लिए भारत के अधिकतम राज्यों में बोली और समझी जाने वाली हिन्दी भाषा को उपयुक्त पाकर बापू ने उसे सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप प्रतिष्ठित और स्थापित किया। बापू ने कहा था कि हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नही है, देवनागरी में लिखे जाने पर वह हिन्दी और अरबी में लिखे जाने पर उर्दू कही जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा में वे सब प्रकार के शब्द आने चाहिए जो जनता में प्रचलित हो।

हिन्दी के विकास तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के बहुसंख्यक द्वारा प्रयुक्त जुबान से बापू परिचित थे जिसके सन्दर्भ में 20 अक्टूबर 1917 को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के कुछ विशेष लक्षण बताए थे जिसके अनुसार वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए, उस भाषा के माध्यम से भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक एकीकरण होना चाहिए, उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों तथा वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक एवं स्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाय। उक्त लक्षणों को बताने के बाद बापू ने कहा कि सौभाग्य से हिन्दी भाषा में ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो, यह बात बोली तो बहुत दिनों से जा रही थी किन्तु अब तक किसी नेता ने इस विचार को धरातल पर परिणित करने का प्रयास नही किया, आज यह हिन्दी भाषा की आवश्यकता का ही फल है कि लोग इस भाषा से जुड़ने लगे हैं और हिन्दी भाषा को सीखने के लिए लोग अमीरी-गरीबी, पढ़े-अनपढ़, युवा-बूढ़े का अन्तर भूलकर एक स्थान पर हिन्दी सीखने के लिए बैठने लगे हैं और सब हिन्दी सीखना और सिखाना अपना पुनीत कार्य समझ रहे हैं।

आज जब पूरा विश्व 'हिन्दी दिवस' मना रहा है जिसकी शुरुआत 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। उस विश्व हिन्दी सम्मेलन में भारत के साथ मारीशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद, टोबैगो एवं संयुक्त राज अमेरिका ने हिस्सा लिया था। तब से 10 जनवरी को भारत में विश्व हिन्दी दिवस सुचारू रूप से मनाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ायी जा रही है, विश्व के 91 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पीठ की स्थापना की गयी है। आज पूरे विश्व में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के द्वारा हिन्दी बोली जाती है, अमेरिका में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 6 लाख अड़तालिस हजार है, मारीशस में 7 लाख, अफ्रीकी देशों में लगभग 9 लाख, साथ ही नेपाल में 8 लाख लोगों द्वारा हिन्दी बोली जाती है। भारत के अतिरिक्त फिजी की राजभाषा हिन्दी है, यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिन्दी सम्मिलित है। आज विश्व के 80 करोड़ लोगों के द्वारा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर दिया जा रहा है, परन्तु भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान कब मिलेगा, यह प्रश्न विचारणीय है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल सके इसलिए दक्षिण-उत्तर, पूरब-पश्चिम सबको अपने निहित क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर हिन्दी को विश्व में गौरव दिलाना ही हम सब भारतवंशियों का कर्तव्य है। आज हम विश्व हिन्दी दिवस पर यह संकल्प ले कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी भाषा के माध्यम से करेंगे, यही हिन्दी का अमृत महोत्सव होगा।

इस हिन्दी में दिलों को दिलों से जोड़ने का भाव है, हिन्दी जनमानस की बोली है, हिन्दी में भाषायी संकीर्णता को तोड़ने की शक्ति है, हिन्दी में राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का कौशल है, राष्ट्र के माटी की सोंधी खुशबू है, स्वभाषा का गर्व है, स्वराज का आभास है। ऐसी हिन्दी का राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय आधार पर विरोध करना एवं हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अधिकार से अब तक वंचित रखना अन्यायपूर्ण है।

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का अहम माध्यम

- हरी राम यादव

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को सूल।
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मनोभावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और लोग जिससे द्वारा एक दूसरे के विचारों या मनोभावों को जान और समझ पाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव - जंतु, पशु - पक्षी सब की अपनी एक भाषा होती है और सभी अपने समाज की उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अपने समाज की भाषा को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। इसी तरह प्रकृति में जीवों में सबसे श्रेष्ठ कहीं जाने वाली मानव जाति की भी विभिन्न भाषाएं हैं जो कि अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। उनमें से एक प्रमुख भाषा है हिन्दी।

हिन्दी भाषा, अंग्रेज़ी, मंदारिन और स्पेनिश के बाद दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में करीब 77 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते, लिखते, समझते और पढ़ते हैं। वर्तमान समय में हिन्दी केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में बोली जाने लगी है। आज जहां भी भारतीय लोग रह रहे हैं उन जगहों पर वह अपनी हिंदी भाषा को अपनाए हुए हैं। हिन्दी भाषियों के अलावा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, इंग्लैंड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस,जापान, नार्वे, स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, चीन, पोलैण्ड, मैक्सिको, मॉरीशस, फिजी, गुयाना, दक्षिणी अफ्रीका सूरीनाम, कीनिया, ट्रिनीटाड - टुबैगो, बर्मा, थाईलैण्ड, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में लोगों द्वारा पढ़ी, लिखी और बोली जा रही है।

विश्व में हिन्दी भाषा का विकास करने और इस का प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलन की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था तब से इस दिन को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 10 जनवरी 2006 को पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गयी और तब से इसे वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाता है। हमारी हिन्दी भाषा इतनी सरल, समृद्ध और सक्षम है कि हमारा सारा कामकाज सुचारू रूप से हिन्दी में किया जा सकता है। इसके शब्द भंडार विस्तृत और अथाह हैं। इसमें इतनी मिठास भरी है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसमें हर संबोधन के लिए अलग अलग-अलग शब्द हैं, और एक शब्द ही नहीं अनेकों शब्द हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार चुन और बोल सकते हैं, जबकि विश्व की अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। उदाहरण स्वरुप यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो, अंग्रेजी भाषा में सम्बोधन के साथ आदर सूचक शब्द के लिए केवल माई डियर शब्द ही है चाहे वह आपके माता-पिता, चाचा -चाची हों या बेटा - बेटी, पत्नी हों, लेकिन हिन्दी में, आदरणीय, पूज्यनीय, श्रद्धेय, प्रिय, हृदयांश, हृदयकणिका जैसे तमाम शब्द, पद की गरिमा के अनुसार प्रयोग में लायें जाते हैं।

यह एक सोचनीय प्रश्न है की जहां दूसरे देश हिंदी भाषा को अपना रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं हमारे देश में यह दोयम दर्जे की बनी हुई है। अंग्रेजी बाहर से आकर रानी बनी हुई है और हमारे देश की रानी बेगानी बनी हुई है। देश के नेतृत्व में मजबूत इच्छाशक्ति और दृढनिश्चय के अभाव के कारण आज भी देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहां तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी अंग्रेजी का बोलबाला है।

हमारे देश के लोगों के दिमाग में अंग्रेजी का भूत इस कदर सवार है कि अंग्रेजी बोलने वाले को वह बहुत श्रेष्ठ समझते हैं और बढ़िया ब्याकरण सम्मत हिंदी बोलने वाले विद्वान हो कमतर आंकते हैं। यदि हम देश की न्यायपालिका की बात करें तो उसके भी कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है, जिस व्यक्ति का मुकदमा लड़ा जा रहा होता है, वह ही नहीं जान पाता कि दोनों पक्ष के अधिवक्ता न्यायाधीश के सामने क्या कह रहे हैं, वह बस मूक दर्शक और पेशी पर हाजिरी लगाने वाला पुतला भर होता है। मुकदमों के निर्णयों को जानने के लिए सामान्य आदमी को अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है,तब वह जान पाता है कि क्या लिखा गया है। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में कुछ अपवादों को छोड़कर दवाओं के नाम अंग्रेजी में ही लिखे जा रहे हैं, और अंग्रेजी भी उस तरह की कि उन नामों को केवल डाक्टर और मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ पाते हैं।

किसी भी स्थापित व्यवस्था को बदलने में कुछ कठिनाइयां जरूर सामने आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई समाधान न हो। इसी तरह हिन्दी में कामकाज शुरू होने पर भी कुछ कठिनाइयां होना स्वाभाविक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका कोई समाधान नहीं है। विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंग्रेजी को ढकेल कर अपने देश से बाहर कर दिया है और अपने देश की भाषा में हर पाठ्यक्रम को तैयार करके अपनी भाषा में विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी तक की शिक्षा दे रहे हैं लेकिन एक हम हैं कि अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने देश की मातृभाषा का दिवस मनाने में खूब गर्व की अनुभूति करके फूले नहीं समाते हैं।

हमारे देश में जब तक कोट, पैंट और टाई संस्कृति जिंदा रहेगी, तब तक हमारी मातृभाषा हिंदी कभी भी राष्ट्र भाषा और जीवन में आम जन की भाषा नही बन सकती है। हमारे देश में हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनने में टाई संस्कृति सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन हमारे देश की कार्यालयी वेशभूषा धोती-कुर्ता, गमछा और साड़ी हो जायेगा, उस दिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माथे की विंदी बनने से कोई नहीं रोक सकता।

यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं और देखें की आजादी के बाद खुलने वाले स्कूलों में हिंदी माध्यम के कितने स्कूल खुले हैं, तो यह संख्या आप उंगलियों पर गिन सकते है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बरसात में उगने वाले कुकुरमुत्ते की तरह हर गली मुहल्ले में खुलते जा रहे हैं और कार्यालयों टाई पहनकर बैठे अधिकारी धडल्ले से मान्यता प्रदान कर रहे हैं। हिंदी की दुर्दशा के पीछे हमारी सरकारों का भी हाथ कम नहीं है। आज ज्यादा वोट लेने की होड़ में, गरीब तबके का वोट हथियाने के चक्कर में देश के प्राथमिक स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ायी जाने लगी है। जबकि होना यह चाहिए था कि अंग्रेजी माध्यम से खुलने वाले स्कूलों पर रोक लगाई जाए। हमें अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र सिंह जी की लिखी हुई पंक्तियों को याद करना होगा, अपनी आत्मा को जागृत करना होगा, अपनी जननी जन्मभूमि के दायित्व को निभाना होगा , जिससे कि विश्व हिंदी दिवस मनाने की भविष्य में आवश्यकता न पड़े और हिन्दी जन जन के माथे की विंदी बने और लोग देश विदेश में हिंदी को पढ़, लिख और बोलकर लोग गर्व की अनुभूति करे।

अधिकारी सुनिश्चित करें कि दूसरे प्रदेशों की शराब यहाँ न आएं : नितिन अग्रवाल

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने निर्देश दिये कि प्रदेश में मध्यप्रदेश व अन्य पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध मदिरा न आने पाये, इसके लिए बार्डर के अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि सभी जिला आबकारी अधिकारी स्टॉक मेन्टेन रखें तथा लगातार इसकी समीक्षा भी करते रहें। उप आयुक्त अपने मण्डल के जिलों में लगातार भ्रमण कर मॉनीटरिंग करें तथा आबकारी अधिकारी गन्ना विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गन्ना मिलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें, कि बिना पर्ची का गन्ना मिल में न आये।

नितिन अग्रवाल आज गन्ना संस्थान में मण्डलों के उप आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारियों से राजस्व प्राप्तियों के विवरण, देशी शराब, विदेशी

शराब एवं बीयर उपभोग, प्रवर्तन कार्य, आईजीआरएस निस्तारण एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की बिन्दुवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गत वर्ष उपभोग आधारित लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम राजस्व उपलब्धियों वाले 10 जनपद मुरादाबाद, कुशीनगर, झांसी, महोबा, सम्भल, हमीरपुर, प्रतापगढ़, औरैया, महराजगंज, बलरामपुर के जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने की दिशा में कार्य करें एवं प्रवर्तन कार्यों में तेजी लायें। विभाग हित में अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है, जिससे हम ससमय लक्ष्य पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि अपनी परफारमेन्स बढ़ायें। इस तिमाही अगर प्रगति नहीं हुई तो आप लोगों पर कार्यवाही होगी।

उन्होंने गत वर्ष की उपभोग आधारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतम राजस्व उपलब्धियों वाले 10 जनपदों श्रावस्ती, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, शामली, गाजियाबाद, अलीगढ़, रायबरेली, अमरोहा, खीरी, बाराबंकी के

गन्ना संस्थान में आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने की वर्चुअल समीक्षा

अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि राजस्व प्राप्ति में और बढ़ोत्तरी लायें और यह सुनिश्चित करें कि अवैध शराब की खपत न हो, जिससे अगली तिमाही में राजस्व और बढ़े। सभी अधिकारी आईजीआरएस के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करायें। प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीणा ने राजस्व अर्जन की जानकारी देते हुए बताया कि माह दिसम्बर-2023 में विभाग में रू0 3776.32 करोड़ की प्राप्तियॉ हुई हैं। जबकि इसी अवधि में गत वर्ष में रू0 3143.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था तथा माह दिसम्बर-2023 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य रू0 05 हजार करोड़ के सापेक्ष रू0 3776.33 करोड़ अर्थात 75.53 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ।

विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित होगी अयोध्या

प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि होगी : जयवीर

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राम मन्दिर के लोकार्पण के पश्चात् जहां एक ओर देश-विदेश के करोड़ों राम भक्तों की बहुप्रतिक्षीत अभिलाषा पूरी होगी, वहीं दूसरी ओर अयोध्या समेत आस-पास के लगभग 06 जनपदों के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आने शुरू हो जायेंगे। क्योंकि भगवान श्रीराम के प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या में श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जायेगी। इससे होटल, टैक्सी, फूल-माला विक्रेता, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प, वस्त्र विक्रताओं समेत छोटे-मोटे व्यवसाय में लगे हुये सभी कारोबारियों को काम मिलेगा।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दिव्य एवं भव्य अयोध्या में होने वाली

आर्थिक गतिविधियों एवं विभिन्न निर्माण से संबधित योजनाओं के बारे में प्रेस-प्रतिनिधयों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने बताया कि राम मन्दिर के लोकार्पण के पश्चात अयोध्या में श्रेता युग एवं आधुनिकता का एक नया संगम देखने को मिलेगा। साथ ही अयोध्या के तेजी से विकास की सम्भावनाओं को देखते हुये बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। इसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

आने वाले समय में अयोध्या में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे : जयवीर सिंह

जयवीर सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन मे अयोध्या विश्व स्तरीय नगर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के साथ ही विश्व स्तरीय स्थापना सुविधायें सृजित की जा रही है। उन्होने बताया कि अयोध्या की सम्भावनाओं को देखते हुये देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। इसके अलावा साधु-संतों के लिये आश्रम, संस्थाओं के लिये जमीन की मांग की जा रही है। इसके लिये अयोध्या विकास प्राधिकरण को जमीन तलाशने की जिम्मेदारी दी गयी है।

जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में वर्ष 2022 में 02 करोड़ 39 लाख 10 हजार घरेलू पर्यटक तथा 1465 विदेशी पर्यटक और 2023 में सितम्बर तक 01 करोड़ 77 लाख 27 हजार पर्यटक आये, इसमें 1547 विदेशी पर्यटक भी शामिल है। लोकार्पण के बाद पर्यटकों की संख्या और बढेगी। इसलिये लोगों को ठहरने के लिये होटल तथा कमरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होने बताया कि आगन्तुकों की सुविधा के लिये अयोध्या से जुड़ने वाले 06 जनपदों के प्रवेश मार्ग पर स्वागत द्वार, यात्री सुविधाये व काम्पलैक्सों का निर्माण के लिये 120.25 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गयी है।

इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा 588.95 करोड़ रूपये एवं धर्मार्थ विभाग द्वारा 936 करोड़ रूपये की धनराशि से निर्माण कार्य कराये जा रहे है। उन्होने बताया कि अयोध्या में लगभग 02 करोड़ पर्यटक हर महीने आने की संभावना है।

अयोध्या कनेक्टिंग मार्गों पर दुरूस्त बसें ही चलाएं : दयाशंकर

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या होकर जाने वाले परिवहन निगम की बसों में तेजी से लगाये जा रहे साउण्ड बाक्स

लखनऊ। अयोध्या होकर जाने वाली 933 बसों में से 335 बसों में साउण्ड बाक्स लग चुके हैं एवं 598 बसों में लगने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही अयोध्या होकर जाने वाले परिवहन निगम की सभी बसों में साउण्ड बाक्स लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और रामधुन एवं भजन श्रद्धालुओं को सुनाई पड़ेगा।

यह जानकारी उप्र के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या जाने वाली कुछ बसों में रामधुन एवं भजन बजने भी लगे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम में श्रीराम जन्म भूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसके दृष्टिगत परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी तत्परता एवं लगनशीलता के साथ कार्य करें। परिवहन मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में उक्त आयोजनों के दौरान गोरखपुर-अयोध्या, वाराणसी-अयोध्या, प्रयागराज-अयोध्या, लखनऊ-अयोध्या, चित्रकूट-प्रयागराज-अयोध्या मार्गों पर यातायात में बहुत अधिक वृद्धि रहेगी। परिवहन निगम के क्षेत्रीय अधिकारी इन मार्गों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण यथासंभव नई बसों का ही संचालन करायें। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी चालकों, परिचालकों के साथ वार्ता कर उन्हें यात्रियों साथ मृदुल व्यवहार करने एवं अच्छा आचरण रखने हेतु प्रशिक्षण दें। इसके अलावा बस अड्डों एवं बसों की साफ-सफाई गुणवत्तापूर्ण रखें एवं संचालित होने वाली बसों में विशेष साज-सज्जा कराई जाए।

सरकार टिम्बर व्यापारियों के हितों की करेगी रक्षा

आज प्रदेश का व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा : : डा दिनेश शर्मा

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। आज दिनांक 09 जनवरी को उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,पूर्व विधायक स्व. पं. रामपाल त्रिवेदी के प्रपौत्र मोहनीश त्रिवेदी के नेतृत्व में तुलसी सभागार, रामलीला मैदान, ऐशबाग लखनऊ में धन्यवाद यूपी सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा, अतिविशिष्ट अतिथि सहकार भारती, उ.प्र. के महामंत्री प्रवीन सिंह जादौन जी, विशिष्ट अतिथि मध्य विधानसभा प्रभारी, उपाध्यक्ष हिरेंद्र मिश्र, नगर निगम के उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता,पूर्व पार्षद व अयोध्या विधान सभा के प्रभारी साकेत शर्मा, पार्षद राजीव बाजपाई, संदीप शर्मा, शशि गुप्ता, पीयूष मिश्रा, शशि गुप्ता मौजूद रहे। मुख्यातिथि डॉ. दिनेश

शर्मा जी ने प्रदेश भर से आए टिम्बर व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों के हित में तमाम फैसले लेने का काम किया जिसकी बानगी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 जिसके माध्यम से काष्ठ आधारित उद्योगों के अंतर्गत से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश से गुंडाराज का अंत करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से संगठन के सैकड़ों टिम्बर व्यापारियों ने एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का सामूहिक निवेश करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है जिसके तहत तमाम टिम्बर व्यापारी व्यापार को शुरू कर के प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे वही ई-लॉटरी के अंतर्गत लाइसेंस पाए टिम्बर व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व वन मंत्री डा अरुण कुमार सक्सेना जी सहित वन विभाग के तमाम अधिकारियों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जिसके चलते आज यूपी में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत टिम्बर व्यापारी करेंगे एक हजार करोड़ का सामूहिक निवेश : मोहनीश

प्रवीण सिंह जादौन ने कहा प्रदेश की सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ टिम्बर उपयोग में लाए जाने वाली लकड़ी हेतु भी पेड़ लगाने पर जोर दे रही है जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पुश्तैनी टिंबर व्यापारियों का भी व्यापार बच रहा है। कार्यक्रम के दौरान संगठन द्वारा मुख्यातिथि को स्मृति चिन्ह के साथ ही टिंबर व्यापारियों का शोषण करने वालो के विरुद्ध प्रतिकात्म स्वरूप धनुष बाण भेंट किया। अन्य अतिथियों को भी अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

रोजगार मेले में 105 अभ्यर्थियों को मिला जॉब आफर

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, लखनऊ, राजकीय आई0टी0आई0, जनपद-लखनऊ एवं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में डी.डी.यू.जी.के.वाई. योजना के तहत चिनहट ब्लाक में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ अजय जैन ने करते हुए नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अन्तर्गत हर हाथ को काम दिलाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की गयी।

रोजगार मेले में 105 अभ्यर्थियों को जॉब के आफर दिया गया। इस अवसर पर राजकुमार यादव, जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ ने जिला कौशल प्रबन्धक, विवेक कुमार सिंह एवं विकास तथा उनकी टीम को बेहतरीन रोजगार मेला आयोजित करने के लिए उनकी प्रशंसा की।

राज कुमार यादव, नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि राजकीय आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में टाटा मोटर्स बॉडी सोल्यूसन लि0 चिनहट, लखनऊ द्वारा कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सत्यकान्त, संयुक्त निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के द्वारा किय गया तथा अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानचार्य एवं प्लेसमेन्ट अधिकारी दोनो की प्रशंसा के पात्र है। एमए खाँ प्लेसमेन्ट अधिकारी ने बताया कि टाटा मोटर्स बॉडी सोल्यूसन लि0 चिनहट, लखनऊ के द्वारा कुल 57 अभ्यर्थियों को जॉब के आफर दिये गये। आईटीआई में आये दिन होने वाले रोजगार मेले में एचसीएल फाउण्डेशन समर्थित ग्रे-सिम लर्निंग फाउण्डेशन, लखनऊ के सहयोग के लिए संयुक्त निदेशक, प्रधानाचार्य एवं प्लेसमेन्ट अधिकारी ने उन्हे धन्यवाद दिया।

बिजली कंपनियां बताएं राजस्व गैप का ट्रीटमेंट क्या होगा : विद्युत नियामक आयोग

अवधनामा संवाददाता

कहा, बिजली कंपनियां स्वत: बताएं साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खर्च को पब्लिक पर डालने पर उठाए सवाल

लखनऊ। प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से 30 नवंबर 2023 को वर्ष 2024 25 हेतु दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता व ट्रू-अप के मामले पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कडा रुख अख्तियार करते हुए सभी बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सैकड़ो कमियां का खुलासा किया है गौरतल है की प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से लगभग 101785 करोड का वार्षिक राजस्व आवश्यकता दाखिल करते हुए 141245 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताते हुए 77486 करोड की बिजली खरीद प्रस्तावित की गई है उसी क्रम में विद्युत नियामक आयोग ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर सैकडो सवाल उठाते हुए सख्त रुख अपनाया है वार्षिक राजस्व आवश्यकता की कमियां जैसी ही अन्य बिजली कंपनियों में भी कमियां लगभग एक ही जैसी सामने आएगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से पूछा है की जो राजस्व गैप दिखाया गया है इसका ट्रीटमेंट विद्युत नियामक आयोग कैसे करेगा इस पर बिजली कंपनियां बताएं गौरतलब है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से बिजली दरों में बढोतरी का प्रस्ताव न देकर केवल 11203 करोड का कुल गैप निकालते हुए विद्युत नियामक आयोग पर पूरा मामला डाल दिया गया था अब विद्युत नियामक आयोग ने उल्टे बिजली कंपनियों से पूछ लिया कि इस गैप का ट्रीटमेंट आयोग क्या करें इसी प्रकार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा भारत सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले खर्च की भरपाई उपभोक्ताओं से नहीं की जाएगी का कानून बनाया गया है और बिजली दर की याचिका में बिजली कंपनियां स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी खर्च उपभोक्ताओं पर डालने पर तुली है इसी प्रकार विद्युत नियामक आयोग ने एक मुस्त समाधान योजना में किसको क्या छूट दी गई पूरा ब्योरा तलब कर लिया है। इसके साथ ही विद्युत नियामक आयोग ने कहा है विभागीय कर्मचारियों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा उन्हें घरेलू विद्युत उपभोक्ता मान लिया गया है ऐसे में विभागीय कर्मचारियों का पूरा ब्योरा दिया जाए कि कितने कर्मचारी को घरेलू उपभोक्ता मे कवर्ड करके उनका पूरा ब्यूरो और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व की केटेगरी वाइज जानकारी दी जाए ।

उत्तर प्रदेश महोत्सव 2024 आज से जानकीपुरम में

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सृजन फाउंडेशन की एक बैठक मंगलवार को अमित सक्सेना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें 8वें उत्तर प्रदेश महोत्सव 2024 का आयोजन 10 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक बंधु जी उत्सव वाटिका, 60 फिटा रोड, भुइयन देवी मंदिर के पास, जानकीपुरम विस्तार में कराने की सहमति हुई।

कार्यक्रम स्थल पर आयोजित बैठक में सृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ अमित सक्सेना ने बताया कि 8वें उत्तर प्रदेश महोत्सव 2024 इस बार 8वां महोत्सव है। संस्था विगत 7 वर्षों से इसे अनवरत करा रही है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में कराई गई थी। यह महोत्सव उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा आयोजन है। इस बार के महोत्सव में निम्न चीजों का समावेश रहेगा। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं की प्रदर्शनी और उनका विक्रय है। इस हेतु देशभर के सभी प्रांतों की अपनी अपनी गुणवत्ता और कौशल के आधार पर भागीदारी रहेगी। जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, खादी, सिल्क से बने हुए विभिन्न प्रकार के वस्त्र इत्यादि, घरेलू साज-सज्जा का सामान, लकड़ी पर कारीगरी की हुई वस्तुएं एवं खिलौने, मिट्टी के बने हुए बर्तन और अन्य उत्पाद आयुर्वेद व स्वदेशी चिकित्सा अन्य पद्धतियों और स्वदेशी कला आधारित आभूषण इसके मुख्य आकर्षण होंगे ।

12 से 16 जनवरी तक होने वाले 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन नासिक में

लखनऊ। महानिदेशक युवा कल्याण सुहास एलवाई ने बताया कि दिनांक 12 से 16 जनवरी तक होने वाले 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन नासिक में किया जा रहा है। जिसमें उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग द्वारा दो नेशनल यूथ अवार्ड विजेता नेहा कुशवाहा व अवधेश कुमार तथा लोकनृत्य, लोकगायन, फोटोग्राफी, पोस्टर, स्टोरी राइटिंग, थीमैटिक के 63 युवा कलाकार भाग ले रहे हैं।

प्रदेश में अब तक 3.42 लाख मीट्रिक टन हुई बाजरा की खरीद

अवधनामा संवाददाता

किसानों को लाभान्वित करते हुए 83114.95 लाख का किया गया भुगतान

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोटे अनाज के तहत समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति कुन्तल की निर्धारित दर से 342953.76 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। इस योजना के तहत 64822 किसानों को लाभान्वित करते हुए 83114.95 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु 05 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 70 प्रतिशत खरीद कर ली गयी है।

इंग्लैण्ड व आस्ट्रेलिया के सात विश्वविद्यालयों में तान्वी चयनित

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, अलीगंज प्रथम कैम्पस की छात्रा तान्वी सिंह को इंग्लैण्ड एवं आस्ट्रेलिया के सात प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उच्चशिक्षा हेतु आमन्त्रित किया है, जिनमें आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मैक्वायर यूनिवर्सिटी एवं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एवं इंग्लैण्ड की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एवं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शामिल हैं। इस प्रकार, सी.एम.एस. की एक और प्रतिभाशाली छात्रा ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा से लखनऊ का गौरव बढ़ाया है। तान्वी ने इस सफलता का श्रेय सी.एम.एस. के अपने शिक्षकों व शैक्षिक वातावरण को दिया है। सी.एम.एस. प्रेसीडेन्ट प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने इस मेधावी छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. एस.ए.टी. एवं एडवान्स प्लेसमेन्ट टेस्ट सेन्टर भी है जो प्रदेश एवं आसपास के अन्य राज्यों के छात्रों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2023 में सी.एम.एस. के 100 से अधिक छात्रों ने अमेरिका, इंग्लैण्ड, कैनडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी विभिन्न देशों के ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलीफोर्निया इन्स्टीट्यूट स्कॉलरशिप के साथ चयनित होकर लखनऊ का नाम अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया है।

मकर संक्रांति से 24 मार्च तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सम्पूर्ण आयोजन में 35 हजार कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे : जयवीर सिंह

लखनऊ। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगामी 14 जनवरी से 24 मार्च, 2024 तक प्रदेश के समस्त मन्दिरों, धार्मिक स्थलों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भजन कीर्तन के माध्यम से पूरे प्रदेश को राममय बनाया जायेगा। इस अवधि के दौरान राम कथा प्रवचन, रामायण, सुन्दर काण्ड, भजन-कीर्तन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा। इस आयोजन में महिला मंगल दल ए.एन.एम., आशा बहुएं, आंगनबाडी आदि का सहयोग लिया जायेगा।

पर्यटन मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुये बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या के 25 प्रमुख स्थलों के साथ-साथ लगभग 1200 मन्दिरों में भी भजन कीर्तन और सुन्दरकाण्ड का पाठ होगा। इस सम्पूर्ण आयोजन में लगभग 35000 कलाकारों का सांस्कृतिक समागम होगा और हर दिन लगभग 500 कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जायेगी।

जयवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान विभिन्न अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत सरयू नदी में नाव पर सांस्कृतिक कला नौका यात्रा के आयोजन के अलावा देश-विदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों के कला का प्रदर्शन के साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी कराया जायेगा। उन्होने बताया कि 22 जनवरी, 2024 को दीपोत्सव के दौरान ग्रामीण व शहरों के लगभग 05 करोड़ आवासों में दीप जलाये जायेंगे।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि राम चरण पादुका यात्रा, राम गमन पथ पर, चित्रकूट (भरत-कूप), से शुरू होकर कौशाम्बी-मंझनपुर, प्रयागराज-श्रंगवेरपुर, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, अयोध्या (नंदी ग्राम) में समाप्त होगी। इस दौरान 1111 शंखों का सामूहिक शंखवादन करके विश्व रिकार्ड बनाया जायेगा। इसके अलावा विद्वानों के नेतृत्व में सभी घाटों पर सरयू आरती का आयोजन होगा। सरयू आरती करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिये काशी के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। जयवीर सिंह ने बताया कि इस अवधि में देश-विदेश के कथा वाचकों द्वारा श्रीराम जी पर कथा करायी जायेगी। रामायण महाकाव्य पर रामलीला नेपाल, कम्बोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैण्ड तथा इण्डोनेशिया के कलाकारों द्वारा मंचित की जायेगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 30वाँ (वि./यॉ.) वृत्त, लो.नि.वि., लखनऊ

प्रकाशनार्थ/निविदा सूचना

पत्रांक :- 51/36सी0बी0-30/24 दिनांक :-04.01.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना (ई-टेण्डरिंग)

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न तालिका में अंकित कार्य हेतु मदवार दरों पर ऑन-लाईन निविदाएँ http://etender.up.nic.in के माध्यम से दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 16.01.2024 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक ही आमंत्रित की जाती है।

निविदा की टेक्निकल बिड दिनांक 16.01.2024 को अपरान्ह 12.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगीं। यदि दिनांक 16.01.2024 को अवकाश होता है तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगीं।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य मय जी.एस.टी. सहित	ठेकेदार की पंजीयन की श्रेणी
1	लखनऊ	विधान सभा सचिवालय स्थित केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र नं0-2 (यूटिलिटी) के अनुरक्षण / मरम्मत का कार्य।	रू0 44.48 लाख	रू0 4.23 लाख	3 माह	रू0 2354.00	केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्रों (वोल्टास मेक) के मूल निर्माता अथवा इनके अधिकृत विक्रेता जो इस विशिष्ट कार्य हेतु अधिकृत हो तथा जिनके पास शासकीय भवनों में समान कार्य का अनुभव हो, ही निविदा के पात्र होंगे।

निविदाओं को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण, शर्तें एवं बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स दिनांक 16.01.2024 के अपरान्ह 12.00 बजे तक ऑन लाइन प्राप्त किये जा सकते है। पात्र निविदादाता अपने बिड को दिनांक 16.01.2024 अपरान्ह 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर सकते है। निविदादाता को बिड सिक्योरिटी धनराशि हेतु रू0 100.00 के नोटरीकृत स्टॉप पेपर पर बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन अपलोड करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
30वीं (वि./यॉ.) वृत्त,
लो.नि.वि., लखनऊ

UPID-200415 Dated-08-01-2024

विज्ञापन आदेश के अनुसार www.upgov.in पर उपलब्ध

शहर वासियों कों 21 दिन और मिलेगा महोत्सव मेले का आनंद

■ एक माह तक चलें इटावा महोत्सव के सांस्कृतिक समारोह का हुआ समापन

वहाज अली निहाल

इटावा। इटावा की सांस्कृतिक विरासत का 113 वर्ष पुराना गवाह ज़िले का वार्षिक उत्सव बन चुके इटावा महोत्सव का एक माह तक चले आयोजन के बाद सोमवार को विधिवत समापन किया गया। प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष व डीएम अवनीश राय ने कार्यक्रमों के समापन के साथ सम्मान समारोह के बीच प्रदर्शनी मेले को 21 दिन और 30 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा की। देर शाम आयोजित हुए समापन समारोह का शुभारंभ डीएम अवनीश राय, एसएसपी संजय कुमार वर्मा समेत प्रदर्शनी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों व जनरल सेक्रेटरी एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव की मौजूदगी में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रखर गौर ने सरस्वती वंदना, अजीत नारायण चतुर्वेदी ने महोत्सव विदाई गीत, विशम्भर नाथ भटेले व रौनक इटावी ने अपने गीत व गजलों के जरिए महोत्सव की विदाई का वर्णन किया। प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष डीएम अवनीश राय ने कहा कि इटावा महोत्सव अपने आप में अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए पहचाना जाता है। यही कारण है कि इस महोत्सव को देश के नामी महोत्सव में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से न सिर्फ जिले को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है बल्कि यहां के लोगों के लिए भी यह लोक पर्व है। इसमें सहभागी होना इस बात का घोतक है कि इटावा साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। उन्होंने पूरे आयोजन के लिए इटावावासियों को भी बधाई दी। प्रदर्शनी समिति के जनरल सेक्रेटरी व एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने कहा कि उनके लिए यह काफी भावुक कर देने वाला क्षण है क्योंकि उन्होंने जिस तरह जनरल सेक्रेटरी के तौर पर प्रदर्शनी में काम किया और लोगों के सहयोग से एक माह के आयोजन को पूर्ण कराया गया उससे काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने इटावा के लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता व आयोजन में शामिल होने के लिए भी बधाई दी। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक, प्रयोजक, विभिन्न अधिकारियों, सुरक्षा, स्वच्छता आदि में सहभागी रहे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी ठेकेदार, कुछ प्रमुख दुकानदारों, नुमाइश कार्यकारिणी कार्यालय के सभी कर्मचारियों व सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ.कुश चतुर्वेदी ने किया।

कार्यक्रम में यह लोग रहे मौजूद

एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी, एसडीएम कौशल कुमार, राजेश कुमार वर्मा, सीओ सिटी अमित कुमार सिंह, तहसीलदार सदर जयप्रकाश सिंह, तहसीलदार भरथना राजकुमार, नायब तहसीलदार प्रीति सिंह, नुमाइश कार्यकारिणी सदस्य गुरुमुख सिंह अरोड़ा, राजकिशोर वाजपेयी, विशन चंद्र अग्रवाल, विजय नारायण सिंघल, प्रेम शंकर शर्मा, ठेकेदार रूप किशोर अग्रवाल, नुमाइश कार्यालय के लिपिक शिवचरण राठौर, कमलेश कुमार, आनंद कुमार, रघुराज सिंह, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

यूपी की तर्ज पर राजस्थान में होगा ब्रज विकास बोर्ड का गठन

मथुरा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज दर्शन कर मन्नत मांगी। गुरुकृपा गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। राधाकुंड में गुर्जर आश्रम में संतों का आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में जंगल राज था, अब राजस्थान में अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। साथ ही यूपी की तर्ज पर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा के विकास के लिए राजस्थान ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। सोमवार की देर रात राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम दो दिवसीय धार्मिक दौरे पर गोवर्धन पहुंचे।

बच्चों ने शबद कीर्तन का गायन करके इटावा की संगत को निहाल किया

अवधनामा ब्यूरो

■ शैक्षिक दल ने बच्चों की सिख गुरुओं से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की

इटावा। गुरुद्वारा दुख निवारण श्री तेगबहादुर साहिब में हिमाचल प्रदेश की अकाल अकेडमी बरु साहिब की गुरमत फुलवारी के 15 सदस्यीय शैक्षिक दल में आए बच्चों और इटावा की संगत के बच्चों ने शबद कीर्तन का गायन करके इटावा की संगत को निहाल किया। इसी के साथ शैक्षिक दल ने गुरुद्वारे में सिख समाज की संगत के बच्चों की शबद कीर्तन गायन, सिख इतिहास से संबंधित चित्रकला व गुरमत क्विज प्रतियोगिता कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में सोमवार को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक चली सिख इतिहास से सम्बन्धित चित्रकला, शबद, गायन, कीर्तन व क्विज प्रतियोगिता में इटावा संगत के बच्चों ने उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार तरन पाल सिंह कालरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आवासीय अकाल अकेडमी बरु साहिब में बच्चों को केजी से पीएचडी तक की आधुनिक तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि गुरमत का प्रचार करने निकले अकाल अकेडमी बरु साहिब से आए शैक्षिक दल ने शबद कीर्तन गायन के साथ प्रतियोगिता आयोजित कर सिख समाज के लोगों और खासतौर से बच्चों को अपने गुरुओं के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया इसके लिए उन्होंने इटावा की संगत की ओर से शैक्षिक दल का आभार व्यक्त किया। गुरुद्वारा दुख निवारण श्री तेग बहादुर साहिब की प्रबन्ध कमेटी ने आए हुए शैक्षिक दल के सदस्यों का सरोपा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। अकाल अकेडमी बरु साहिब शैक्षिक दल के गुरप्रीत सिंह ने बताया कि हमारी टीम में 15 लोग शामिल हैं, हम लोग गुरुद्वारों में बच्चों से कविता गायन, शबद कीर्तन, सिख गुरुओं के इतिहास से संबंधित चित्रकला व क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों को जागरूक करते हैं तथा प्रतियोगिता में जो बच्चे श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रमाण पत्र व मेडल देकर पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने इटावा की संगत से मिले भरपूर सहयोग की भूरि भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम के समापन पर संगत को लंगर प्रसाद वितरित किया गया।

आओं! ब्रह्ममय हो जाएं: निरंकारी संत

अवधनामा संवाददाता

■ ऋषिकेश से आए महात्मा महादेव कहा भ्रम त्यागें ब्रह्म को जानें

मथुरा। संत निरंकारी मिशन द्वारा समय समय पर आध्यात्मिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, इसी कड़ी में मंगलवार को ऋषिकेश से आए निरंकारी प्रचारक महात्मा महादेव कुरियाल ने यहां मथुरा के हाइवे स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित सत्संग में सत्गुरू माता सुदीक्षा महाराज का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि दिन होता है या रात, प्रकाश होता है या अंधकार, ब्रह्म होता है या भ्रम, ऐसे में गौर करें कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर तो जाना चाहते हैं, लेकिन भ्रम छोड़कर ब्रह्म को धारण करना नहीं चाहते, जबकि ब्रह्ममय होकर गुजारा हुआ जीवन सफर ही सार्थक है। हमें ब्रह्ममय हो जाना है, जितना इसमें डुबेंगे उतना ही इसकी गहराई में प्रवेश भी करेंगे और आनंद को भी प्राप्त कर पायेंगे।

निरंकारी संत महादेव ने कहा कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए सम्पन्नता जरूरी नहीं। सिर्फ भाव शुद्ध हो तो प्रभु को पाने में देर नहीं लगेगी क्योंकि परमात्मा कर्म साध्य नहीं कृपा साध्य है। बस हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए प्रभु कृपा तो हो जायेगी। उन्होंने कहा धर्मग्रंथ हो या साहित्य परमात्मा का वर्णन तो करते है और प्रभु के बारे में बताते भी है, जिन्हें पढ़कर ही हम प्रभु के प्रति आकर्षित भी होते है, लेकिन प्रभु से मिलाप तो केवल सत्गुरू ही कराते है।

महात्मा महादेव कुरियाल ने कहा कि हमारा अपना किरदार ऐसा हो जिससे प्रेरित होकर दूसरे अपना किरदार सजाएं, इसके लिए मन के भाव रूहानियत और इंसानियत से ओतप्रोत हो। जब जीवन में प्रभु आ जाते हैं तब सारे मन से उत्पन्न झगड़े दूर हो जाते हैं। सत्गुरू कृपा से समझ आ जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने और चलाने वाला एक ही है। कल हम रहे या नहीं रहे लेकिन परमात्मा रहेगा। परमात्मा हम सबके कर्मो का साक्षी है। इसलिए यह याद रखना होगा कि जब हम नहीं थे तब भी प्रभु के गीत अनंत भक्त संतों के द्वारा गाए जा रहे थे, ऐसे में अगर हम विविध रूपों में प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो यह केवल प्रभु कृपा ही है। सत्संग हम नहीं करते बल्कि प्रभु स्वयं हमसे सत्संग कराते हैं।

ऋषिकेश से आए निरंकारी प्रचारक महात्मा ने यहां कृष्णा नगर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित सत्संग को भी सम्बोधित किया। इस मौके पर मथुरा के जोनल इंचार्ज एच के अरोड़ा ने आए हुए संत महात्मा का स्वागत किया। निरंकारी प्रतिनिधि किशोर स्वर्ण ने बताया कि संत निरंकारी मिशन मुख्यालय दिल्ली के निर्देश पर महात्मा महादेव कुरियाल 7 जनवरी को ऋषिकेश से निकले है, वह मथुरा के अलावा जहांगीराबाद, खुर्जा, सोरों, कासगंज, हाथरस, भवानीपुर, अलीगढ़ आदि शहरों से होते हुए 14 जनवरी को यह प्रचार यात्रा सम्पन्न करेंगे। उनके साथ महात्मा आशाराम गैरोला तथा रमेश पयाल भी शामिल हैं।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। मांट विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वीप समन्वयक प्रो पल्लवी सिंह, नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा मास्टर ट्रेनर मनीष दयाल तथा कार्यक्रम संयोजक एसएलएमटी डा दीनदयाल द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत पटुका पहनाकर किया गया। एनएसएस के स्वयं सेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता गीत प्रस्तुत किया गया। राजकीय महाविद्यालय माँट, मथुरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राथमिक स्कूल, छाहरी, माँट, मथुरा में 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2013 तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर में नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा है स्वीप कोऑर्डिनेटर प्रो0 डॉ पल्लवी सिंह ईएलसी प्रभारी मनीष दयाल ने मतदाता जागरूकता टीम को प्रमाण पत्र तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें नवीन मतदाताओं के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड़ के बारे में बताया गया, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरी कर चुके प्रत्येक छात्र- छात्रा के लिए के लिए इसकी अनिवार्यता पर बल दिया गया। स्वीप कोऑर्डिनेटर प्रो पल्लवी सिंह ने इस अभियान में और तेजी लाने के लिए कहा मास्टर ट्रेनर मनीष दयाल ने कहा कि हर व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और लोकतंत्र को अधिक सशक्त करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए।

डाक घर की रमणरेती शाखा को पुनः स्थापित किए जाने की मांग

वृन्दावन (मथुरा)। रमणरेती क्षेत्र स्थित इस्कॉन मन्दिर परिसर में कई वर्षों पूर्व से चल रहे डाक घर के हटाए जाने से क्षेत्रीय व निकटवर्ती लोगों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें डाक घर सम्बन्धी छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी दूर-दराज के डाक घरों में जाने को विवश होना पड़ रहा है। ब्रज सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि इस्कॉन मंदिर परिसर में कई वर्षों पूर्व से किराए के भवन में चल रही डाक घर की रमणरेती शाखा के भवन को इस्कॉन संस्था ने लगभग 6 माह पूर्व खाली करा लिया था।जिसके बाद डाक घर के उच्च अधिकारियों ने इस शाखा को रमणरेती क्षेत्र में ही कहीं अन्य स्थापित करने के बजाय मथुरा की गायत्री तपोभूमि शाखा से सम्बद्ध कर दिया है।

लड्डू गोपाल के धाम से रामलला को पहुंचेगा लड्डू का भोग

■ श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहली बार सियाराम की छवि में दर्शन देंगे युगल सरकार

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। राम लला के आगमन की उत्सुकता में कान्ही की नगरी उल्लासित है। चिर प्रतीक्षित दिवस पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की छठा अद्भुद और निराली हो एवं सज्जा करते समय यह प्रयास किया जायेगा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की झलक दिखायी दे इस तरह के प्रयासों को मूर्तिरूप दिया जा रहा है। श्रीरामलला के भोग के लिए लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से दिव्य लड्डुओं का भोग श्री अयोध्या धाम जायेगा। लड्डुओं के निर्माण में विषिश्ट मेवा, केसर एवं ऋतु के अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया जायेगा। लड्डु भोग मकर संक्रान्ति को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सुसज्जित वाहन में श्री अयोध्या धाम जायेंगे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्रीकेशवदेव जी महाराज इस ऐतिहासिक दिवस पर श्रीराम रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। ब्रज के कारीगर इस अद्भुत श्रृंगार के निर्माण में लगे हुऐ हैं। प्रथमवार भागवत भवन में विराजित ठाकुरजी श्रीराधा श्रीकृष्ण युगल सरकार की छवि में होंगे सियाराम के दर्शन। अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर जन्मभूमि पर श्रीरामचरित मानस का नवान्ह पारायण पाठ का आयोजन किया जायेगा जो 14 जनवरी को प्रारम्भ होकर भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा दिवस (22 जनवरी) की बेला में पूर्ण होगा। इस दिव्य महोत्सव में प्रातः 9:00 बजे से खीर, हलुआ, पूड़ी प्रसाद वितरण के साथ हो जायेगा और यह प्रसादी-भण्डारा ठाकुरजी के शयन दर्शन तक भक्तों को अनवरत रूप से प्राप्त होगा।

ये होंगे कार्यक्रमः श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अनुसार दोपहर दो बजे से दिव्य भजन गायन का आयोजन जन्मभूमि के पवित्र लीला मंच पर होगा। ब्रज के सुप्रसिद्ध भजन-गायक जगदीश बृजवासी विशेष रूप भगवान श्री राम के मंगल गीत का गायन करेंगे। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक संपूर्ण जन्म स्थान परिसर में रामधुन का प्रसारण होगा। सायं काल पांच बजे से संपूर्ण मंदिर परिसर में विशाल दीपदान का आयोजन किया जायेगा।

उपमन्यु बने एनयूजेआई उत्तर प्रदेश के संरक्षक

मथुरा। एन यू जे आई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट को उत्तर प्रदेश एन यू जे आई का संरक्षक बनाया गया है। लखनऊ में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया इसके साथ ही यू पी पीटीआई एजेंसी के हेड रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है तथा आगरा के वरिष्ठ पत्रकार विवेक जैन को एन यू जे आई का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह घोषणा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार की केंद्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य श्री रास बिहारी ने करते हुए कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने एवं फेक न्यूज़ के विरुद्ध एन यू जे आई एक अभियान चलाएगा तथा राष्ट्र विरोधी मुहिम में शामिल किसी भी पत्रकार का हमारा संगठन समर्थन नहीं करेगा।

पुलिस मुठभेड़: लुटेरे घायल सहित तीन गिरफ्तार

अवधनामा संवाददाता

■ लूट के एक लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और असलाह बरामद

मथुरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में जनपद पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं घर पकड़ अभियान के तहत थाना रिफाइनरी पुलिस की बीती रात लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, उसके दो अन्य साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार थाना रिफाइनरी थानाध्यक्ष कुलबीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम भाहई कट के पास खाली प्लॉट पर पुलिस में मौजूद बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा बदमाशों ने पुलिस से घिरा पाकर पुलिस टीम के ऊपर जानलेवा हमला बोलते हुए फायरिंग शुरू कर दी पुलिस बदमाशों की फायरिंग से बाल बाल बची, पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक बदमाश पर में गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस में बल प्रयोग करते हुए घायल बदमाश के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश का नाम कृष्ण पुत्र रन सिंह निवासी अरुआ खास थाना अछनेरा जिला आगरा इसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। उसके पकड़े गए साथियों के नाम सम्राट उर्फ रामू पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम भैंसा थाना रिफाइनरी कथा विवेक पुत्र भूदेव निवासी ग्राम बरारी थाना रिफाइनरी है पकड़े गए बदमाशों से इसी थाना क्षेत्र में आगरा निवासी मदन गोला से 28 दिसंबर की रात रोक कर उसे गन पॉइंट पर लेकर 1 लाख 32 हजार रुपए एटीएम से निकलवा कर लूट लिए थे इस घटना को भी पकड़े गए बदमाशों ने स्वीकार किया है लूटी हुई रकम में से एक लाख 3 सौ 70 रू के अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 अवैध तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है बाकी दो बदमाशों को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा है पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष कुलबीर सिंह उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह, मोहित कुमार, अखिलेश कुमार, सुरेश चंद सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी शामिल थे।

आर्थिक तंगी से परेशान मरीज को केएम ने दिया सहारा

■ गलत इलाज से टीवी के मरीज का बिगड़ा स्वास्थ्य, केएम के चिकित्सकों ने बचाई जान

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। केएम हॉस्पिटल आर्थिक तंगी से परेशान मरीजों के लिए संजीवनी दूत बना दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण टीवी एडं चेस्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिला है। यहां ताराचंद नामक मरीज को सही इलाज न मिलने से बुरी तरह से स्वास्थ्य खराब हो गया था तथा पैसा का भी आभाव था जिसको टीवी एडं चेस्ट विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों ने नया जीवनदान दिया है। गौरतलब हो कि संजय अपने पिता ताराचंद (55 वर्ष) को लेकर यहां केएम पहुंचा था, अन्य अस्पतालों में गलत टीटमेंट देने से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फेफड़ों में हवा अत्याधिक थी जिसके कारण छाती में भी हवा व सूजन आ गई थी। क्षयरोग विभाग के हैड एवं प्रोफेसर डा. उरपेन्दर पाल सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डा. मनन वेदी, डा. गुंजन शर्मा, डा. लव गुप्ता ने बताया कि ताराचंद यहां गंभीर अवस्था में आया था, प्राइवेट अस्पतालों में सही इलाज न मिलने तथा गलत इलाज से फेफड़ों में इंफेक्शन आ गया था जिससे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। फेफड़ों में हवा होने से सूजन तथा छाती में हवा भी भर गई थी। केएम ने उच्चस्तरीय चिकित्सा मुहैय्या कराई है जिससे उसके स्वास्थ्य में प्रतिदिन सुधार देखने को मिल रहा है। संतोषजनक इलाज मिलने से वह खाना पीना खा रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। ताराचंद के पुत्र संजय ने बताया कि केएम हास्पिटल में पहुंचने से पूर्व मेरे पिताजी को अन्य प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया था, यहां लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी मेरे पिता को आराम नहीं मिला। यहां आकर मात्र दवाईयों के खर्चों पर मेरे पिताजी का निःशुल्क इलाज हुआ है, मेरे लिए केएम किसी संजीवनी से कम नहीं है। मरीज के स्वस्थ्य होने पर केएम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, कुलपति डा. डीडी गुप्ता, एडिशनल मेडीकल सुपरिटेंडेंट डा. आरपी गुप्ता, मेडीकल प्राचार्य डा. पीएन भिसे, रजिस्टार पूरन सिंह ने डाक्टर टीम की प्रशंसा करते हुए बताया कि आर्थिक गरीब तबके के मरीजों के लिए केएम हास्पिटल फ्री चिकित्सा मुहैय्या कराने के लिए वचनवद्ध है। इस अवसर पर क्षय रोग विभाग के डा. सोमेश, डा. प्रखर तौमर, डा. निकिता मान, डा. रवि बैरवा आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

जिला उपाध्यक्ष सिगरेश का सपाईयों ने किया स्वागत

इटावा, अवधनामा ब्यूरो। सिगरेश यादव बने समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर समाजवादी पार्टी के नव मनोनीत जिला उपाध्यक्ष सिगरेश यादव का जिला पंचायत में जोरदार स्वागत किया गया, इस अवसर पर अभिषेक यादव अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रदीप शाक्य बबलू जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आर्यन, वीरभान सिंह भदोरिया महासचिव, के़ के़ यादव, प्रवीण कुशवाहा, सुमित यादव, राजीव यादव, रामवीर यादव, विक्की गुप्ता अनवर हुसैन राइनी, नितिन यादव, उमेश राजपूत अविनाश कुशवाहा, कमलेश यादव, सचिन यादव दीपक आदि ने बधाई दी।

सतरंगी आसमान के साथ दिखा समापन का आतिशबाजी अंदाज़

इटावा, अवधनामा ब्यूरो। इटावा महोत्सव के समापन समारोह में बुद्धा पार्क में आतिशबाजी का आयोजन किया गया सतरंगी आतिशबाजी के बीच डीएम, एसएसपी, एडीएम, जनरल सेक्रेटरी समेत ताजमहल लाल किले की प्रतिकृतियों और सतरंगी झरने जैसी आतिशबाजी ने लोगों को अपनी और आकर्षित किया बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए यहां मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक राज किशोर बाजपेई ने अधिकारियों, इटावा के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आतिशबाजी कलाकारों को भी सम्मानित किया। वही बाल कलाकार समीर खान ने एक हाथ होने के बावजूद डीएम का चित्र बना कर उन्हें भेंट किया।

डीएम, एस एस पी ने समापन पर शायर रौनक इटावी को किया सम्मानित

इटावा, अवधनामा ब्यूरो। इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी वर्ष 2023-24 सम्मान समारोह सोमवार को नुमाइश पंडाल में आयोजित हुआ। जिसमें शायर रौनक इटावी ने समापन गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर अवनीश राय जिलाधिकारी अध्यक्ष नुमाइश कमेटी और संजय कुमार वर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रौनक इटावी को शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एक सवाल के जवाब में शायर रौनक इटावी ने बताया कि वह उद्घाटन और समापन के कार्यक्रम में लगभग 26-27 वर्ष से इस मंच पर गीत पढ़ रहे है। उन्होंने बताया कि मरहूम सूरज प्रकाश नरूला साहब वरिष्ठ सदस्य नुमाइश कमेटी मुझें इस मंच पर लाये। उन्होंने बताया कि जब मैंने पहली बार मंच पर उद्घाटन गीत पड़ा तो नुमाइश कमेटी अध्यक्ष जरनल सेक्रेटरी व सभी सम्मानित सदस्य नुमाइश कमेटी ने पसंद किया उसी वर्ष से और अभी तक डॉ.कुश चतुर्वेदी के संचालन में हर साल उद्घाटन और समापन गीत पढ रहा हूँ। अंत में श्री रौनक इटावी ने नुमाइश कमेटी के अध्यक्ष, जरनल सेक्रेटरी और सभी सम्मानित सदस्यों का तहे-दिल से शुक्रिया अदा किया कि मंच पर मुझें मौका दिया।

विकास गुप्ता उर्फ बिक्की बने समाजवादी पार्टी के ज़िला मीडिया प्रभारी

इटावा, अवधनामा ब्यूरो। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष विकास गुप्ता उर्फ विक्की को समाजवादी पार्टी जनपद इटावा का जिला मीडिया प्रभारी/प्रवक्ता बनाया गया। रविवार को पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने पत्रकारों को दी जानकारी। बिक्की के ज़िला मीडिया प्रभारी बनने पर सपा नेताओं व उनके मित्रों ने दी बधाई व शुभकामनाएं।

हाड़ कपाती ठंड में समाजसेवियों ने जरूरतमंदों को दी गर्माहट

मथुरा। हांड कपकपाती ठंड में रोटी बैंक ने बांटी गरमाहट वैसे तो मथुरा शहर अपने आप में बहुत सी खूबीया समेटे हुए है जहा इस शहर में समाजसेवियों की कमी नहीं हे वही जनसेवा के लिए समर्पित रहने वाली रोटी बैंक श्री मुरलीवाला जिसका दिल हमेंशा जरूरतमंदो के लिए धडकता हैं जो किसी फरिश्ते से कम नहीं दिखती हैं फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंदो को भोजन के साथ साथ ही जूते मोजे शर्ट पैंट स्वेटर कम्बल इत्यादि वितरित की गई तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जहा सामान पाकर लोग इन सेवको को लाखो दुआए दे रहे थे वही बच्चो की थैंक यू अंकल थैंक यू दीदी गूंज से बच्चे खुशी दर्शा रहे थे इनकी सेवाए देखकर हर कोई कायल दिखा। वही शिवकुमार सोनी अध्यक्ष ने समाज ले लोगो से अपील की है आप भी इन जरूरतमंदो की मदद करे आपसे जो भी बन सकता है। इन लोगो की मदद करे जिससे ये लोग अपना ठंड में बचाव कर सके जहा हफ्तों से धूप के दर्शन नही हो रहे थे। वही इस गरमाहट वितरण में लोगो को जरूरत की चीजे मिलने पर निकली इनकी खिलखिलाती हंसी इन लोगों को गरमाहट पहुचा रही थी। वही टीम के सदस्यों ने जमकर खूब सहयोग किया जिसमें हरेंद्र सोनी उपमा वर्मा विनोद चौधरी सुप्रिया यादव हेमा यादव यतेन्द्र प्रताप सिंह देवी सिंह नरेन्द्र कुमार ईत्यादि रहे।

रुद्राक्ष और मेहुली ने एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में भारत के लिए पांचवां स्वर्ण पदक जीता

मंगलवार को रुद्राक्ष पाटिल और मेहुली घोष की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतकर भारत को निशानेबाजी एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पांचवां स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शेन युफान और झू मिंगशुआई की चीन की जोड़ी को 16-10 से हराया।

रुद्राक्ष पाटिल और मेहुली घोष की जोड़ी ने मंगलवार को यहां 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतकर भारत को निशानेबाजी एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पांचवां स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शेन युफान और झू मिंगशुआई की चीन की जोड़ी को 16-10 से हराया।

रुद्राक्ष और मेहुली की जोड़ी क्वालीफिकेशन में कुल 631.3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। युफान और मिंगशुआई ने 632.3 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा की जोड़ी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है जहां उनका सामना थू विन्ह ट्रिनह और कुआंग हुइ फाम की वियतनाम की जोड़ी से होगा। रिदम और अर्जुन की जोड़ी क्वालीफिकेशन में 582 अंक के साथ शीर्ष पर रही थी। वियतनाम की जोड़ी ने 580 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था।

सोमवार को युवा निशानेबाजों वरूण तोमर और ईशा सिंह ने पुरुष और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के लिए दो ओलंपिक कोटा हासिल किए थे। ये दोनों स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की क्रमशः पुरुष और महिला टीम का भी हिस्सा थे। इन दोनों के क्वालीफाई करने के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले भारतीय निशानेबाजों की संख्या 15 हो गई है जो तोक्यो खेलों में देश के सबसे बड़े निशानेबाजी दल की बराबरी है।

मैदान में राम सिया राम गाना क्यों बजता है, केशव महाराज ने खुद बताया कारण

केशव आत्मानंद महाराज मैदान पर आते हैं, तो स्टेडियम में डीजे को 'राम सिया राम जय जय राम' गाना बजाने का विशेष अनुरोध मिलता है। यह अनुरोध कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका का यह वामहस्त स्पिनर खुद करता है। क्रिकेट मैच के दौरान भक्ति संगीत का बजना दुर्लभ है लेकिन जब केशव आत्मानंद महाराज मैदान पर आते हैं, तो स्टेडियम में डीजे को 'राम सिया राम जय जय राम' गाना बजाने का विशेष अनुरोध मिलता है। यह अनुरोध कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका का यह वामहस्त स्पिनर खुद करता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय सीरीज के दौरान भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे लोकेश राहुल ने भी महाराज से पूछा था जब भी आप प्रवेश (मैदान में) करते हैं, तो वे यह गाना बजाने लगते हैं। केपटाउन टेस्ट में जब महाराज बल्लेबाजी के लिए मैदान में आये तब एक बार फिर यह गाना बजने लगा और इस दौरान दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हाथ जोड़ कर खड़े दिखे।

एटमबर्ग और कैम्पा होंगे सीसीआई ने नए आधिकारिक स्पॉन्सर, भारत में होने वाले मैचों के लिए हुई डील

सीसीआई ने भारत में होने वाले मैचों के लिए कैंपा के साथ डील की है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाली ड्रिंक्स ब्रांड कैंपा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्पॉन्सर होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत में होने वाले मैचों के लिए कैंपा के साथ डील की है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाली ड्रिंक्स ब्रांड कैंपा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्पॉन्सर होगा।

दरअलस बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज की है, जिसमें खुद उसने इस बात की पुष्टि की है। बीसीसीआई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीज़न 2024-2026 के लिए कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज को आधिकारिक भागीदार घोषित कर रही है। इस रिलीज में आगे लिखा है कि, जैसा कि क्रिकेट प्रेमी मैदान पर रोमांचक प्रतियोगिताओं और असाधारण प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, बीसीसीआई फैंस के अनुभव को बढ़ाने और भारतीय क्रिकेट के कद को ऊंचा करने के लिए दो घरेलू ब्रांडों, कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़कर खुश है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के तहत एक विरासती ब्रांड, उत्पादों की एक रोमांचक सीरीज की घोषणा करने और स्टेडियमों में फैंस को नए जमाने का अनुभव प्रदान करने के लिए इस सहयोग का लाभ उठाएगा।

भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उपकरण ब्रांडों में से एक- स्मार्ट फैंस में अग्रणी और बाजार के अग्रणी हैं और हाल ही में स्मार्ट ताले और अन्य घरेलू उपकरणों में उद्यम किया है। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि, हमें भारत होम क्रिकेट सीजन 2024-26 के लिए अपने सम्मानित साझेदार के रूप में कैम्पा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है, और साथ में, हम एक बनाने के लिए तत्पर हैं। देश भर के प्रशंसकों के लिए अद्वितीय क्रिकेट अनुभव।

दिवंगत सविता कंसवाल को मिला अर्जुन अवॉर्ड, बूढ़े माता-पिता की आंखों में थे आंसू

सविता कंसवाल को मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान उनके पिता ने ये सम्मान ग्रहण किया। बता दें कि, साल 2022 में ट्रैंकिंग के दौरान जान गंवाने वाली सविता के लिए उनके पिता ने अर्जुन अवार्ड को राष्ट्रपति से ग्रहण किया।

भारतीय दिवगंत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान उनके पिता ने ये सम्मान ग्रहण किया। बता दें कि, साल 2022 में ट्रैंकिंग के दौरान जान गंवाने वाली सविता के लिए उनके पिता ने अर्जुन अवार्ड को राष्ट्रपति से ग्रहण किया।

वहीं जैसे ही सविता का नाम पुरस्कार के लिए बुलाया गया उनकी मां और बहनों के आंखों से आंसू झर-झर बहने लगे।

बता दें कि, 4 अक्टूब 2022 का दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में करीब 40 लोगों के लिए काल का दिन था। जिस चोटी को फतेह करने के लिए 40 लोगों का एक दल निकला था उसी चोटी पर आए हिमस्खलन में सविता की मौत हो गई थी। सविता उन 40 लोगों के दल की ट्रेनर थीं, अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर उन्होंने ना सिर्फ जिले, प्रदेश का नाम रौशन किया बल्कि पूरे देश में उन्होंने अपना वर्चस्व फैलाया। एवरेस्ट फतेह के 15 दिन के भीतर सविता ने माउंट मकालू का भी सफल आरोहण कर रिकॉर्ड बनाा था। इसके साथ ही माउंट ल्होत्से चोटी पर तिरंगा लहराने वाली सविता देश की दूसरी महिला पर्वतारोही बनीं थीं।

राष्ट्रपति से सविता के पिता द्वारा लिया गया अर्जुन अवार्ड का वीडियो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने पर शेयर किया।

इस दौरान उन्होंने लिखा, दिन का हृदयस्पर्शी क्षण, यह अत्यंत भावनात्मक और गर्व से भरा क्षण है जब श्री राधे श्याम कंसवाल जी ने अपनी दिवंगत बेटी सविता कंसवाल की ओर से लैंड एडवेंचर में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 स्वीकार किया। सविता 16 दिनों की अवधि में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। पर्वतारोहण में एक दशक लंबे करियर के साथ, उन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया और वीरता प्रदर्शित की। मैं उनके अमूल्य योगदान को सलाम करता हूं।

पीसीबी ने विदेशी कोच मिकी आर्थर और दो अन्य को किया बाहर

पीसीबी ने विश्व कप सहित हाल के दिनों में सीनियर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अपने विदेशी कोच मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पुटिक से सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने विश्व कप सहित हाल के दिनों में सीनियर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अपने विदेशी कोच मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पुटिक से सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पीसीबी अध्यक्ष जका अशरफ और मुख्य परिचालन अधिकारी सलमान नसीर तीनों के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत करेंगे। एशिया कप और विश्व कप के दौरान पाकिस्तान टीम प्रबंधन का हिस्सा रहे इन तीनों ने भारत से लाहौर लौटने के बाद छुट्टियां लेने का फैसला किया और उन्हें सूचित किया गया कि अब राष्ट्रीय टीम के साथ उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। तीनों को बताया गया कि पीसीबी ने फैसला किया है कि वे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में काम करेंगे क्योंकि उन्होंने मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान टीम का निदेशक और नए कोच नियुक्त किए हैं।

भारत और साउथ केपटाउन की खराब पिच पर आईसीसी का फैसला, दो दिन ही चला टेस्ट मैच

भारत और साउथ अफ्रीका केपटाउन टेस्ट की खराब पिच पर आईसीसी ने अपना फैसला सुनाया है। आईसीसी ने केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान में खेले गए मैच की पिच को अंसतोषजनक करार दिया है। ये फैसला आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत लिया गया है।

आईसीसी ने भारत और साउथ अफ्रीका केपटाउन टेस्ट की खराब पिच पर अपना फैसला सुनाया है। आईसीसी ने केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान में खेले गए मैच की पिच को अंसतोषजनक करार दिया है।

ये फैसला आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत लिया गया है। बता दें कि, ये इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच था, जो दो दिन के भीतर समाप्त हो गया था। मैच में केवल 107 ओवर यानी 642 गेंदें फेंकी गईं। भारत ने केपटाउन में सात विकेट से जीत हासिल कर दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की।

आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने केपटाउन टेस्ट को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मैच अधिकारियों की चिंता व्यक्त की गई और मूल्यांकन के बाद न्यूलैंड्स पिच को असंतोषजनक माना गया। ब्रॉड ने कहा कि न्यूलैंड्स की पिच पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था। पूरे मैच के दौरान गेंद तेजी से और कभी-कभी खतरनाक तरीके से उछली, जिससे शॉट खेलना मुश्किल हो जाता था। कई बल्लेबाजों के दस्तानों पर गेंद लगी और अजीब उछाल के कारण कई विकेट भी गिरे।

वहीं बता दें कि, अगर आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस में अगर किसी पिच या आउटफील्ड को अच्छा नहीं माना जाता है तो उसे डिमेरिट अंक दिए जाते हैं। एक डिमेरिट अंक उन वेन्यू को दिया जाता है, जिनकी पिच और आउटफील्ड को मैच रेफरी असंतोषजनकर मानते हैं।

आओगे जब तुम साजना... गाने वाले संगीत सम्राट राशिद खान का निधन, कैंसर से लड़ी लंबी लड़ाई

कोलकाता के एक अस्पताल में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करा रहे मशहूर संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का बुधवार को निधन हो गया। 55 वर्षीय कलाकार वेंटिलेटर पर थे और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा था। कोलकाता के एक अस्पताल में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करा रहे मशहूर संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का बुधवार को निधन हो गया। 55 वर्षीय कलाकार वेंटिलेटर पर थे और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा था। जिस निजी अस्पताल में खान को भर्ती कराया गया था, उसके एक अधिकारी ने कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। दोपहर करीब 3:45 बजे उनका निधन हो गया।

राशिद खान की मौत के बारे में बोलते हुए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह पूरे देश और पूरे संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं बहुत दर्द में हूं क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राशिद खान अब नहीं रहे। पिछले महीने सेरेब्रल अटैक का सामना करने के बाद संगीतकार का स्वास्थ्य खराब हो गया था। रामपुर-सहसवान घराने के 55 वर्षीय व्यक्ति ने शुरुआत में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में इलाज कराया। हालाँकि, बाद के चरण में, उन्होंने विशेष रूप से कोलकाता में अपना इलाज जारी रखने का विकल्प चुना। सूत्रों के मुताबिक, खान शुरू में इलाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे थे।

उत्तर प्रदेश के बदायूँ में जन्मे राशिद खान, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के भतीजे भी हैं, ने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने नाना उस्ताद निसार हुसैन खान (1909-1993) से प्राप्त किया। उनकी संगीत प्रतिभा को सबसे पहले उनके चाचा गुलाम मुस्तफा खान ने पहचाना, जिन्होंने मुंबई में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। हालाँकि, प्रारंभिक प्रशिक्षण निसार हुसैन खान से उनके निवास स्थान बदायूँ में प्राप्त हुआ। ग्यारह साल की उम्र में, राशिद खान ने अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया और अगले वर्ष, 1978 में, उन्होंने दिल्ली में आईटीसी संगीत कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाई। इसके बाद, अप्रैल 1980 में, जब निसार हुसैन खान कलकत्ता में आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी (एसआरए) में चले गए, तो 14 साल की उम्र में राशिद खान भी अकादमी का हिस्सा

खान ने शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत को हल्के संगीत शैलियों के साथ मिश्रित करने का साहस किया और पश्चिमी वाद्ययंत्र वादक लुइस बैंक्स के साथ संगीत कार्यक्रम सहित प्रयोगात्मक सहयोग में लगे रहे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जुगलबंदियों में भाग लेकर, सितारवादक शाहिद परवेज़ और अन्य संगीतकारों के साथ मंच साझा करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

रणवीर सिंह दे रहे थे मालदीव विवाद पर अपने विचार, अचानक हो गयी बड़ी गलती, एक्टर ने तुरंत ऐसे सुधारी अपनी भूल

अभिनेता रणवीर सिंह ने गलती से एक प्रमोशनल पोस्ट पर गलत तस्वीर ट्वीट कर दी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत के बाद, रणवीर सिंह, लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के दौरान, चीजें गड़बड़ हो गई क्योंकि उन्होंने अनजाने में मालदीव की तस्वीर अपलोड कर दी, न कि भारतीय द्वीप की।

सोशल मीडिया मशहूर हस्तियों सहित लोगों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्मों में से एक है। हालाँकि यह आज दुनिया भर में इंटरैक्टिव टूल का एक आसान और लोकप्रिय रूप है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब हम इसमें गलतियाँ कर बैठते हैं। यह सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब मशहूर हस्तियां भी आकस्मिक सोशल मीडिया विफलता का शिकार बन जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और आलोचना होती है।

ऐसे ही एक उदाहरण ने हाल ही में प्रशंसकों का ध्यान खींचा जब बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने गलती से एक प्रमोशनल पोस्ट पर गलत तस्वीर ट्वीट कर दी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत के बाद, रणवीर सिंह, लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के दौरान, चीजें गड़बड़ हो गई क्योंकि उन्होंने अनजाने में मालदीव की तस्वीर अपलोड कर दी, न कि भारतीय द्वीप की।

विदेशी द्वीप की तस्वीर साझा करते हुए, रणवीर ने लिखा, इस साल आइए 2024 को भारत की खोज और हमारी संस्कृति का अनुभव करने के लिए बनाएं। हमारे देश के समुद्र तटों और सुंदरता में देखने और तलाशने के लिए बहुत कुछ है। चलो भारत आइए भारतीय द्वीपों का अन्वेषण करें। चलो भारत देखें।

हालाँकि, नेटिज़न्स ने यह बताने में जल्दबाजी की कि रणवीर द्वारा साझा की गई तस्वीर लक्षद्वीप की नहीं बल्कि मालदीव की है। आप मालदीव की तस्वीर लगाकर भारतीय द्वीपों का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है रणवीर? एक यूजर ने अब डिलीट किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा। रणवीर ने त्वरित प्रतिक्रिया में पोस्ट को हटा दिया और इसे फिर से साझा किया, इस बार बिना किसी तस्वीर के। हालाँकि, ऐसा लगता है कि नेटिज़न्स सिम्बा अभिनेता को बख्शने के मूड में नहीं थे।

कई लोगों ने नई पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हटाने में बहुत देर हो गई, इंटरनेट हमेशा जीतता है, मालदीव की तस्वीर पोस्ट की और हटा दी गई, यार, तुम्हें भारतीय द्वीपों का प्रचार करना था, लेकिन तुमने वहां की तस्वीरें पोस्ट कर दीं जैसी टिप्पणियां जोड़ीं मालदीव!, आदि।

विशेष रूप से, रणवीर सिंह इस पंक्ति का पालन करने वाले एकमात्र सेलिब्रिटी नहीं हैं। अमिताभ बच्चन, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, सलमान खान, अक्षय कुमार और कंगना रनौत जैसी मशहूर हस्तियों सहित कई अन्य लोग भी हैशटैग एक्सप्लोर इंडियनआइलैंड्स के तहत विजिट लक्षद्वीप अभियान में शामिल हुए हैं। आखिरी बार करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए रणवीर सिंह के पास पाइपलाइन में कुछ रोमांचक प्रोजेक्ट हैं, जिनमें रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, फरहान अख्तर की डॉन 3 और एस शंकर की अगली फिल्म शामिल है।

नीतू कपूर और ज़ीनत अमान ने जवानी के साझा किए किस्से, कहा इस एक्टर पर हार चुकी थी अपना दिल

आठवें सीज़न के लिए एक आकर्षक मोड़ में, आगामी एपिसोड में उद्योग के दो दिग्गजों जीनत अमान और नीतू कपूर के बीच एक आकर्षक बातचीत का वादा किया गया है। मनमोहक कंटेंट देने के अपने वादे पर खरे उतरे करण जौहर ने नीतू और जीनत के बीच तीखी नोकझोंक की। इंस्टाग्राम पर साझा किया गया प्रोमो आनंददायक और स्पष्ट स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। नीतू कपूर मजाक-मजाक में अपने पति ऋषि कपूर के चाचा शशि कपूर पर क्रश होने की बात स्वीकार करती हैं, जबकि जीनत अमान की मंदिर यात्रा की कहानी बातचीत में हास्य का स्पर्श जोड़ती है।

करण ने ज़ीनत को स्टाइल और कामुकता के प्रतीक के रूप में पेश किया, जबकि नीतू ने उन्हें प्यारी और जीवंत बताया, जो उनके सौहार्द के लिए मंच तैयार करता है। यह जोड़ी द ग्रेट गैम्बलर, यादों की बारात, धरम वीर और हीरालाल पन्नालाल जैसी फिल्मों में अपने सहयोग की याद दिलाती है।

70 के दशक के बारे में ज़ीनत के खुलासे एक दिलचस्प अतीत की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उन क्षणों का भी जिक्र है जब उसने खुद को आज़ाद कर लिया था। नीतू ने ज़ीनत की मंदिर यात्रा का जिक्र करके बातचीत में मसाला डाला, जहां अलमारी की खराबी के कारण एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई थी। एपिसोड की प्रत्याशा बढ़ जाती है क्योंकि ज़ीनत एक रहस्यमय कपूर के बारे में संकेत देती है जिसने उसे एक रहस्यमय बॉक्स भेजा था, जिसमें संदेश छोड़ा था, ज़ीनी, गेंद अब आपके पाले में है। नीतू, किसी और पर नहीं बल्कि ऋषि कपूर से शादी करने वाले उनके चाचा शशि कपूर पर अपने गुप्त क्रश को कबूल करती हैं।

करण ने ज़ीनत से पूछा, किसी ने तुम्हें बॉक्स और बॉक्स में गेंद भेजी और कहा कि जिने गेंद तुम्हारे पाले में है? क्या आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने आपको वह डिब्बा भेजा है? खैर, इस जवाब से नीतू कपूर सदमे में आ गई और वह जोर-जोर से हंसने लगीं। ज़ीनत ने जवाब दिया, उनके परिवार का हिस्सा। सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं में इस पावर-पैक एपिसोड के लिए उत्सुकता और उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसमें जीनत अमान और नीतू कपूर को एक साथ लाने के लिए करण जौहर की प्रशंसा की जा रही है।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, 22 जनवरी को जाएंगे अयोध्या

कंगना रनौत और रजनीकांत के निमंत्रण के बाद, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है।

अयोध्या राम मंदिर उद्घाटनः कंगना रनौत और रजनीकांत के निमंत्रण के बाद, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है। लोकप्रिय बॉलीवुड जोड़ी ने एक तस्वीर में आरएसएस नेताओं से निमंत्रण कार्ड स्वीकार किया है जो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। रविवार को पति-पत्नी ने सुनील अंबेकर, अजय मुडपे, प्रांत प्रचार प्रमुख, आरएसएस कोंकण, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख और निर्माता महावीर जैन के साथ बैठक की। रणबीर और आलिया को राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए गुलदस्ते और निमंत्रण दिए गए।

कार्यक्रम की तारीख 22 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्री राम अभिषेक के लाइव प्रसारण के लिए बूथ स्तर पर बड़ी स्क्रीन लगाने के लिए कहा गया है। इस परियोजना का लक्ष्य आम जनता को श्री राम लला के समर्पित दर्शन का मार्ग उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, भाजपा कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सूत्र बताते हैं, कार्यकर्ता कंबल वितरित करना, सामुदायिक भोज भंडारा आयोजित करना या जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भोजन या फलों के रूप में दान के माध्यम से योगदान करना चुन सकते हैं।

22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस आयोजन पर काफी ध्यान दिए जाने के परिणाम स्वरूप भारत और बाहर से कई वीवीआईपी आगंतुकों को अयोध्या में इस शुभ अवसर में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला है। प्रमुख उत्सव से एक सप्ताह पहले, 16 जनवरी को, अयोध्या में राम लला (बाल भगवान राम) के प्राण-प्रतिष्ठा (अभिषेक) समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान शुरू होंगे। 22 जनवरी को, वाराणसी के पुजारी लक्ष्मी कांत दीक्षित, राम लला के अभिषेक के मुख्य समारोह का संचालन करेंगे। अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा।

1008 हुंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा. हजारों भक्तों को समायोजित करने के लिए अयोध्या में कई तम्बू शहर बनाए जा रहे हैं, जिनके भव्य अभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के मंदिर शहर में पहुंचने की उम्मीद है।

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा कि 10,000 और 15,000 व्यक्तियों की सेवा की जाएगी। प्रमुख कार्यक्रम के दौरान मेहमानों की अपेक्षित आमद की तैयारी में, स्थानीय अधिकारी अधिक सुरक्षा उपाय कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए रसद का आयोजन कर रहे हैं कि इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को एक सहज और आध्यात्मिक रूप से ज्ञानवर्धक अनुभव हो।

भारत के डर से लिया था अभिनंदन को छोड़ने का फैसला

नई दिल्ली। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक- एंगर मैनेजमेंट÷ द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। अजय बिसारिया ने इसमें भारत के बालाकोट हमलों के बाद की कूटनीतिक स्थिति को लेकर कई खुलासे किए हैं। सबसे पहले उन्होंने किताब के शीर्षक के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक चंचल शीर्षक है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, मैंने पाया कि इस (भारत-पाकिस्तान) रिश्ते में गुस्सा एक महत्वपूर्ण मूल भाव है। पिछले 76 वर्षों में विभाजन, युद्ध, आतंकवाद पर गुस्सा रहा है ... इसलिए रिश्ते में वास्तविक, उचित, अनुचित, बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि नीति के संदर्भ में प्रबंधन के आसपास बहुत बातचीत हुई है। इसको लेकर तर्क यह है कि आप इस मुद्दे को स्थायी रूप से शांति से हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कूटनीति और अन्य माध्यमों से विभिन्न तरीकों से प्रबंधित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरा विचार इन दो विचारों को एक साथ रखने और इसे एंगर मैनेजमेंट कहने का था... बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पीएम मोदी को फोन करने पर पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने कहा, ÷पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में कार्रवाई की थी और उसके बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ था। जिसको लेकर भारत ने कहा कि हमने हमले का तेजी से करारा जवाब दिया है। बिसारिया ने कहा, इसी दौरान पाकिस्तान में एक भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया। किताब में मैंने पायलट को वापस लाने के लिए उसके बाद हुई जबरदस्त कूटनीति का विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एंगर मैनेजमेंट किताब का जिक्र करते हुए बिसारिया ने कहा, बालाकोट हमलों के बाद पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगते हुए कहा था कि 'भारत ने उसकी तरफ 9 मिसाइलें तान दी हैं, जो कभी भी लॉन्च हो सकती हैं।'

स्मृति ईरानी ने किया मदीना का दौरा

भारतीय स्वयंसेवकों और उमराह पर गए यात्रियों से की मुलाकात

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ सोमवार को भारतीय हज यात्रियों की सहायता करने वाले भारतीय स्वयंसेवकों से मुलाकात की और भारत के उमराह पर जाने वाले यात्रियों के साथ भी बातचीत की। ईरानी ने सोमवार को इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की भी यात्रा की।

ईरानी ने सोशल मीडिया पर कहा, सऊदी अधिकारियों के सहयोग से आज मदीना में पैगंबर की अल मस्जिद अल नबवी, उहुद पर्वत और इस्लाम की पहली क्यूबा मस्जिद के बाहरी क्षेत्र की यात्रा की। ये सभी स्थान इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक चरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को रेखांकित करते हैं। इस दौरान ईरानी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल हज यात्रा में भारतीयों की निस्वार्थ सेवा करने वाले भारतीय स्वयंसेवकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के उमराह पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की। ईरानी ने कहा, उनकी सऊदी यात्रा अगले साल भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी। इससे उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में भारत

नई दिल्ली। लक्षद्वीप को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र सरकार अब प्रयास में जुट गई है। इसी बीच, भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नयाएयरपोर्ट विकसित करने की योजना बना रहा है, जो वाणिज्यिक विमानों के साथ-साथ लड़ाकू जेट सहित सैन्य विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ÷यहां एक संयुक्त हवाई क्षेत्र बनाने की योजना है, जो लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा।

सूत्रों ने बताया कि पहले भी मिनिकॉय द्वीप समूह में इस नए हवाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए हैं। संयुक्त उपयोग वाले रक्षा हवाई क्षेत्र की इस योजना को हाल के दिनों में दोबारा शुरू किया गया है और अब तेजी से इसकी प्रगति की जा रही है। सैन्य दृष्टिकोण से, हवाई क्षेत्र भारत को एक मजबूत क्षमता प्रदान करेगा, क्योंकि इसका उपयोग अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के अधीन पहला बल था, जिसने मिनिकॉय द्वीप समूह में हवाई पट्टी के विकास का सुझाव दिया था। वर्तमान प्रस्ताव के मुताबिक, भारतीय वायु सेना मिनिकॉय से

ऑपरेशन चलाने में अग्रणी होगी। मिनिकॉय का हवाई अड्डा रक्षा बलों को अरब सागर में अपने निगरानी क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता भी देगा। मिनिकॉय में हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इस समय द्वीप क्षेत्र में केवल एक हवाई पट्टी है, जो अगत्ती में है और यहां हर तरह के विमानों की लैंडिंग नहीं हो सकती है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद से यह द्वीप क्षेत्र चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेता लक्षद्वीप को पर्यटक आकर्षण के रूप में बढ़ावा देने की भारतीय योजनाओं की आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बोल चुके हैं, जिसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया।

केरल के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पुलिस का शिकंजा

तिरुवनंतपुरम। युवा कांग्रेस केरल के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मामकुत्तथिल को पुलिस ने हिरासत

में ले लिया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पिछले महीने संगठन द्वारा आयोजित सचिवालय मार्च के दौरान हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले उनको गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तिरुवनंतपुरम छावनी पुलिस ने मंगलवार तड़के राहुल को पथानामथिट्टा जिले में उनके आवास से हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में राज्य सरकार के नव केरल सदा कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित अत्याचारों को उजागर करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पुलिस ने सचिवालय मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन को पहला आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

गोवा के होटल में 4 साल के बेटे की हत्या, बैग में शव भरकर टैक्सी में मां हुई फरार

बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी की सीईओ ने अपने चार साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी।

सूचना

पुलिस ने बच्चे की बॉडी भी बरामद की है। आरोपी महिला की पहचान 39 वर्षीय सूचना सेठ के तौर पर हुई है।

यह मामला काफी हैरान कर देने वाला है। सोमवार को गोवा के एक होटल में अपने चार साल के बेटे की हत्या करने और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में भागते समय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, गोवा के होटल में हत्या को अंजाम देने के बाद सूटकेस में बॉडी रखकर महिला टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। कर्नाटक के पास पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बच्चे की बॉडी भी बरामद की है। आरोपी महिला की

पहचान 39 वर्षीय सूचना सेठ के तौर पर हुई है। यह अपराध तब सामने आया जब एक होटल कर्मचारी महिला के होटल से बाहर निकलने के बाद कमरे की सफाई कर रहा था। इस दौरान उसने चादरों पर खून के धब्बे देखे। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। सीईओ ने अपने बेटे के साथ 6 जनवरी को उत्तरी गोवा के सिंक्वेरिम में होटल में चेक इन किया था। 39 साल की सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस ने चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेठ ने अपने बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और इस कृत्य को अंजाम देने के बाद होटल प्रबंधन से बेंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था करने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि महिला सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहती है। मामले में सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वह अकेले ही होटल से बाहर निकली थी। कलंगुट पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, आरोपी महिला ने शुरू में पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे को दक्षिण गोवा में एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया है, लेकिन कहानी की कोई पुष्टि नहीं होने पर हमने कैब ड्राइवर को बुलाया और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद उसे बेंगलुरु जाते समय चित्रदुर्ग जिले में कर्नाटक पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया।

उद्धव गुट के नेता और विधायक रवींद्र वायकर से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली। उद्धव गुट के नेता और विधायक रवींद्र वायकर और उनके पार्टनर से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले के संबंध में यह छापेमारी की जा रही है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने बृहन्मुंबई के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करके जोगेश्वरी में एक लक्जरी होटल के निर्माण के संबंध में रवींद्र वायकर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। वायकर और पांच अन्य पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज किया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर आधारित था।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संजय सिन्हा सर का जन्मदिन मनाया

नई दिल्ली। ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के संस्थापक और पटना सिटी के जाने माने अंग्रेजी के शिक्षक श्री संजय सिन्हा सर के जन्मदिन के मौके पर उनके शिष्यों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया।इस मौके पर संस्था के क्षेत्रीय निदेशक दीपक सिन्हा ने कहा कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में संजय सिन्हा सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।उनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र आज देश-दुनिया के तरक्की में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं।श्री सिन्हा ने कहा कि बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगा कि उनके द्वारा दिए गए अंग्रेजी शिक्षा का न केवल पटना में बल्कि पूरे देश में असर हुआ है और यही वजह है कि भारत के भिन्न-भिन्न शहरों में ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के लगभग एक सौ से अधिक शाखाएं हैं।सबसे बड़ी बात है कि हर शाखा अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है और संजय सिन्हा सर के जीवन-मूल्यों और विचारों पर आधारित है साथ ही शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ भी है।दिल्ली में ही ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के लगभग 10 से अधिक शाखाएं हैं।संजय सिन्हा सर ने आज से लगभग 30 साल पहले अंग्रेजी का दीया वहां जलाया था जहां सदियों से अंधेरा था।संजय सर के विद्वता से प्रभावित होकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु उनके शिष्यों ने देश के जिस शहर में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया अपने संस्थान का भी नाम ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट ही रखा।इस मौके पर उपस्थित संस्था के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट अनुराग तिवारी ने कहा कि संजय सिन्हा सर असाधारण व्यक्तित्व के धनी शख्स हैं और अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में उनके काम वाकई उल्लेखनीय हैं।उनके अंग्रेजी पढ़ाने की शैली बेहतरीन है और यही वजह है कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र आज हर क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद सफल हो रहे हैं और यह अपने आप में सारे औरवेलियंस के लिए एक गौरव का विषय है।

भारत विरोधी बयान के बाद अब मालदीव की राजनीति में आया भूचाल

माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से अब

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ सकती है। विपक्षी इसका फायदा उठाते हुए अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को सत्ता से हटाने में जुट गई है।

मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आह्वान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से बेदखल करने में मदद करने की अपील की है।

अली अजीम ने कहा कि हम देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग-थलग होने से रोकने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने अपनी डेमोक्रेट पार्टी से पूछा कि क्या आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं?

सोशल मीडिया ङ्ग (पूर्व में ट्विटर) पर अली अजीम ने लिखा, %हम, डेमोक्रेट, देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश के अलगाव को रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? क्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (स्र्ठ्ठक्) पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है?%

मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के बाद विवाद पैदा हो गया। रविवार को मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर तीन उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया था।

मालदीव की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, युवा मंत्रालय में उप मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महज़ूम माजिद को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, सोमवार को, भारत में मालदीव के दूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की गई।

कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर लगेगी रोक

सियोल। दक्षिण कोरिया की संसद ने मंगलवार को कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। जल्द ही दक्षिण कोरिया विवादास्पद सदियों पुरानी इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर देगा। कोरियाई मानते है कि कुत्ते का मांस खाने से इम्युनिटी में सुधार आता है,लेकिन इस सदियों पुरानी प्रथा को अब केवल बुजुर्ग लोग ही फॉलो करते हैं। हालांकि, अधिक कोरियाई लोग कुत्तों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और कुत्तों को खाने और मारने की जमकर आलोचना करते है। पशु कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांस के लिए अधिकांश कुत्तों को बिजली का झटका दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है। कुत्तों का मांस खाने और बेचने पर बैन लगान का समर्थन खुद राष्ट्रपति यून सुक येओल ने भी किया है।

लक्षद्वीप विवाद के बीच मालदीव को अब याद आया 911 कोड, एक और पूर्व मंत्री ने पीएम मोदी का किया समर्थन

माले (मालदीव)। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के कुछ सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बीच मालदीव के एक और पूर्व मंत्री ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। द्वीपसमूह की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव का भारत एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है, जो रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है, और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास की आलोचना की। दीदी ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर निराशा जताई। उन्होंने भारत को मालदीव के लिए 911 कॉल के तौर पर याद किया, जो जरूरत पड़ने पर हमेशा उनके बचाव के लिए आगे आता है। उन्होंने

लक्षद्वीप

2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने समुद्र तट पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था।

कहा, यह मौजूदा प्रशासन की अदूरदर्शिता है। हम छोटे देश से हैं जो सभी का मित्र है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे बॉर्डर भारत के साथ लगते हैं। सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हमारी एक समान हैं और भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। दीदी ने भारत को लेकर कहा कि डिफेंस सेक्टर में भी हमें मदद मिल रही है। वे हमें उपकरण मुहैया कराते रहे हैं और हमें अधिक आत्मनिर्भर

बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सम्मान की तलाश में समान विचारधारा वाले हैं। उन्होंने कहा, ÷मौजूदा सरकार की ओर से यह सोचना बहुत ही अदूरदर्शिता है कि हम वास्तव में भारत के साथ अपने सदियों पुराने रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश नहीं कर सकते... उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा था कि विदेशी नेताओं के खिलाफ ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और मालदीव सरकार की आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव अपने सभी भागीदारों, विशेषकर अपने पड़ोसियों के साथ ÷सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने समुद्र तट पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। इसे लेकर मालदीव के मंत्रियों और कुछ अन्य ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। मालदीव सरकार ने मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। साथ ही उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और यह सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

दो लोगों की हत्या करने वाला शूटर का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस

क्लॉक्वेट (अमेरिका)। सोमवार देर रात एक छोटे शहर के मिनेसोटा मोटल में एक हमलावर ने दो लोगों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद संदिग्ध हमलावर भी मृत अवस्था में पाया गया। इस बात की जानकारी स्थानीय अधिकारी ने दी। पुलिस ने शाम करीब सात बजे क्लॉक्वेट में एक सुपर 8 मोटल और बिग लेक रोड और राजमार्ग 33 के आसपास के क्षेत्र में लोगों को एक शूटर को लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही, सभी लोगों को कहा गया कि वह सुरक्षित स्थान पर चले जाए। लगभग डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने संदिग्ध शूटर को मृत अवस्था में पाया और अलर्ट को कुछ समय बाद हटा दिया गया। साथ ही, बताया गया कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।

भारत के बाद पाकिस्तानी युद्धपोतों की अरब सागर में तैनाती

हूति विद्रोहियों को लेकर पाक नौसेना ने क्या कहा?

कराची। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से पूरी दुनिया

नाकाम

भारतीय नौसेना ने बहादुरी दिखाकर डाकुओं की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया था।

चिंतित है। पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने कई व्यापारी जहाज को निशाना बनाया। इसी बीच पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोतों को तैनात किया है। पाकिस्तानी नौसेना ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लगातार अरब में गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा है कि अरब सागर में युद्धपोत तैनात करने का पाकिस्तान का फैसला

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। वहीं पाकिस्तान नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि हूति विद्रोहियों के खिलाफ किसी देश की मदद के लिए युद्धपोत तैनात नहीं किए गए हैं। बता दें कि हूति विद्रोहियों का ईरान का समर्थन मिलता आया है। वहीं, ईरान गाजा में मौजूद फलस्तीनियों का समर्थन करता आया है। हूति विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने कई देशों के साथ हाथ मिलाया। वहीं, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो वे सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

कुछ दिनों पहले उत्तरी अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने एमवी लीला नॉरफॉक को अपहरण करने की कोशिश की। इस जहाज में 21 लोग सवार थे, जिसमें 15 भारतीय थे। भारतीय नौसेना ने बहादुरी दिखाकर डाकुओं की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया था। बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक भारत ने दस युद्धपोत तैनात किए हैं।

बताते चलें कि भारत का रक्षा मंत्रालय लाल सागर के आसपास के समुद्र में भारतीय कंटेनर जहाजों को सुरक्षात्मक एस्कॉर्ट मुहैया कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में कंटेनर जहाजों की सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है। यह जानकारी एक सरकारी सूत्र ने दी है। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि अफ्रीका के चारों ओर लंबा समुद्री मार्ग अपनाने की वजह से कंटेनरों को अपने टर्नअराउंड समय में 14 दिनों की देरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे परिवहन और बीमा लागत बढ़ रही है।

भूकंप के तेज झटकों से कांपी जापान की धरती, रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई तीव्रता

टोक्यो। जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि मध्य जापान में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि, अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। उसने बताया कि जापान के समुद्र तट पर झटके लगे हैं।

बता दें कि इससे पहले एक जनवरी को भी जापान के इसी हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची थी।



जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि जापान के इसी इलाके में एक जनवरी को भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बता दें कि एक जनवरी को जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप ने

सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचाया था। कई इमारतें तबाह हो गई और कई मकानों में आग लग गई थी, जिस वजह से हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई। जानकारी के अनुसार, जापान के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी करीब 3500 लोग फंसे हैं, जिन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले भूकंप से अब तक 202 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, 102 लोग लापता हैं।

पांच लाख लोग एक साथ गायेंगे राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरमः डॉ. सन्दीप

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर लगभग 5 लाख लोग एक साथ राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् का गायन करेंगे। यह बात मंगलवार को भारत विकास परिषद शौर्य के संस्थापक अध्यक्ष डा. सन्दीप पाण्डेय ने कही। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर शौर्य परिवार द्वारा एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सर्वप्रथम एक वृहद और भव्य शोभायात्रा भण्डारी स्टेशन से निकाली जायेगी जो सुतहट्टी, कोतवाली, चहारसू, शाही पुल होते हुए ओलन्दगंज और जेसीज चौराहे से बीआरपी के मैदान तक जायेगी, जहां स्वामी विवेकानन्द जयन्ती का कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त प्रचारक रमेश जी रहेंगे।

मुख्य वक्ता के रूप में भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रान्त खण्डेलवाल रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त कार्यवाह मुरली पाल एवं जिला संघचालक डा. सुभाष सिंह रहेंगे। कार्यक्रम का प्रारम्भ राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् से किया जायेगा जिसमें विशेष बात यह है कि इस बार दिन में 2 बजकर 15 मिनट पर जब यह राष्ट्रीय गीत बीआरपी मैदान से गाया जायेगा तो उनके साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारी बन्धुओं सहित समस्त जनपद के लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के प्रकल्प प्रमुख प्रमोद मौर्य, सह प्रकल्प प्रमुख आनन्द देव वर्मा, पंकज सिंह, जिला समन्वयक नीरज श्रीवास्तव, चंचल पाठक, अतुल जायसवाल, अवधेश गिरी, जनार्दन पाण्डेय, अमित पाण्डेय, सुजीत यादव, राहुल अग्रहरि आदि उपस्थित रहे।

पीसीएस के इंटरव्यू में भी छाए रहे रामलला

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राम मय हो गया है। वहीं पीसीएस-2023 का इंटरव्यू भी इससे अछूता नहीं है। सोमवार से शुरू हुए इंटरव्यू के पहले दिन सवालों में भी भगवान राम छाए रहे। अध्योध्या, राम और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अभ्यर्थियों से कई प्रश्न पूछे गए।

राम मंदिर से जुड़ें पूछे गए सवाल

पहले दिन अधिकतर अभ्यर्थियों से राम मंदिर से जुड़े प्रश्न पूछे गए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे जुड़े कई प्रश्न पूछे गए। उनसे तथ्यात्मक कम और निर्णयात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे गए। साक्षात्कार देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि उनसे पूछा गया राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा? क्या उनका यह निर्णय सही था?

प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यह धर्म निरपेक्ष होगा या नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राम मंदिर की क्या भूमिका होगी? पूर्व में बनाए गए मंदिरों की अब तक क्या भूमिका रही है? इसके अलावा अयोध्या से जुड़े तथ्यों पर भी कुछ प्रश्न किए गए। अभ्यर्थियों से उनके गृह जनपद और उनकी रुचि से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आए हिट एंड रन कानून पर भी प्रश्न किए गए। इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? इससे क्या बदलाव आएगा। भारत के विरोध के बाद मालदीव के मंत्रियों का निलंबन सही या गलत। हाल ही में जापान में आए भूकंप के बारे में क्या जानते हैं? सुनामी को लेकर क्या चेतावनी दी गई थी।

इंसुलिन की मात्रा घटने पर बढ़ती है शर्करा: डॉ. हेमलता पंत

मधुमेह कारण एवं निवारण विषय पर व्याख्यान संपन्न

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। सी एम पी कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग में चल रहे डायग्नोस्टिक लैब तकनीक नामक शॉर्ट टर्म कोर्स में मधुमेह कारण एवं निवारण नामक विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर डॉ. हेमलता पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर, जंतु विज्ञान विभाग ने मधुमेह-कारण एवं निवारण नामक विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि अग्नाशय में स्थित लैंगरहेंस द्विपीकाओं में स्थित बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का श्रावण करती हैं। जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं और उर्तक शर्करा को अवशोषित नहीं कर पाते जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह का मुख्य कारण तनाव और अनियंत्रित जीवन शैली है। मधुमेह से थकान, वजन कम होना, प्यास बहुत लगना, पेशाब कई बार जाना, मोतियाबिंद, हृदय संबंधी रोग एवं किडनी संबंधी रोग जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। मधुमेह टाइप 1 टाइप 2 प्रीडायबिटिक एवं जेस्ट्रेशनल डायबिटीज प्रकार के होते हैं। मधुमेह से बचाव हेतु तनाव मुक्त रहना, टहलना, व्यायाम करना आवश्यक है। मधुमेह ही कई गंभीर रोगों की जड़ है। अतः हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए जिससे तनाव कम हो सके और मधुमेह जैसे बीमारी ना हो सके।

इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत डॉक्टर अनुराधा एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर निधि त्रिपाठी ने किया। इस व्याख्यान में शार्ट टर्म कोर्स के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मजलिस इन्तेज़ामिया का चयन सम्पन्न

अवधनामा संवाददाता

मुबारकपुर आजमगढ़। रविवार को दोपहर 2 बजे मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर की मजलिस इन्तेज़ामिया का चयन प्रकिर्या शम्ससुज़्ज़मा सभासद नगरपालिका मुबारकपुर, अब्दुल सलाम पूर्व प्रधान ग्राम शेखपुर बहुपूर की देखरेख में समाप्त हुई। दरअसल मजलिस इन्तेज़ामिया के चयन के लिए मजलिस आमा के सभी 35 सदस्यों में से 28 सदस्य मौजूद रहे। मौजूदा मजलिस आमा के सदस्यों में से मजलिस प्रशासन के सभी सदस्यों के लिए एक - एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप हाजी हसन रज़ा (अध्यक्ष) हाजी एहसानुल्लाह (उपाध्यक्ष) हाजी हफीज़ुर्रहमान (मैनेजर), हाजी मंजूर हसन (उप मैनेजर) मो.शादाब एडवोकेट (लेखा परीक्षक) हाजी मो. जाबिर (कोषाध्यक्ष) एहसान अहमद (सदस्य), नफीस अहमद (सदस्य) अहमद नूरानी (सदस्य)हाजी हफीज़ुर्रहमान अंसारी (सदस्य) अनवार अहमद (सदस्य)को दोनों चुनाव अधिकारियों ने सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया और प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

श्री परशुराम सेवा संस्थान ने जिले का पदाधिकारी किया घोषित

जौनपुर। श्री परशुराम सेवा संस्थान संगठन के जिला प्रभारी राजेश कुमार दुबे द्वारा आज मंगलवार के दिन जिला कार्यालय धर्मा विला बाजिदपुर में पवन दुबे को युवा जिला अध्यक्ष एवं राम दुबे को जिला अध्यक्ष तथा रमन मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष एवं प्रेम मिश्रा को जिला सचिव और आलोक पांडे को ब्लॉक अध्यक्ष जलालपुर घोषित किया गया जिला प्रभारी ने वार्ता के दौरान बताया कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने गृह जनपद को मजबूत करना है। वैसे भी हमारा संगठन कई प्रदेशों में पूरी तरह से मजबूत है। तथा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। तथा यह भी बताया कि हम सभी नवनियुक्त पदाधिकारीयों से संगठन को आगे बढ़ाने तथा अपने समाज में हो रही परेशानियों को दूर करने की सभी से आशा करते हैं तथा सभी नवनियुक्त पदाधिकारीयों को मंगल शुभकामना दी।

युवाओं को रोजगार दिलाना होगी पहली प्राथमिकताः अजय सिंह

प्रेस वार्ता के दौरान बोले भाजपा नेता अजय कुमार सिंह

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। होटल पूर्वांचल में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता अजय कुमार सिंह रघुवंशी ने बताया कि जनपद जौनपुर का विकास के नाम पर अति पिछड़ा जिला है। उदासीन जनप्रतिनिधियों होने के नाते जिले का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। यदि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में मुझे लोकसभा का अपना प्रत्याशी बनाया तो निश्चित ही लोकसभा सदर सीट भाजपा की झोली में डालने का काम करूंगा। मेरा उद्देश्य जिले का विकास करना है। पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार दिलाने की रहेगी।। जिले की सड़के एवं ओवर ब्रिज का निर्माण हो जिससे जिला मुख्यालय से लेकर जिले की समस्या तहसीलों को जोड़ने वाली सड़कों का विस्तार करना और गोमती नदी में रिवर फंड बनवाया एवं उसके समुद्रीकरण का कार्य करना मेरा उद्देश्य है। सिंह ने कहा कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं है इसलिए जौनपुर का विकास कार्य रुक सा दिखाई दे रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी का सांसद लोकसभा 73 से होता तो जौनपुर की तस्वीर व तकदीर बदली हुई दिखाई देती। जबकि डबल इंजन की सरकार में जल प्रतिबिंब की अपने-अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री काफी प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि यदि मुझे राजनीति करने का मौका मिला तो जिले के प्रत्येक तहसील में दो से तीन ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे जिसमें प्रतिमा 500 से 1000 रोजगार लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलेगा।

डीएम ने जौनपुर जंक्शन पर बने रैन बसेरों का किया निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा सोमवार देर सायं जिला अस्पताल एवं जौनपुर जंक्शन पर बने रैन बसेरो का निरीक्षण किया गया।

जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में प्रवास कर रहे खेतासराय के निवासी राजकरण ने रैन बसेरे में दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी दिया।

राज करण के द्वारा बताया गया कि यहां पर खाना एवं रजाई समय से मिल रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अन्य आश्रितों से भी रैन बसेरे में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि रैन बसेरे में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट जल राजन चौधरी, उपजिलाधिकारी सदर ऋषभ पुंडीर , अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर पवन कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।

जोंगल प्लेट चोरी कर भाग रहे दो को रेलवे पुलिस ने दबोचा

अवधनामा संवाददाता

दो अंधेरे में रफ़ू चक्कर, 17 पीस जोंगल प्लेट बरामद

जौनपुर (खेतासराय) आरपीएफ पुलिस ने वाराणसी-अयोध्या रेलवे प्रखण्ड के मजडीहा रेलवे ट्रैक के पास ऑटो में भरकर जोंगल प्लेट ले जा रहे दो चोर को दबोच लिया। दो अँधेर का फ़ायदा उठाकर भाग खड़े हुए। गिरफ्तार युवकों के निशानदेही पर गुरैनी बाज़ार के एक कबाड़ी के दुकान से भी प्लेट बरामद हुई। कुल 17 जोंगल प्लेट पुलिस के हत्थे आई। दोनो आरोपित का सोमवार पुलिस ने चालान न्यायालय भेज दिया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार दिवाकर मय हमराह टीम के साथ रविवार की रात्रि पेट्रोलिंग पर थे। मजडीहा रेलवे लाइन स्तिथ बाबा ढाबा के पास रात्रि एक बजे 857/17 किमी पोल के निकट एक ऑटो खड़ा मिला। पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध लगा तो टीम ने लाइट जलाया तो वे भागने लगे। पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। उनकी पहचान क्रमशः सूरज यादव पुत्र राम प्रताप यादव, कमल बहादुर यादव पुत्र मनमोहन यादव निवासी मनेछा थाना खेतासराय के रूप में हुई। तलाशी में उनके वाहन से 14 जोंगल प्लेट बरामद हुई। दो अन्य साथी अँधेरे का लाभ उठाकर खिसक लिए। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर गुरैनी बाजार स्तिथ एक कबाड़ी के दुकान से तीन जोंगल प्लेट बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपितों ने फ़रार अपने साथियों का नाम पुलिस को बताया। जनका नाम सुनील यादव तथा राणा प्रताप है, जो उसी गांव के निवासी है। दोनों आरोपितों का रेलवे पुलिस ने चालान न्यायालय भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ सुनील कुमार दिवाकर, सहायक उपनिरीक्षक रमेश यादव, कांस्टेबल रमेश यादव, अरुण यादव, जनार्दन समेत अन्य पुलिस के जवान शामिल रहे।

रतीश गुप्ता (पिकलू) स्मारक क्रिकेट 28 से

प्रयागराज। ग्रुप ऑफ होटल प्रयाग के तत्वावधान में आयोजित रतीश गुप्ता (पिकलू) स्मारक टी-20 कलर ड्रेस कैशमनी क्रिकेट प्रतियोगिता 28 जनवरी से डीएवी मैदान पर प्रारंभ हो रही है। आयोजन सचिव प्रशांत खरे के अनुसार लीग कम नॉकआउट के आधार पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 31 हजार व द्वितीय पुरुस्कार 21 हजार नगद और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इक्छुक टीमें 20 जनवरी तक आयोजन सचिव से डीएवी मैदान पर शाम 4 से 6 के बीच या मो. 9935905428 पर सम्पर्क कर के अपनी टीम को प्रवेश करा सकती है।

अतीक के बेटे अली और उसके साथियों पर जल्द दाखिल होगी चार्जशीट

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज पुलिस के हाथ लगे सबूत

प्रयागराज। धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मुकदमे में पुलिस जल्द ही माफिया अतीक के बेटे अली व उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। करेली पुलिस मुकदमे की विवेचना करते हुए कई साक्ष्य संकलित किए हैं। इसमें सभी आरोपितों की अलग-अलग भूमिका पाई गई है।

पुलिस के अनुसार छानबीन में यह तथ्य भी सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हुआ था। माफिया का बेटा अली इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।

जेके नगर करेली निवासी दानिश ने कुछ माह पहले अली अहमद, परवेज अख्तर अंसारी उर्फ परवेज अटाला, मो. सैफ उसके भाई मो. फैज, शमीम मौलाना और महफूज मंसूरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप है कि उसकी बहन गजाला परवीन की जमीन पर अतीक के बेटे अली अहमद, उसके गैंग के सदस्य परवेज अख्तर अंसारी, फैज समेत अन्य की नजर थी। आरोपितों ने जमीन को अपने पक्ष में बेचने के लिए कहा था और मना करने पर परवेज व अन्य ने फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी और रंगदारी मांगी थी। अतीक के बेटे व उसके साथियों के खिलाफ करेली थाने में रिपोर्ट दर्ज होने से पहले कर्नलगंज थाने में गजाला समेत कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया था। पुलिस का कहना है कि मुकदमे की विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी के साथ छात्र व छात्राओं ने किया संवाद

आजमगढ़। जिलाधिकारी के साथ छात्र व छात्राओं का संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उपस्थित समस्त छात्र व छात्राओं से कहा कि जब हम अपना ध्यान रखेंगे, तभी स्वास्थ्य सही रहेगा एवं पढ़ाई कर सकेंगे। एक मध्यम मार्ग जीवन में होना चाहिए, जिसमें जितनी जरूरी आपकी पढ़ाई, उतनी ही जरूरी आपकी सेहत भी है, उतना आपका सोशल सर्किल है, उतना ही आपका खेल-कूद जरूरी है। खेल से शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी होता है। जब हम स्वस्थ होंगे, तभी पढ़ाई में मन भी लगेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी भी प्रकार फिजिकल एक्टिविटी नही कर रहें हैं, तो हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों यथा-ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि से ग्रस्त होने लगेगा।

हड़ताल पर कोटेदार, राशन वितरण में परेशानी

उपभोक्ताओं को राशन मिलना मुश्किल

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। शासन की ओर से राशन वितरण की तिथियों को घोषित कर दिया है। वितरण 10 से 27 जनवरी के बीच रोस्टर के अनुसार होगा। लाभांश बढ़ाने की मांग को लेकर कोटेदार विरोध प्रदर्शन करते हुए जनवरी से राशन वितरण नहीं करने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में कोटे की दुकान से राशन पाने वाले लाखों उपभोक्ताओं को राशन मिलना मुश्किल होगा। वहीं खाद्यान्न का वितरित करना पूर्ति विभाग के लिए भी चुनौती बना गया है। कम लाभांश पर राशन का वितरण करने के लिए राशन डीलर काम करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक वितरण कार्य नहीं करेंगे। कोटेदार कम लाभांश का का विरोध को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा डीएम और जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जनवरी माह में राशन वितरण नहीं करने की चेतावनी दी थी। ज्ञापन देने के बाद कोटेदार मांग को लेकर सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन जता रहे है। ऐसे में जनवरी माह में राशन का वितरण होने पर संशय के बादल छाए हुए हैं। लाभांश बढ़ाए जाने की मांग कर रहे कोटेदार ने कहा कि जिले में कोटेदारों को लाभांश सिर्फ 90 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है। जबकि हरियाणा, केरल व गोवा में 200-200 रुपये प्रति क्विंटल तथा महाराष्ट्र 150 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। राजस्थान व गुजरात में कोटेदारों को 20,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। अन्य प्रदेशों की तरह कोटेदारों के लाभांश में वृद्धि होने के बाद ही कोटेदार राशन वितरित करेगें। कोटेदारों के राशन वितरण बहिष्कार ने पूर्ति विभाग को परेशानी में डाल दिया है।

प्रयागराज मंडल के सभी जिलों में बढ़ेगी ठंड

प्रयागराज। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया की तीन दिनों से निकल रही धूप की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। लोगों को तीन दिनों में ठंड से थोड़ा राहत मिली हैं। लगातार नव वर्ष से पहले कई दिनों से बूंदा बांदी से ठंड बढ़ गई थी की जिससे तापमान बहुत गिर गया था। यहां तक लोगो को रात में ही नही दिन में भी अलाव की ज़रूरत पड़ने लगी थी। अभी अभी जस्ट मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया की आज देर शाम से मौसम के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल जलवायु एवम समुद्र अध्ययन केन्द्र के प्रमुख प्रोफेसर सुनीत द्विवेदी ने बताया की आज देर शाम से मौसम के तापमान में अचानक परिवर्तन होगा।

सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के उचित इलाज के लिए प्रयागराज में सीपी गांव का पहला चरण पूरा

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। बहु प्रतीक्षित त्रिशला फाउंडेशन के त्रिशला सी पी गांव के प्रोजेक्ट स्थल गांव सराय बहार प्रयागराज में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चो और उनके परिवारों के लिए नए साल के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे घाना, बांग्लादेश, नेपाल एवं देश के विभिन्न भागो से आये हुवे ढाई सौ परिवारों और उनके सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चो ने भाग लिया।

इस अवसर पर प्राकृतिक वातावरण में झूले, जादूगर गोगा का कार्यक्रम एवं बच्चो के बहुत सारे उत्साहप्रधक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के तदुपरांत भोग का आयोजन किया गया। सभी अभिभावकों और आये हुवे अतिथियों ने सी पी गांव के पहले चरण के अंतर्गत निर्माण में बन रहे भवन का भी लोकार्पण किया सभी अभिभावकों विशेषतया बाहर से आये सभी अभिभावकों एवं बच्चो ने पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाया। ऐसे बच्चो एवं उनके परिवारों के लिए इस तरह के कार्यक्रम से उत्साह मिलता है और बच्चो को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में भी सहायता मिलती है।

नए साल के स्वागत आयोजन के अवसर पर सीपी गावं के संस्थापक डॉ जेके जैन ने बताया कि सीपी गावं एक पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित है , यहाँ पर उनके लिए फिजियों , स्पीच थेरेपी के साथ साथ बच्चों के अभिवावकों के रुकने की व्यवस्था भी होगी , पूरी तरह से जो आएगा वह ठीक होकर जायेगा , पहला चरण पूरा हुआ है जल्द आगे के चरण पूरे होंगे। डॉ. जैन के अनुसार सीपी गावं में सेरेब्रल पाल्सी पर रीसर्च भी होंगे कि आगे कितनी सरलता और आसानी से दुनिया के जो हजारों लोग जुड़ें हैं उनको बेहतर इलाज दिया जा सके।

स्टार बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ

शाहनवाज़ -दानिश खैराबाद बने चौंपियन

अवधनामा संवाददाता

मुबारकपुर,आजमगढ़। रेशमी नगरी मुबारकपुर के मोहल्ला कटरा स्थित बाज़ार में स्टार बैडमिंटन क्लब के तत्वावधान में दो दिवसीय टूर्नामेंट रविवार देर रात सम्पन्न हुआ। खेल को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शकों के साथ विशेष मेहमान उपस्थित होकर खेल का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान शाहनवाज़ -दानिश खैराबाद विजेता और मेजबान साहिल - अजीत उपविजेता बने। फाइनल मैच 3 सेट का हुआ जिसमें शाहनवाज़ - दानिश ने फाइनल मुकाबले में मेजबान साहिल - अजीत को 2-0 से पराजित किया। फाइनल मैच के पहले सेट में 16-21 और दूसरे सेट ने 12-21 से हराकर शाहनवाज़-दानिश ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके पूर्व पहला सेमीफाइनल शाहनवाज़ - दानिश खैराबाद ने मुन्ना - पार्टनर मुबारकपुर के बीच हुआ । जिसमें मुन्ना को हराकर शाहनवाज़ की जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश किया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल मेजबान साहिल-अजीत और अजय - पार्टनर गाज़ीपुर के बीच खेला गया जिसमें अजय की टीम को पराजित कर साहिल की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई। समापन समारोह में नगरपालिका परिषद मुबारकपुर अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे फ़ाज़ अंजुम अंसारी बतौर चीफगेस्ट शिरकत की। उन्होंने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्राफी और 5 हज़ार का नकद पुरस्कार देकर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं टूर्नामेंट के आयोजक कप्तान फ़िरोज़ अंजुम ने तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा की टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में आप सभी की अहम भूमिका रही। टूर्नामेंट की कमेंट्री शाहिद कमेंटेटर ने की। इस अवसर पर वसीम अख्तर सभासद,डॉ. शारिक, डॉ. फरहान अहमद,डॉ शरद मिश्रा, डॉ विश्वकर्मा, फ़िरोज़ एडवोकेट, फैज़ान एडवोकेट, शौकत अली,वासिफ मोहम्मद,गुलाम दस्तगीर,आमिर आदि लोग उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

आजमगढ़। जनपद के लिए थाना कोतवाली लिए पूर्व की घटना व इतिहास दूसोशल मीडिया के इन्स्टाग्राम प्लेट फार्म पर एक व्यक्ति चन्दन कुमार पुत्र अज्ञात निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा विशेष धर्म समुदाय के अराध्य को आपत्तिजनक कमेन्ट पोस्ट किया गया, उक्त कमेन्ट विमर्शित और विद्वेषपूर्ण धार्मिक विश्वासों का एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया है जिससे वर्गो मे शत्रुता और वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/24 धारा 295ए/505(2)/504 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ दर्ज हुआ है।

ठंड में रखें बच्चों का खास ख्यालः डॉ. डी.डी. सिंह

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। सर्दी के मौसम में न्यूमोनिया व अन्य सर्दी जनित बीमारियां पांव पसारने लगती हैं। यह एक गंभीर बीमारी है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए खतरा अधिक होता है। इस मौसम में बच्चों की सेहत को लेकर सजग रहने की जरूरत है।

शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. डी.डी. सिंह बताते हैं कि न्यूमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस व फंगस के कारण होता है। इससे फेफड़ों की वायु कोष्ठिका में सूजन हो जाती है या उसमें तरल पदार्थ भर जाता है। न्यूमोनिया के लक्षण सर्दी-जुकाम के लक्षणों से बहुत हद तक मिलते हैं। इसलिए जब भी ऐसा लगे तो पहले इसके लक्षणों को पहचाना बहुत जरूरी है।

नवजात शिशु देखने में बीमार लगे, दूध न पिये, सांस लेने में दिक्कत हो, सुस्त हो, रोये या बुखार हो तो उसे न्यूमोनिया हो सकता है। इसके लिए तुरंत चिकित्सक को दिखाएं।

न्यूमोनिया से बचाव के लिए छोटे बच्चों को संक्रमित व्यक्ति से दूर रखें। बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, अवश्य पिलाएं तथा बच्चे को छः माह तक केवल स्तनपान कराएं। बच्चे को गरम कपड़े पहनाएँ, सिर और कान ढँककर रखें, कमरे का तापमान सही रखें, बच्चों को बाहर न निकलने दें, साथ ही बाल रोग चिकित्सक से परामर्श लेकर न्यूमोनिया का टीकाकरण अवश्य कराएँ।संक्रमित व्यक्ति खांसता व छींकता है, तो वायरस व बैक्टीरिया सांस से फेफड़ों तक पहुंच कर सामने बैठे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। न्यूमोनिया का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा होता है। खासतौर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में न्यूमोनिया होने पर उन्हें सांस लेने में और दूध पीने में दिक्कत होती है।

तेज सांस लेना, कफ की आवाज आना भी न्यूमोनिया का संकेत हो सकते हैं। सामान्य से अधिक तेज सांस या सांस लेने में परेशानी, सांस लेते या खांसते समय छाती में दर्द, खांसी के साथ पीले, हरे या जंग के रंग का बलगम, बुखार, कंपकंपी या ठंड लगना, पसीना आना, होंठ या नाखून नीले होना, उल्टी होना, पेट या सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, कंपकंपी, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी न्यूमोनिया के लक्षण हैं।

बंधन म्यूचुअल फंड ने नया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया

नई दिल्ली। बंधन म्यूचुअल फंड ने बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लॉन्च की घोषणा की, जो एक ओपन-एंडेड स्कीम है। नया फंड भारतीय इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, आर्बिट्रेज, गारंटिड इनकम, सोना और चांदी सहित विभिन्न एसेट वर्गों में निवेश को सक्षम बनाती है। कई स्टडीज ने स्थापित किया है कि सुरक्षा चयन या बाजार समय के बजाय एसेट आवंटन, रिटर्न विविधता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। यह नया फंड विभिन्न एसेट वर्गों में निवेश में विविधता लाकर रिवॉर्ड और जोखिम को अनुकूलित करने के लिए एक मल्टी-एसेट एलोकेशन रणनीति अपनाएगा, प्रत्येक विकास, स्थिरता और मुद्रास्फीति संरक्षण के मामले में अद्वितीय लाभ प्रदान करेगा। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) बुधवार, 10 जनवरी 2024 को निवेश के लिए खुलेगा और बुधवार, 24 जनवरी 2024 को बंद हो जाएगा। बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश लाइसेंस प्राप्त म्यूचुअल फंड वितरकों, निवेश सलाहकारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। मल्टी-एसेट एलोकेशन दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विशेष रूप से ऐसे समय में जब इक्विटी बाजारों में चुनिंदा खंडों ने पिछले दिनों बहुत मजबूत रिटर्न प्रदान किया है, जिससे संभावित रूप से कुछ निवेशकों के लिए एकाग्रता जोखिम पैदा हो गया है,

बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर का कहना है कि ÷एसेट एलोकेशन निवेशकों को बाजार के समय और परफॉर्मेंस का पीछा करने जैसे व्यवहारिक नुकसान से बचने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटी होल्डिंग अवधि, पोर्टफोलियो असंतुलन और सब-ऑप्टिम रिटर्न हो सकता है। अनुभवी निवेशक मानते हैं कि कोई भी एसेट वर्ग लगातार अवधियों तक विजेता नहीं रहा है, और इसलिए, एसेट वर्गों में विविधता लाने से रिटर्न में अधिक स्थिरता और निरंतरता आती है।

सब्जियों के घटे दाम, प्याज-टमाटर की कीमतें घटने से थालियां 5 फीसदी तक सस्ती

मुंबई। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रॉयलर की कीमत मासिक आधार पर 5-7 फीसदी घटी है। इससे मांसाहारी थाली की लागत अधिक तेजी से घटी है। मांसाहारी थाली की लागत में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी 50 फीसदी होती है।

प्याज व टमाटर की कीमतें घटने से दिसंबर, 2023 में आम आदमी की थालियां 5 फीसदी तक सस्ती हुई हैं। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स रिसर्च की सोमवार को जारी 'राइस रोटी रेट' रिपोर्ट के मुताबिक, घर में बनी शाकाहारी थाली की लागत पिछले महीने 3 फीसदी तक घटी है। मांसाहारी थाली की कीमत में 5 फीसदी की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारी सीजन के बाद घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें घटी हैं। मासिक आधार पर दिसंबर में प्याज के दाम 14 फीसदी घटे हैं, जबकि टमाटर में 3 फीसदी गिरावट आई है।

इसलिए, मांसाहारी थाली में तेज गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रॉयलर की कीमत मासिक आधार पर 5-7 फीसदी घटी है। इससे मांसाहारी थाली की लागत अधिक तेजी से घटी है। मांसाहारी थाली की लागत में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी 50 फीसदी होती है।

ऐसे तय होती है लागत

थाली तैयार करने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भारत में थाली की कीमतों के आधार पर होती है। इससे पता चलता है कि थाली की कीमत में बदलाव अनाज, दाल, ब्रॉयलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल व रसोई गैस के दाम के आधार पर आता है।

शाकाहारी थाली एक साल पहले की तुलना में 12 फीसदी महंगी

रिपोर्ट के मुताबिक, शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़ी है। हालांकि, मांसाहारी थाली की लागत में चार फीसदी की गिरावट आई है। शाकाहारी थाली महंगी होने की वजह प्याज व टमाटर की कीमतों में क्रमश- 82 फीसदी व 42 फीसदी की वृद्धि है।

शाकाहारी थाली में 9 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली दालें भी एक साल पहले से 24 फीसदी महंगी। इसके उलट, ब्रॉयलर के दाम सालाना आधार पर 15 फीसदी घटे हैं, जिससे मांसाहारी थाली सस्ती हुई है।

अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े आदेश पर रोक

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 को दोनों संघीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अदाणी समूह और एस्सार समूह सहित भारत में विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के आयात के ओवर-इनवॉयसिंग के आरोपों की सावधानीपूर्वक और तेजी से जांच करें ताकि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदाणी समूह के आयात की ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को दिए अपने आदेश पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने पांच जनवरी के आदेश में कहा कि अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) की ओर से दायर याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 को दोनों संघीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अदाणी समूह और एस्सार समूह सहित भारत में विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के आयात के ओवर-इनवॉयसिंग के आरोपों की सावधानीपूर्वक और तेजी से जांच करें ताकि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। ओवर-इनवॉयसिंग में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को बढ़ाना शामिल है जिससे यह प्रतीत हो कि कंपनियां वास्तव में आयात पर अधिक खर्च कर रही हैं। ओवर-इनवॉयसिंग का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें करों या सीमा शुल्क से बचना शामिल है।

टाटा स्टारबक्स ने रोज़गार की संख्या दोगुनी करने की योजना का किया खुलासा

मुंबई। टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज भारत में 2028 तक अपने स्टोरों की संख्या 1,000 तक पहुंचाने या हर तीन दिन में एक नए स्टोर की शुरुआत करने की योजना की घोषणा की। इससे पहले कंपनी ने नवंबर में लंबी अवधि की ट्रिपल शॉटरी इंवेन्शन स्ट्रैटेजी पेश की थी। इस रणनीति का पूरा ध्यान स्थानीय पार्टनर्स को रोज़गार के लिए तैयार करने, बेहतर अनुभव के साथ ग्राहकों को सेवाएं देने वाले नए स्टोर्स की शुरुआत करने की ओर है। साथ ही कंपनी दुनियाभर में स्टारबक्स के ग्राहकों के बीच भारतीय मूल की कॉफी को बढ़ावा देना चाहती है। इस हफ्ते भारत आए स्टारबक्स के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर लक्ष्मण नरसिम्हन ने कहा, पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत पूरी दुनिया में स्टारबक्स के लिए सबसे तेज़ी से वृद्धि करते बाज़ारों में से एक बन गया है। भारत में मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, ऐसे में हमें गर्व है कि हम देश की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हुए कॉफी

संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। अपने विश्वसनीय कारोबारी साझेदार, टाटा और हमारे ग्रीनएप्रन पार्टनर्स के साथ हम इन असीम संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम भारत में हर तीन दिन में एक स्टोर खोलने जा रहे हैं और सही मायनों में वैश्विक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को गति देंगे। सुनील डिसूज़ा, सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स ने एक शानदार सफर तय किया है जिससे भारत की कॉफी संस्कृति और उच्च क्वालिटी की इंडियन ऐरेबिका कॉफी बीन्स के मूल में समाहित कला को बढ़ावा मिला है। चूंकि हम वृद्धि के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को गहराई देने के लिए भारत की कॉफी संस्कृति को विकसित करना जारी रखेंगे और इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर अनोखी भारतीय पेशकशों को पहुंचाने के लिए इनोवेशन जारीर खेंगे।÷ स्टारबक्स कॉफी कंपनी और टाटा कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच 50:50 साझेदारी में बने संयुक्त उद्यम द्वारा 2012 में शुरू किया गया टाटा स्टारबक्स अब 54 भारतीय शहरों में 390 से ज़्यादा स्टोर का संचालन करता है जहां लगभग 4,300 पार्टनर्स (कर्मचारी) कार्यरत हैं जो बहुत ही गर्व के साथ हरे रंग का एप्रन पहनते हैं।

डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड ने लॉन्च किया डीएसपी मल्टीकैप फ़ंड

लखनऊ। डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड ने डीएसपी मल्टीकैप फ़ंड लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक ओपन-एंडेड स्कीम है और इंवेस्टर्स को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक, इंवेस्टमेंट स्टाइल और उद्योगों में इंवेस्टमेंट करने की सुविधा देती है। समय पर फिर से संतुलन करने के साथ-साथ मिड और स्मॉल कैप के लिए समर्पित मार्केट कैप एक्सपोज़र के साथ, मल्टीकैप रणनीति इंवेस्टर्स को निफ़्टी 500 की तुलना में बेहतर डाइवर्सिफ़िकेशन और परफ़ॉर्मेंस में सुधार मुहैया करवाती है। स्टॉक के एक ही तरह के सेट में इंवेस्ट करने के बावजूद, मल्टीकैप रणनीति ने 1 अप्रैल, 2005 और 30 नवंबर, 2023 के बीच 5 साल की रोलिंग अवधि में 10 में से लगभग 8 बार निफ़्टी 500 को पीछे छोड़ दिया है। स्कीम का ऐसेट ऐलोकेशन न्यूनतम 75 पर्सेंट और इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सेक्योरिटीज़ (प्रतिभूतियों) में अधिकतम 100 पर्सेंट हो सकता है, जिसमें से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का न्यूनतम 25 पर्सेंट और अधिकतम 50 पर्सेंट एक्सपोज़र हो सकता है। इस स्कीम में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित विदेशी सेक्योरिटीज़ और ऋण और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 25 पर्सेंट तक और REITs और InvITs से जारी इकाइयों में 10 पर्सेंट तक का जोखिम हो सकता है।

फ़िलहाल स्मॉल और मिडकैप स्टॉक्स ने लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले व्यापक मार्जिन से बेहतर परफ़ॉर्म किया है और अब ट्रेलिंग आधार पर ज़्यादा महँगे भी हैं। इसमें नज़दीकी अवधि में स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट बनाम लार्ज कैप के सामने कम परफ़ॉर्मेंस की संभावना कम हो जाती है।

7 दिवसीय उमंग सिल्क एक्स्पो का शुभारंभ

लखनऊ। उमंग सिल्क एक्स्पो द्वारा प्रदर्शनी लखनऊ के '' मोती महल लॉन , राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में दिनांक 9 जनवरी से 15 जनवरी 2024 ,समय 11:00 से रात्रि 9:00 तक चलेगी 7 वैवाहिक व विंटर कलेक्शन की सम्पूर्ण रेंज आकर्षण छूट पर उपलब्ध है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बेहतरीन कलेक्शन प्रस्तुत किए गए हैं। देशभर की साड़ियो का फैशन शो भी अयोजित किया गया।

उमंग सिल्क एक्स्पो के आयोजक आशीष कुमार गुप्ता ने बताया कि संस्थान द्वरा आयोजित सिल्क एक्स्पो व सेल में देश भर से आए सिल्क बुनकरों व डिजाईनरो ने अपने अपने प्रदेश संस्कृति काव्य और त्यौहारो को सिल्क पर छापा है, लखनऊ में आयोजित उमंग सिल्क एक्स्पो का मकसद देशभर के सिल्क उत्पादों का एक ही छत के तले प्रदर्शनी करना है।

उमंग सिल्क एक्स्पो में कांजीवरम उपाडा, गढ़वाल पटोला, बैंगलोर सिल्क, कांथा वर्क, डकारी जामदानी, पैठानी, बनारसी, भागलपुरी की साड़ियो, कश्मीरी पश्मीना साड़ी, सूट सॉल जैकेट स्टोल आदि बिक्री हेतु उपलब्ध है।

एक्जीबीशन में गुजरात की पटोला सिल्क , तेलांगना की उपाडा सिल्क तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क , महाराष्ट्र की पैठानी सिल्क, पर गई कलाकारी लोगो को अपनी ओर खीच रही है। इस प्रदर्शनी में पश्चिम बंगाल के काला हस्ती से आए बुनकर ने भगवान श्री कृष्ण के नोका विहार का द्रश्य सिल्क पर पेंट किया किया है साड़ियो पर बनी डीजायनो में कश्मीरी केशर की डीजायन के साथ ही कश्मीरी कहावा भी है। इसके साथ ही प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ से कोसा, घिचा,मलबरी रॉ सिल्क, एब्लॉक प्रिंटेड सिल्क साड़ी गुजरात से बान्धनी, पाटोला कच्छ एम्ब्रोयडरी , मिरर वर्क एवं डिजाइनर कुर्ती , मध्य प्रदेश से चंदेरी , महेश्वरी काटन एण्ड सिल्क साडी सूट, डकारी जामदानी एवं बनारसी सिल्क , तान्चोयी सिल्क, मैसूर सिल्क की साड़ीयो के साथ धर्मावरम तस्सर, ढाका, वही डिजाइनर ब्लाउज , सलवार सूट, पंजाब की फुलकारी वर्क सूट व् साडी हैदराबाद की हैवी नेकलेस, नोज पिन, रिंग, बैंगल्स, मांग टीका , कमरबंद, और मुंबई वेस्टर्न पैटर्न ज्वैलरी व पालकी ज्वैलरी भी है।

ठंड में खाएं एनर्जी से भरपूर बादाम-गाजर का हलवा

कानपुर। स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी चंगी विंटर सीजन सेहत बनाने और खाने के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। बादाम और गाजर का हलवा ठंड के मौसम की खास सौगात है और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। यह एक ऐसा फूड आइटम है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होने के साथ ही शरीर को भरपूर एनर्जी भी प्रदान करता है। इस हलवा के सेवन से शरीर के इम्यून सिस्टम को ताकत मिलती है। यह शुगर मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर में ब्लड शुगर को सामान्य रखता है। यह हृदय को स्वस्थ रखता है। बादाम के सेवन से वजन कम होता है। गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसमें विटामिन-ई मौजूद होता है जो बालों और त्वचाके लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए, सर्दीके मौसम में बादाम-गाजर हलवा को अपने आहार और व्यंजनों में शामिल करें। आप इस हलवा को आसानी से घर पर खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी नीचे दी जा रही है-सर्विंग 6 लोग सामग्री मात्रा (गाजर के लिए) गाजर ½ कि. क्रीम दूध आधा लि. शक्कर आधा कप. इलायची (पाउडर) 4 नग. घी 2 चम्मच. बादाम (ब्लांच) द कप. (क्रंबल या चूरा के लिए) आटा ड कप.मक्खन (बिना नमक वाला) आधा कप. शक्कर आधा कप पिसा हुआ बादाम आधा कप तरीकाएक पैनमें दूध और गाजर को एकसाथ डालें और तब तक पकाते रहें जब तक कि दूध तीन चौथाई (3/4) न रह जाए। इसमें इलायची पाउडर, घी और चीनी डालें फिर इसे अच्छे से मिला लें। इसमें कटे हुए, ब्लांच किए हुए बादाम डालें और अच्छी तरह मिलाएँ।फिर आटा, मक्खन, चीनी और पिसे हुए बादाम को एकसाथ मिलाकर इसका चूरा बनालें। इस मिश्रण (चूरा) को 180°C पर तब तक पकाएं जब तक कि उसका रंग भूरा न हो जाए।जब हलवे से भीनी-भीनी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। आपका बादाम का हलवा बन कर तैयार हो गया है।इसे सर्व करने से पहले एक बड़े बाउल में निकाल लें और ऊपर से सेकें हुए बादाम डाल दें।

मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटो जी34 5जी

सेगमेंट का सबसे तेज 5जी फोन स्नैपड्रैगन 695 5जी प्रोसेसर के साथ

लखनऊ। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5जी स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने आज मोटो जी34 5जी को लॉन्च किया, जो इसकी जी सीरीज फ्रेंचाइजी का नवीनतम भाग है। यह स्मार्टफोन सेगमेंट के सबसे तेज 5जी परफॉरमेंस के साथ किफायती 5जी स्मार्टफोन बाजार में हलचल मचा देगा, जो कि स्नैपड्रैगनो 695 5जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जो सेगमेंट के उच्चतम-13 5जी बैंड, वीओएनआर सपोर्ट और 4 कैरियर एग्रीगेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, मोटो जी34 5जी देखने में शानदार है, इसमें प्रीमियम, वेगन लेदर फिनिश के साथ-साथ 3डी ऐक्रेलिक ग्लास (पीएमएमए) फिनिश दी गई है, साथ ही यह सेगमेंट में सबसे पतले और सबसे हल्के डिवाइसों में से एक है। मोटो जी34 5जी विभिन्न सेगमेंट के अग्रणी फीचर्स के साथ आता है, जिसमें नवीनतम एंड्रॉइड14, 50एमपी कैमरा सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर, 120हर्टज 6.5 इंच डिस्प्ले, साथ ही

मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग्ड, मोटो कनेक्ट और रेडी फॉर पीसी जैसी कई अलग-अलग सॉफ्टवेयर सुविधाएं इसे अपने सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ' 5जी स्मार्टफोन बनाती हैं। सेगमेंट के सबसे तेज़ 5जी परफॉर्मेंस के साथ, स्नैपड्रैगन 695 5जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से युक्त, मोटो जी34 5जी सहज मल्टीटास्किंग और गेमिंग क्षमता प्रदान करता है। मोटो जी34 5जी उपयोगकर्ताओं को दो रैम वेरिएंट और इन-बिल्ट 4 जीबी या 8जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम के साथ पर्याप्त स्टोरेज के माध्यम से बेहतर परफॉरमेंस प्रदान करता है, जिसे रैम बूस्ट फीचर के साथ 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें एक विशाल 128 जीबी यूएफएस 2.2 स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के साथ 1 टीबी तक बढाया किया जा सकता है। मोटो जी34 5जी उन्नत 5जी तकनीक से भी सुसज्जित है, जैसे 13 5जी बैंड्स, वीओएनआर और 4 कैरियर एग्रीगेशन का समर्थन, जो इसे सेगमेंट का सर्वश्रेष्ठ' 5जी परफॉर्मर बनाता है।

डिजाइन के मामले में, स्मार्टफोन ओशन ग्रीन रंग में अपने सुपर-प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश के साथ-साथ आइस ब्लू और चारकोल ब्लैक रंगों में 3 डी ऐक्रेलिक ग्लास फिनिश के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, यह स्मार्टफोन अत्यधिक स्लीक और हल्के वजन वाला डिज़ाइन के साथ आता है, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.98 मिमी और वजन 179 ग्राम है। इसके अलावा, मोटो जी34 5जी वाटर-रेपेलेंट आईपी52 रेटिंग के साथ भी लैस किया गया है, जिससे यह बरसात और छींटों से सुरक्षित रहे।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2024 में नियो क्यूएलईडी, माइक्रो एलईडी, ओएलईडी और लाइफस्टाइल डिस्प्ले लॉन्च किया

लखनऊ/दिल्ली एनसीआर/जयपुर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने CES® 2024 से पहले अपने नए क्यूएलईडी, माइक्रो एलईडी, ओएलईडी और लाइफस्टाइल डिस्प्ले लाइनअप को लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट जेनरेशन के एआई प्रोसेसर की पेशकश के साथ यह घोषणा एआई स्क्रीन के युग का शुभारंभ करेगी। यह स्मार्ट डिस्प्ले की क्षमता को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार है। उपभोक्ताओं को ज्यादा बेहतरीन तस्वीर और उम्दा साउंड क्वॉलिटी देने वाले ये मॉडल सैमसंग नॉक्स द्वारा संरक्षित एआई से लैस फीचर्स उपलब्ध कराते हैं। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देना और इसके लिए उन्हें समर्थ बनाना है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के प्रेसिडेंट और प्रमुख एस. डब्ल्यू योंग ने कहा, ÷अब जब हम एक हाइपर कनेक्टेड युग में रह रहे हैं, टीवी का मतलब केवल बेहतरीन तस्वीरें देना ही नहीं रह गया है। अब दर्शक ऐसा टीवी तलाश रहे हैं, जिसका डिस्प्ले उन्हें न केवल खूबसूरत तस्वीरें दें, बल्कि उनके घर को भी सुंदर बनाए। सैमसंग की एआई स्क्रीन ऑन डिवाइस एआई टेक्नोलॉजी से लैस है, जिन्हें उपभोक्ताओं की घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। सभी कॉम्पैटिबल डिवाइसेज से टीवी स्क्रीन को जोड़कर यह उपभोक्ताओं को अपनी जिंदगी ज्यादा विविधतापूर्ण और लचीला बनाने की पेशकश करती हैं।''

फायरबोल्ट के ड्रीम रिस्टफोन ने कर दिया है स्मार्टफोन को चैलेंज

नई दिल्ली। भारत की अग्रणी स्मार्ट वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने अपने ड्रीम रिस्टफोन को लॉन्च किया गया। यह एक अत्याधुनिक एंड्रॉइड स्मार्टवॉच है जो वेयरेबल टेक्नॉलोजी के क्षेत्र की नई परिभाषा लिखेगी। एंड्रॉइड 8.1 ओएस और गूगल प्ले स्टोर के साथ, यह रिस्टफोन एक स्मार्टफोन को एक शानदार स्लीक और कॉम्पैक्ट स्मार्टवॉच डिज़ाइन में बदलता है। लॉन्च डे पर सिर्फ 5999 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह रिस्टफोन 10 जनवरी से फ्लिपकार्ट, फायरबोल्ट.कॉम और पूरे भारत के ऑफलाइन स्टोरों पर उपलब्ध होगी। रिस्टफोन 12 अलग-अलग रंगों और स्ट्रैप डिज़ाइनों के साथ बेहतरीन रेंज प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं को पर्सनलाइज्ड स्टाइल आप्शन देता है। 4जी एलटीई नैनो सिम के साथ इस रिस्टफोन 2.02- इंच टू व्यू डिस्प्ले मिलेगी, जो 600 निट्स ब्राइटनेस और एक स्मूथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक बेहतरीन विसुअल देता है। कनेक्टिविटी जैसे की वाईफाई और जीपीएस जैसी सुविधाएँ इसे और भी ख़ास बनाती है, जिससे कि यूज़र्स बिना किसी परेशानी के इससे जुड़े और नेविगेट करें। इस पावरहाउस में कॉर्टेक्स क्वाड-कोर सीपीयू, 2जी बी रैम और 16जी बी स्टोरेज है,

जो एक मजबूत और कुशल यूजर एक्सपेरियंस देता है। यह डिवाइस न केवल एक तकनीकी चमत्कार है बल्कि आई पी 67 वाटर रेजिस्टेंस के साथ एक टिकाऊ साथी भी है। फायरबोल्ट के सीईओ और संस्थापक अर्णव किशोर ने कहा, हम फायरबोल्ट एंड्रॉइड रिस्टफोन का अनावरण करते हुए बेहद रोमांचित हैं, यह वेयरेबल टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में वाकई एक चमत्कार है। यह ग्राउंडब्रेकिंग डिवाइस बारीकी लेकिन आसान है, यूज़र्स को कम्युनिकेशन, हेल्थ मोनिटरिंग और मनोरंजन में एक शानदार अनुभव प्रदान करती है। नैनो सिम सपोर्ट और गूगल प्ले स्टोर के साथ यूज़र पारंपरिक स्मार्टवॉच में होने वाली सीमाओं को खत्म करती है। एक शक्तिशाली क्वाड-कोर सीपीयू, वाइब्रेंट डिस्प्ले और शानदार सेंसर के एक सूट के साथ, फायरबोल्ट रिस्टफोन को लोगों की उम्मीदों से बेहतर डिज़ाइन किया गया है। यह लॉन्च फायरबोल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण माइल्स्टोन है, जो इनोवेशन की सीमाओं को लांघने और अत्याधुनिक सॉल्यूशन देने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखता है जिससे हमारे यूज़र्स को डिजिटल लाइफ बेहतर बना सकेंगें। हम इस प्रोडक्ट की क्षमता और वेयरेबल टेक लैंडस्कैप पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बेहद उत्साहित हैं। वॉयस असिस्टेंट, गूगल सुइट इंटीग्रेशन, क्लाउड-बेस्ड वॉच फेस, 800 एम ए एच बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और एक आसान कण्ट्रोल सिस्टम जैसे फीचर के साथ ड्रीम रिस्टफोन उम्मीद से भी बेहतर है।

यामाहा ने अपनी मोटरसाइकिल रेंज के लिए आकर्षक कलर स्कीम्स और ग्राफिक्स पेश किया

चेन्नई। अपने ब्रांड कैंपेन 'द कॉल ऑफ द ब्लू' से उत्साहित होकर इंडिया यामाहा मोटर (आईवाईएम) प्राइवेट लिमिटेड ने अपने मोटरसाइकिल लाइन-अप में एक बड़े बदलाव की घोषणा की। इस नयेपन में सीरीज मॉडल रेंज के लिए रंगों के नए विकल्प और कॉस्मेटिक वृद्धि शामिल हैं।

नए साल की शुरुआत के साथ वाइब्रेंट कलर स्कीम्स और ग्राफिकल अपग्रेड्स को शामिल करने का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना और देश भर में युवा ग्राहकों के साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना है। इसमें युवा ग्राहकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने और इन अपग्रेड्स के माध्यम से उन्हें बेहतर अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया गया है। रंग के नए विकल्पों को प्रत्येक ग्राहक की लाइफस्टाइल से मेल खाने, उन्हें व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने और आखिरकार उत्साही प्रशंसकों को 'द कॉल ऑफ द ब्लू' अपनाने के लिए लुभाने के अनुरूप तैयार किया गया है।

अपग्रेड्स के बारे में यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, श्री आयशीन चिहाना ने कहा कि, ÷यमाहा को अपने 'द कॉल ऑफ द ब्लू' ब्रांड कैंपेन के अनुरूप वर्ष 2024 ने नए रंग-रूप वाली मोटरसाइकिल श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए रोमांच का अनुभव हो रहा है। हमें वाइब्रेंट कलर स्कीम्स और आकर्षक ग्राफिक्स को शामिल करने पर बेहद खुशी है जिसका लक्ष्य राइडर्स और देखनेवाले, दोनों को एक समान आकर्षित करना है। भड़कीले और ताजगी-भरे रंगों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किये गये रंग-संयोजन बाइक्स का ग्लैमर बढ़ाते हैं। साथ ही, इनसे उपभोक्ताओं का आनंद बढेगा और भारत में यामाहा के दीवानों को अद्भुत रंगों से संतोषजनक अनुभव प्राप्त होगा।

प्रेस्टीज ने टू एज़ नाइफ सिंगल्स और ऐस हैंड ब्लेंडर की पेशकश की

सटीकता और सुंदरता के साथ पाककला में लाएं और निखार

नई दिल्ली। भारत में रसोई के समाधानों की पेशकश करने वाली एक प्रमुख कंपनी, टीटीके प्रेस्टीज ने हाल ही में अपने दो अत्याधुनिक उपकरण - टू एज़ नाइफ सिंगल्स और ऐस हैंड ब्लेंडर लॉन्?च किये हैं। इन्हें घर की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

प्रेस्टीज टू एज़ नाइफ को बड़ी ही सटीकता से सिंगल पीस स्टेनलेस स्टील और खूबसूरत हैंडल्स के साथ बनाया गया है। इससे यह ज्यादा टिकाऊ बनता है और इसे पकड़ना भी बहुत आसान है। एक सुरक्षात्मक सरफेस फिनिश के साथ, ये चाकुओं को घिसने से बचाता है, जिससे इसकी धार और चमक बरकरार रहती है। सटीक धार और टेम्पर्ड स्टील इसे अत्याधुनिक बनाते हैं, जिससे कलाई पर कम दबाव के साथ पाककला का बेहतरीन अनुभव मिलता है।

टू एज़ नाइफ सिंगल्स रेंज में चाकुओं के पांच अलग-अलग प्रकार हैं। हर चाकू ही छीलने और काटने का जटिल काम चुटकियों में कर देता है। पेरिंग नाइफ कई तरह के काम करता है, चाहे फलों और सब्जियों का काम हो, बीज

निकलना हो फिर और उनके छिलके उतारने हों। उसी तरह वेजिटेबल नाइफ भी उतना ही जरूरी है, जोकि कटिंग से जुड़े सारे काम बड़ी ही आसानी से करता है। अलग-अलग सब्जियों को काटने, टुकड़े करने, स्लाइस करने और छीलने तक यह चाकू आपके किचन के काम को और भी सुविधाजनक बना देता है। इस काम को और भी आसान बनाने का काम करते हैं वेजिटेबल पीलर। इसे फलों और सब्जियों के छिलकों को आसानी से निकालने के लिए तैयार किया गया है।

दांतदार किनारों वाले कुक नाइफ के साथ कई तरह की कटिंग करने का अनुभव मिलता है। इसके दांतदार किनारे मीट तथा सब्जियों को काटने का एक बेहतरीन विकल्प देते हैं। इससे अच्छी ग्रिप मिलती है और मोटे सरफेस पर भी यह आसानी से काम करता है। यूटिलिटी नाइफ में स्लाइस करने की कमाल की खूबी है, जिसकी वजह से यह फलों, सब्जियों और मीट के कोमल टुकड़ों के लिए बिलकुल उपयुक्त है।

ऐस हैंड ब्लेंडर एक दमदार किचन टूल है जोकि खाना बनाने का शानदार अनुभव देता है। इस पतले से अप्लायंस में 250-वॉट की मोटर लगी है जोकि सटीकता से तैयार किए गए स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ आती है। इससे बड़े ही आराम से चटनी, प्यूरी, स्मूदी तैयार की जा सकती है और यह लगातार बेहतरीन परिणाम देता है।

समूह से कर्ज लिया, पति पी गया शराब, पत्नी ने उड़ा दी गर्दन

शकील अहमद

- कर्ज के 3.76 लाख का दारू पी गया पति, फिर पत्नी को काटने दौड़ा
- लोगों ने किया बीच बचाव, रात को पत्नी ने कर दी हत्या

घटना का खुलासा करते एएसपी रितेश कुमार

कुशीनगर (अवधनामा ब्यूरो)। करीब पांच दिन पूर्व विशुनपुरा थाना क्षेत्र के तिलकपट्टी गांव निवासी एक व्यक्ति की गर्दन काटकर की गई हत्या, किसी गैर ने नही बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी। समूह से लिया गया कर्ज व गहने गिरवी रखकर शराब पी गया और शराब के नशे में पत्नी को काटने दौड़ा पति को रात में ही पत्नी ने उसकी गर्दन उड़ा दी। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हत्यारिन पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मंगलवार को हत्या का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त गांव निवासी मृतक शर्मा निषाद पुत्र कृपाल निषाद निवासी तिलकपट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर अत्यधिक शराबी था नशे का इतना आदी हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी से एक वर्ष में भिन्न-भिन्न समूहो (ग्रामीण बैंक) से कुल 3,76,907/- रूपये कर्ज निकलवाकर शराब पी गया तथा उसके जेवरात भी गिरवी रख दिया था, जब कर्ज लेने से मना करती थी तो उसको मारता-पिटता था बीते 05 जनवरी 2024 को सुबह करीब 05 बजे मृतक अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगा जब पैसा न होने के कारण देने से इंकार कर दी तो मृतक किसी से उधार लेकर शराब पीकर आया और घर में रखा दाब/बांका लेकर अपनी पत्नी को काटने के लिए दौड़ाया तो आस-पास के लोग किसी तरह बीच बचाव कर शांत कराकर अपने-अपने घरो को चले गए तब वो खाना बनायी और अपने पति मृतक शर्मा निषाद को मंजन करने के लिए ब्रश दी लेकिन मृतक ब्रश को फेंक दिया और कहा कि जब तक तुझे काट नही लुंगा तब तक खाना नही खाउंगा। अभियुक्ता को अब यह पुर्ण विश्वाश हो गया कि अब यह मुझे निश्चित ही मार डालेगा तो हमारे बच्चो का पालन-पोषण कौन करेगा। अगर मै अपने पति को मार दूंगी तो मेरा लोन भी माफ हो जायेगा तथा हम अपने बच्चो को मजदूरी करके पालन-पोषण कर लूंगी और मृतक अपनी झोपड़ी में तख्त पर शराब के नशे में दाहिनी करवट करके बगल में दाव/बांका रखकर सो गया था। अभियुक्ता उसी बांका को उठायी और तीन-चार बार बांका से बायी तरफ गर्दन पर प्रहार कर गर्दन काट दी जो थोड़ा बहुत शेष था उसको पास में रखे हसुआ से खीच दी जिससे गर्दन पुरी तरह कट गया। उक्त घटना करीब 12 बजे के लगभग की गयी थी इसके बाद शव को वही पर छोड़कर रिहायसी झोपड़ी को बाहर से बंद कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके ग्राम जोगनी थाना सेवरही चली गयी। रिहायसी झोपड़ी गांव से थोड़ी दूरी पर है उक्त जगह कोई जाता नही है। तो उक्त अभियुक्ता 06 जनवरी को सोची की मृतक शर्मा निषाद का शव वही सड़ जायेगा तो उसने फोन कर अपनी बहन (देवरानी) को बतायी की मेरे घर जाकर मेरी बकरी को घर में बाहर निकाल दो यह बाद इसलिए बतायी की बकरी निकालने जायेगी तो हमारे पति शर्मा निषाद के शव को देख लेगी और शोर कर देगी तो गाँव वाले इकट्ठा हो जायेंगे जो करना होगा करेंगे। इस योजना के तहत आरोपी पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी जिसका पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया।

टीबी के लक्षण दिखे तो छुपाये नहीं: गुड़िया शर्मा

सात लक्षणयुक्त लोगो का जांच हेतु लिया गया बलगम

अवधनामा संवाददाता

- जनसहयोग से ही होगा टीबीमुक्त भारतः आशुतोष

कसया, कुशीनगर। राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीएचसी कसया पर कार्यरत क्षयरोग पर्यवेक्षक एवं सीएचओ सिरसिया खोइया द्वारा टीबी जागरूकता समुदाय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार मिश्र ने कहा कि जनसहयोग से ही भारत की टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने ने कहा कि जिनको भी दो सप्ताह से ज्यादा खांसी,बलगम आना,बुखार होना,रात में पसीना आना,भूख न लगना,वजन कम होना आदि लक्षण दिखे तो ऐसे व्यक्ति तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल में सम्पर्क करें। श्री मिश्र ने कहा कि जब तक हम सभी मिलकर राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम को जनांदोलन नही बनायेगे तब तक हमें सफलता नही मिलेगी। सीएचओ गुड़िया शर्मा ने कहा कि जिनके भी टीबी के लक्षण दिखे तो वे छुपाये नही,तत्काल बताये। ताकि उस व्यक्ति का समय पर जाँच एवं उपचार हो सके। उन्होंने ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क है जाँच,उपचार साथ ही सरकार रोगियों के खाते में प्रति माह पाँच सौ रुपये पोषण भत्ता के रूप में दे रही है। इस दैरान सात सम्भावित लक्षण वाले बृद्ध जनों एवं महिलाओं के सैम्पल एकत्रित कर जाँच हेतु लाया गया। इस दौरान एसटीएस शाहिद अंसारी, सैम्पल ट्रांसपोर्टर घनश्याम प्रसाद, आशा ममता देवी, पुष्पलता, संध्या कुशवाहा, शम्भूनाथ, उर्मिला देवी, निर्मला, राजन निषाद आदि उपस्थित रहे।

रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

कुशीनगर अवधनामा ब्यूरो। तमकुहीराज तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक को एंटी क्राप्सन गोरखपुर की टीम ने पांच हजार रूपए घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि तहसील क्षेत्र बांसगांव खास निवासी महबूब आलम पुत्र रियाजुल्लाह ने धारा 24 यूपी राजस्व संहिता के क्रम में शिकायत किया था कि फील्ड बुक तैयार करने और पैमाईश की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में राजस्व निरीक्षक मंत्री यादव ने पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग किया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से किया था। जिसको संज्ञान लेकर निरीक्षक शिव मनोहर यादव, उदय प्रताप सिंह, मनीष चंद चौहान, नीरज कुमार सिंह, पंकज मौर्या, राजा सिंह, रूपेश सिंह की टीम मंगलवार को विशुनपुरा थाना गेट के सामने से पांच हजार रूपए रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक मंत्री यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने पकड़े गए राजस्व निरीक्षक के खिलाफ पडरौना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाई में जुट गई है।

मंत्री से मिलकर नगर के विकास के मांगा धन

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। नगर पंचायत बड़हलगंज के समुचित विकास हेतु चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने लखनऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा से मुलाकात नगर के विकास के लिए धन आवंटन करने हेतु प्रस्ताव दिया। लखनऊ स्थित नगर विकास मंत्री एके शर्मा के आवास पर पहुंचे चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि बड़हलगंज गोरखपुर जनपद का प्रमुख नगर पंचायत होने के साथ ही एक अग्रणी व्यवसायिक केंद्र हैं। नगर का विस्तार होने के कारण कई गांव नगर में शामिल हुए हैं, ऐसे में नगर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, पथ प्रकाश, नदी व छठ घाट, पोखरे का सुंदरीकरण, नगर पंचायत के कार्यालय का निर्माण, दोहरीघाट बड़हलगंज पुल के दोनो तरफ जाली, मुक्तिपथ पर शवदाह प्लेटफॉर्म व इलेक्ट्रिक शवदाह संयंत्र के साथ साथ बारात घर व सामुदायिक शौचालय जैसे विकास कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है। श्री उमर ने इस संबंध में मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द धन आवंटन करने का निवेदन है। इस दौरान पवन यादव, निखिल गुप्ता, प्रवीण शाही, उमेश यादव, विकास गौंड मौजूद रहें।

महिलाओं को सशक्त बनाने के हो रहे सकारात्मक प्रयासः डॉ. मनहर

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। महिलाएं प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति और समाज का अभिन्न अंग रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं की स्थिति कई वर्षों से बहस और चिंता का विषय रही है। हाल के वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद भारत में महिलाओं को आज भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के भारत के प्रयासों में कई सकारात्मक विकास हुए हैं। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और नीतियों को लागू किया है। यह बातें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तत्वावधान एवं महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर में 'उन्नत भारत ग्राम अभियान में मिशन शक्ति' प्रकल्प के अन्तर्गत जेके अर्बनसेप्स डेवेलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रायोजित तथा सिंगर इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित सात दिवसीय निशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह में मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी, बीएचयू के आचार्य डॉ मनहर चरण ने कहीं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से किया जा रहा प्रयास अभिनंदनीय एवं सराहनीय है। इस प्रशिक्षण कार्यशाला से उन्हें परिवार को शसक्त बनाने के साथ समाज व देश के विकास में भी योगदान देने का अवसर मिलेगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अभिजीत चयनित

गौरीगंज (अमेठी) अवधनामा संवाददाता। नेहरू युवा केन्द्र की ओर से मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में माई भारत -विकसित भारत@ 2047 विषय पर आधारित भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विकास खण्डों से कुल 14 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें अभिजीत त्रिपाठी प्रथम अंजली मिश्रा द्वितीय मोहम्मद हसन तृतीय अनुपम यादव चतुर्थ एवं गायत्री पाण्डेय पंचम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अभिजीत त्रिपाठी को चयनित किया गया। निर्णायक मंडल में पूर्व प्रोफेसर डॉ अर्जुन पाण्डेय चिन्ता मणि मिश्र एवं राजेश कुमार शुक्ल की भूमिका उल्लेखनीय रही। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर काशी नाथ जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रधानाचार्या डॉ संगीता शर्मा डॉ रमाशंकर पाण्डेय वीरेंद्र कुमार मिश्र प्रज्ञा शुक्ला आकाश तथा प्रज्ञेश श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। दिनेश मणि ओझा लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।

भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ

देवरिया। आज प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं उसमें से 2023 के एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत अपराध हो रहे हैं। यह आरोप मंगलवार को टाउन हॉल स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए जनपद के प्रभारी सचिव जैनेन्द्र पाण्डेय मिंटू ने कहा। उन्होंने बताया कि बीएचयू में आईआईटी के एक छात्रा के साथ बीते साल 2 नवंबर को गन प्वाइंट पर उसकी नग्न तस्वीर बना कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने जब इस घटना में भाजपा के लड़कों का हाथ बताया तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के साथ उभराः मणि

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ देवरिया जिले में पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर तथा बरवा सेमरा गांव पहुंची जहां पर स्थानीय नागरिकों द्वारा अधिकारियों एवं भाजपा पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया, स्थानीय प्राथमिक विद्यालय की छत्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया सदर के पूर्व विधायक प्रोफेसर डॉ. सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि नेतृत्व अच्छा हो तो पूरी दुनियां में देश का सम्मान बढ़ता है, आज नवयुवकों को रोजगार मिल रहा है महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है किसानों का सम्मान बढ़ रहा है 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के साथ उभरा है। श्री त्रिपाठी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते - हुए कहा कि देश का सम्मान बढ़ने से सभी नागरिकों को गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की एवं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर भी जोर दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि बिना भेदभाव गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, उन्होंने कहा कि लोगों को शौचालय, आवास, बिजली, मकान, उज्जवला गैस, स्वास्थ्य सुविधा हेतु आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न की सुविधा मिल रही है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व विधान परिषद सदस्य महेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश पाण्डेय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू भारती, नीरज श्रीवास्तव, कुंदन जायसवाल, ग्राम प्रधान अनवर अंसारी, ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान अक्षैबर यादव, अखिलेश सिंह, हेमन्त पाण्डेय, पीताम्बर कुशवाहा सहित अन्य उपस्थित रहे।

ढोलक वादन में अव्वल रहे संदीप

भेटुआ (अमेठी) अवधनामा संवाददाता। हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम के तहत तहसील स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भेटुआ से हीरापुर गांव के संदीप तिवारी ने ढोलक वादन में पहला स्थान हासिल किया है। पहला स्थान प्राप्त करने पर एस डी एम अमेठी प्रीति तिवारी के साथ खंड विकास अधिकारी भेटुआ विनय वर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। बी डी ओ ने बताया कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम से छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। संदीप के विजेता होने पर इनके पिता घनश्याम तिवारी माता राजकुमारी व परिवारी जनो के साथ क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर की है। संदीप ने बताया कि तहसील स्तरीय प्रतियोगिता अमेठी में रविवार को हुई थी जिसमे भादर भेटुआ संग्रामपुर व अमेठी के गायन वादन नृत्य आदि में रुचि रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 10 जनवरी को जिला मुख्यालय पर होगी।

लर्निंग लैब से संवरेगा बच्चों का भविष्य

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। लर्निंग लैब फेज 2 के अंतर्गत जनपद में चिन्हित 80 आंगनबाड़ी केंद्रों को शासन द्वारा निर्धारित 18 पैरामीटरों से संतृप्त कर लर्निंग लैब के रूप में विकसित किए जाने के लिए आज ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों के उन्मुखीकरण कार्यशाला एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन स्थित गांधी सभागार में किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि यह बच्चों का भविष्य संवारने वाली कार्यशाला है। बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब में अपग्रेड करने से उन्हें सीखने के नए आयाम मिलेंगे। मनुष्य के 80 प्रतिशत दिमाग का विकास 5 से 6 वर्ष आयु के मध्य हो जाता है और हर बच्चे में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। लर्निंग लैब के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर निखारा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र प्री स्कूल की भूमिका निभा रहे हैं। सीडीओ प्रत्यूष पांडेय ने कहा कि लर्निंग लैब से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास होगा, जो हमारी अगली पीढ़ी को मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि लर्निंग लैब शासन की प्राथमिकता का कार्य है और आगामी 45 दिन में समस्त चयनित 80 आंगनबाड़ी भवनों को लर्निंग लैब में बदलने का प्रयास किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय ने ग्राम प्रधानों को समस्त 18 पैरामीटर के विषय में विस्तारपूर्वक बताया और उन्हें हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत लखनऊ से आये यूनिसेफ के प्रतिनिधि शशि उत्प्रेती ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय, अपर संख्या अधिकारी अवधेश सिंह, सीडीपीओ शशि सिंह, केके सिंह, सत्येंद्र सिंह, अजय नायक, गोपाल सिंह, विश्वदीपक,विमल पाल सिंह, रवि प्रकाश श्रीवास्तव समेत विभिन्न अधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रधानगण एवं पंचायत सचिव उपस्थित थे। लर्निंग लैब फेज 1 के अंतर्गत जनपद के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों का लर्निंग लैब में उन्नयन हो चुका है और इन्हें निर्धारित समस्त 18 मानकों से संतृप्त किया जा चुका है। इन सभी 14 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का जिलाधिकारी ने सम्मान किया। सम्मानित होने वालों में स्नेहलता सिंह, सुभावती देवी, संतोष कुमार, सीमा सिंह, संगीता यादव, दुर्गावती देवी, मोहम्मद इश्तियाक खान, नीलू देवी, अफजाल अंसारी, पवन यादव, संजीव कुमार, स्वर्गीय सत्येंद्र यादव (पत्नी ने सम्मान ग्रहण किया), संजीव कुमार एवं सलेहरा देवी शामिल हैं।

सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य

देवरिया। गौरी बाजार क्षेत्र के ग्राम मदरसन और पिपराधन्त्री में प्राथमिक विद्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए देवरिया सदर के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उनका क्रियान्वयन करना ही संकल्प यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने वैन के पहुंचने पर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमे अपने क्षेत्र की जनता को विभिन्न योजनाओं का प्रमाण पत्र वितरित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है और इससे उनके जीवन में काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना, हर घर नल योजना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सरकार हर वर्ग के लोगों को बिना भेद भाव किए रोजगार, स्वास्थ्य, और सड़क तथा शिक्षा उपलब्ध करा रही है।

भाजपा सरकार में किसान खुशहाल, महिलाओं को मिला मान सम्मानः डॉ. रमापति राम त्रिपाठी

देवरिया अवधनामा संवाददाता। जनपद के विकासखंड पथरदेवा के देवघाट और रामपुर कारखाना के मल्लघोट बिरैचा में संकल्प यात्रा पहुंची। यात्रा का पहुंचने पर समस्त ग्रामवासी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर-शोर से स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवम सदर सांसद डा. रमापति राम त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान सभी ग्रामवासियों ने वैन पर प्रसारित केन्द्र की योजनाओं एवम संवाद कार्यक्रम को देखा, बतौर मुख्य अतिथि सांसद डा.रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र एवम प्रदेश सरकार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रत्येक परिवारों तक पहुंचना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। बिना भेदभाव के भाजपा की सरकार में आज किसान खुशहाल है महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है पहले अपना देश विपन्नता की श्रेणी में था आज अपना देश संपन्नता की श्रेणी में है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें खास तौर पर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत सहित अन्य केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं। कई बार जागरुकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है।

मतदान कार्मिकों के डाटा ईपीडीएस एप्लीकेशन पर फीड कराने के लिए दिया गया प्रशिक्षण

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मंगलवार को मतदान कार्मिकों हेतु ऑनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम (ईपीडीएस एप्लीकेशन) पर अधिकारियों व कर्मचारियों का डाटा फीड कराये जाने हेतु प्रशिक्षण जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

जिलाधिकारी ने कहा की प्रशिक्षण के उपरांत सभी विभागाध्यक्ष अपने सभी अधिकारियों व कार्मिकों का डाटा त्रुटिरहित फीड कराए, फीड कराने के उपरांत प्रमाण पत्र भी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराए। सभी विभागाध्यक्ष 20 जनवरी 2024 तक अपने कार्मिकों का डाटा एप्लीकेशन पर कार्यावधि, ग्रेड पे, इंडेक्स, पे लेवल, और अन्य आवश्यक सूचनाएं सही सही अवश्य फीड कर लें। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी नोडल प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक लोकसभा सामान्य निर्वाचन ने कहा की सभी विभागाध्यक्ष ऑपरेटर द्वारा भरे गए डाटा को रैंडम्ली सत्यापन स्वयं कर यह सुनिश्चित कर लें की डाटा सही भरे गए है। प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, डीडीओ कल्पना मिश्रा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता, कोषाधिकारी परशुराम ओझा, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह, बीएसए राम जियावन मौर्य सहायक नोडल अधिकारी मतदान कार्मिक, उप जिला मजिस्ट्रेट मो0 जफर, डीएसओ दिलीप कुमार, समस्त बीडीओ तथा अन्य संबंधित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा चयन

अमेठी। उप कृषि निदेशक डॉ लाल बहादुर यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग के द्वारा जनपद के किसानों द्वारा रू 10000 से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों कृषि रक्षा उपकरणों यथा कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु ऑनलाइन बुकिंग का चयन ई-लाटरी के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्डयू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं नेशनल मिशन ऑन आयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम योजनाओं के तहत अनुदान पर यंत्र क्रय करने हेतु 20 नवम्बर 2023 से 04 दिसम्बर 2023 (इन सीटू) एवं 30 नवम्बर 2023 से 14 दिसम्बर 2023 के मध्य ऑनलाइन बुकिंग करने वाले किसानों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

आरोह तमसो ज्योति थीम पर होगा गोरखपुर महोत्सव

अवधनामा संवाददाता

- गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन 11 को पर्यटन मंत्री द्वारा किया जायेगा
- समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 13 जनवरी को किया जाएगा

गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव 2024 का उद्घाटन 11 जनवरी को पर्यटन मंत्री तथा समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 13 जनवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही मंडलायुक्त सभागार में सांसद रवि किशन और मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्राचीन काल से भारत वर्ष की सांस्कृतिक एवं धार्मिक महायोगी गोरक्षनाथ जी की नगरी एवं बुद्धिष्ठ सेक्टर के केन्द्र बिन्दु के रूप में अपनी पहचान स्थापित किये हुए है।

सास्कृतिक पर्यटन विकास के दृष्टिगत भारत वर्ष की सांस्कृतिक नगरी गोरखपुर में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना विभाग, जिला प्रशासन एवं स्थानीय उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर महोत्सव समिति द्वारा गोरखपुर महोत्सव का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माघ मास के कृष्ण पक्ष की दसवी से प्रारम्भ होकर लोहडी मकर सक्रान्ति तक तद्?नुसार 11 से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। महोत्सव अवधि में दिनांक 11 से 17 जनवरी 2024 तक विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल / प्रदर्शनी भी लगायी जायेंगी। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के माध्यम से जहां एक ओर गोरखपुर में पर्यटन सास्कृतिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार को उत्तरोत्तर गति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर आगन्तुक देशी/विदेशी पर्यटकों सहित स्थानीय जनता को भी एक ही स्थान पर कला, संस्कृति एवं गीत सगीत साहसिक पर्यटन एवं क्रीड़ा का अदभुत समागम प्राप्त हो सकेगा। उक्त के साथ ही गोरखपुर महोत्सव 2024 के अंतर्गत प्रथम बार गोरखपुर के इतिहास से जुडी आध्यात्मिक सास्कृतिक स्वतंत्रता व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराने वाली प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है, उपरोक्त आयोजन से गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास एवं पर्यटन महत्व के साथ अधिकाधिक देशी-विदेशी अतिथियों का आगमन एवं अवस्थान हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक पूँजी निवेश एवं युवाओं के रोजगार सृजन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। गोरखपुर महोत्सव 2024 के अंतर्गत प्रमुख आयोजन निम्नवत हैं- दिनांक 11 जनवरी 2024 को गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन समारोह चम्पा देवी पार्क में पर्यटन मंत्री उप्र के द्वारा किया जायेगा। उद्घाटन के अवसर पर शिजिनी कुलकर्णी द्वारा गणेश वंदना एवं कत्थक नृत्य की प्रस्तुति की जायेगी तत्पश्चात सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर के उच्च कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जायेगी। उक्त कार्यक्रम के उपरांत सांयकाल में सुरभी सिंह द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी, तत्पश्चात सांय 07 बजे से बॉलीवुड नाईट के अंतर्गत बी प्राक द्वारा गायन में प्रस्तुति दी जायेगी। दिनांक 12 जनवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से मुख्य मंच पर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम प्रारम्भ होंगे, तत्पश्चात दोपहर में टेलेन्ट हन्ट के अंतर्गत चयनित कलाकारों द्वारा गायन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी जायेंगी, तत्पश्चात लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर के उच्च कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जायेंगी। सांय 04 बजे से राष्ट्रीय स्तर के कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन होगा।

बहराइच महोत्सव के आयोजन के सम्बंध में बैठक संपन्न

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। जनपद बहराइच में प्रस्तावित बहराइच महोत्सव एवं रामोत्सव 2024 के सफल आयोजन के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि शासन की मंशानुसार बहराइच महोत्सव एवं रामोत्सव 2024 के आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाय। बहराइच महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट को प्रभारी नामित किया गया है।

डीएम ने बहराइच महोत्सव के आयोजन के सम्बंध में निर्देश दिया कि महोत्सव के आयोजन से सम्बन्धित तीन दिवसीय विस्तृत कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की जाय। तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए कार्यक्रमवार समितियों गठन किया जाय। महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों लोक नृत्य, लोक गायन, शिक्षण संस्थाओं के सांस्कृति कार्यक्रमों, कवि सम्मेलन, भजन, कीर्तन, क्रीडा प्रतियोगिता, दिव्यांगजन से सम्बन्धित कार्यक्रम, थारू कार्यक्रम, श्री अन्न फूड फेस्टिवल इत्यादि एवं अन्य विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यक्रमों हेतु पृथक-पृथक समितियों के गठन की कार्रवाई समय से पूर्ण कर ली जाय।

इसी प्रकार रामोत्सव 2024 के सफल आयोजन के सम्बंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ग्राम प्रधानों व सचिवों के साथ बैठक आयोजित कर समय से तैयारी पूर्ण कर ली जाय। मन्दिरों की सूची तैयार कर ली जाय। साथ ही मन्दिरों की सजावट इत्यादि के लिए कार्य योजना तैयार कर ली जाय। नगरीय क्षेत्रों के लिए अधिशाषी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन के सम्बंध में भी खण्ड विकास अधिकारियों व ईओ को समय से तैयारी करने के लिए निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार, उपायुक्त उद्योग केशवराम वर्मा, जिला पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

सपा संरक्षक पर गंभीर टिप्पणी, आक्रोश

डीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन देकर उठायी कार्यवाही की मांग

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। अयोध्या धाम में बाइस जनवरी को होने जा रहे प्रभु श्रीराम की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत के पूर्व रक्षामंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्व.मुलायम सिंह यादव पर सात जनवरी को एक युवक द्वारा अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग उठायी थी। लेकिन कार्यवाही न होने के चलते सोमवार को सपाईयों ने जिलाधिकारी के नाम अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपते हुये कार्यवाही की मांग उठायी है। ज्ञापन देते हुये सपाईयों ने बताया कि ग्राम डोंगरा व हाल ललितपुर निवासी एक युवक द्वारा नेताजी पर गंभीर टिप्पणी की है, जिससे सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने उक्त व्यक्ति पर मामला दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की मांग उठायी है। ज्ञापन देते समय पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी, स्नातक विधायक प्रतिनिधि विजय यादव, महिला सभा जिलाध्यक्ष गीता मिश्रा, शत्रुघन यादव, महेन्द्र सिंह, गिरधारी यादव, आधार सिंह यादव, इंजी.हृदेश यादव मुखिया, गौरव, माताब सिंह यादव, विनोद रायकवार, चन्द्रपाल सिंह, नरेन्द्र सिंह राजपूत, बलवीर सिंह, विट्टू, तिलक सिंह, बहादुर सिंह के अलावा अनेकों सपाई मौजूद रहे।

जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक सम्पन्न

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि समिति में आजीवन सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए साथ ही शासनादेश के अनुरूप समिति के आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जिले में शस्त्र लाइसेन्स तथा आबकारी लाइसेन्स प्राप्त करने वालों से प्रोत्साहन धनराशि का सहयोग लिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मानक के अनुसार प्रत्येक जिम/तरणताल संचालन के वार्षिक रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क सहित एकमुश्त धनराशि भी जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में जमा करायी जाय। बैठक में चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि दिव्यांगजन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जिला ओलम्पिक दिव्यांग संघ व बेसिक शिक्षा अधिकारी के समन्वय से जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष्य में बालक व बालिका वर्ग हेतु लोकप्रिय खेलों एथलेटिक्स एवं तीरन्दाज़ी की प्रतियोगिता भी आयोजित करायी जाय। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्टेडियम की सुरक्षा हेतु सी.पी. नाईट विज़न के कैमरे लगवाये जाये तथा लीड बैंक मैनेजर तथा अन्य बैंकों से समन्वय कर स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाय। प्रोत्साहन समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खेल एवं खिलाड़ियों के हित में स्टेडियम में खराब व अक्रियाशील खेल उपकरणों की मरम्मत करायी जाय तथा बैडमिन्टन एवं वालीबाल खेल प्रशिक्षक रखे जाने हेतु क्रीड़ाधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, सीओ लाइन मो. इरफान, ईओ प्रमिता सिंह, सहित उप क्रीडाधिकारी, अभिषेक धानुक, अनुपमा धानुक, खेल प्रोत्साहन समिति के सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

एसडीएम सदर के पटल पर दम तोड़ रहा है प्रमुख सचिव का आदेश

सुल्तानपुर। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सदर / उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय मे राज्य बनाम रेनू सिह व राज्य बनाम शुशीला मिश्र का वाद विचाराधीन है जिसमे शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेज कर उक्त मुकदमे में राज्य की तरफ से सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की मांग की गई थी। जिसमे उक्त शिकायती पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव न्याय को उक्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर प्रमुख सचिव- न्याय द्वारा प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं नियोजन को आवाश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा पत्रांक स 2452/8623 दिनांक 24 11 23 को जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी को उपरोक्त वाद मे सरकारी अधिवक्ता को राज्य की तरफ से पैरवी कराने का निर्देश जारी कर जवाब मांगा गया था परन्तु एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक द्वारा अभी तक उक्त वाद में सरकारी अधिवक्ता को पैरवी के लिए नही बुलाया गया।

भाजपा बलात्कारियों को संरक्षण देती है: लक्ष्मी

अवधनामा संवाददाता

सुल्तानपुर। पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। भाजपा के नेता अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 एन सी आर टी रिपोर्ट के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलो में पहले स्थान पर है।उक्त बातें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कांग्रेस कमेटी पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।आगे बताया कि इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वालो अपराधों में 15 प्रतिशत अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदत्तर हो गये हैं इसकी सिर्फ दो बानगी देखिए।

पहली एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहा दिनांक 02 नवम्बर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा का तीन लड़कों द्वारा जबरन गन प्वाइट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। दिनांक 03 नवम्बर को ही कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिनांक 05 नवम्बर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 08 नवम्बर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया।ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में दो महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितो को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शयद आरोपित पकडे भी नहीं जाते।

संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और दुर्भाग्य यह है की ये घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ससदीय क्षेत्र वाराणसी की है।

दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमन्त्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड में मार दिया गया। ये बात आइने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और कमशः उन पर ईनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई।

यह मुठभेड व्यक्तिगत कुंठा और राजनतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। काग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है।उक्त मौके पर चांदा से पूर्व विधायक शिवनारायण मिश्रा,पूर्व प्रत्याशी जयसिंह पुर लक्ष्मीकांत मिश्रा, शहर अध्यक्ष शकील अंसारी,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश त्रिपाठी,पवन मिश्रा कटावा,राहुल त्रिपाठी,सुनील चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।

गुरू व माता-पिता का सदैव सम्मान करें: राज्यमंत्री

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। मंगलवार को स्व.दादा बाबूलाल सतभैया मेमोरियल सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज गौना नाराहट में राज्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्र-छात्राओं से वार्ता करते हुये सभी को प्रधानमंत्री के अभियान नमो एप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होनें छात्र-छात्राओं को जीवन में उपयोगी बातों से अवगत कराते हुए गुरू एवं माता पिता का सदैव सम्मान करने की बात कही। ग्रापाए के पूर्व जिलाध्यक्ष आंनद प्रकाश गुप्ता ने सभी अतिथियों को स्वागत एवं सम्मान किया अंत में प्रबंधक अंकित सतभैया ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राजू तिवारी पत्रकार डोंगराखुर्द, सृजन सतभैया, प्रधानाचार्य अमित नामदेव पुष्पेन्द्र यादव, सोनू, राममिलन, रविदास, अरविन्द कुमार, अमन तिवारी, मोहन कुशवाहा, अनिल कुमार, शिखा राजे, अंजुम बानो, राजाराम आदि उपस्थित रहे।

लंखजर गांव में बनकर तैयार हुआ मनरेगा पार्क

सैलानियों के आवागमन से क्षेत्र का होगा विकास

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। शासन की योजनाओं का लाभ जनपद के दूरस्थ ग्राम लखन्जर के अतिवंछित ग्रामीणों तक पहुंचाने, यहां की प्राकृतिक वन सम्पदा एवं सुंदर वातावरण तक सैलानियों की पहुंच के लिये ग्राम लखन्जर में सी.सी. रोड निर्माण एवं धसान नदी के किनारे मनरेगा पार्क की स्थापना करायी गयी।

बता दें कि लखन्जर ग्राम जनपद का एक सीमावर्ती दूरस्त क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को लखन्जर ग्राम के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नही थी, जबकि धसान नदी के किनारे वनक्षेत्र के बीच स्थित होने एवं प्राकृतिक वातावरण सुन्दर होने के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा लखन्जर को पर्यटन से जोडने के उद्देश्य से यहां मनरेगा पार्क की स्थापना करायी गई है। यह क्षेत्र जनपद ललितपुर के सबसे दूरस्थ वनांचल ग्राम के रूप में लखन्जर ग्राम है जो कि ग्राम पंचायत कुर्रट का एक राजस्व ग्राम है। विकास खण्ड मडावरा सें ग्राम लखन्जर की दूरी लगभग 32 कि.मी. एवं जनपद मुख्यालय सें दूरी 94 कि.मी. है। लखन्जर ग्राम सबसे दूरस्थ होने के साथ ही अति पिछडा, अति वंछित ग्रामों में आता है। लखन्जर ग्राम अभी भी मूलभूत सुवधायें जैसे सडक, बिजली इत्यादि सें वंछित है। उक्त ग्राम में सहरिया जनजाति के अलावा गौड जाति के नागरिकों की वहुतायत है। लखन्जर ग्राम धसान नदी के किनारे वन क्षेत्र में स्थापित होने के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य सें भरपूर है। जिलास्तरीय अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ ग्राम लखन्जर के ग्रामीणों के साथ मनरेगा पार्क बनाये जाने हेतु कार्य स्थल पर विस्तृत चर्चा की गयी, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा पार्क निर्माण हेतु उपलब्ध ग्राम सभा की भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इसके उपरान्त मनरेगा पार्क निर्माण हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गयी। साथ ही धसान नदी के किनारे अन्य कार्य जैसे घाट निर्माण, कोरवाल, सुरक्षा दीवाल आदि बनाये जाने के भी कार्य लिये गये। इसके उपरान्त प्राक्कलन तैयार कराया गया, जिसका समय-समय जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही उक्त क्षेत्र को विकसित करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य स्थल पर जनचर्चा भी की गयी। ग्रामीणों द्वारा दिये गये सुझाओं को दृष्टिगत रखते हुये एवं ग्रामीणों के सहयोग से मनरेगा पार्क निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया।

संक्षिप्त समचार

नंदकुमार राजभर के किले को स्मृति क्षेत्र में बदलने के लिए पुरातत्व विभाग सक्रिय

सुल्तानपुर। नंदकुमार राजभर के किले को स्मृति क्षेत्र में बदलने के लिए पुरातत्व विभाग सक्रिय हो गया है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी को पत्र के जरिए इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के प्रकरण को संज्ञान में लेने से भू माफियाओं पर अंकुश होने की उम्मीद जगी है। शहर से सटे पांचोपीरन स्थित नंदकुमार राजभर की प्राचीन किले से जुड़ा मामला बताया जाता है।

अवैध कब्जा करने वालों में मचा हड़कंप

सुल्तानपुर। भगवान राम के पुत्र कुश के किले की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर सत्य साई आश्रम के महंथ द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता के बाद मीडिया द्वारा उठाए गए मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने संज्ञान ले लिया है।उन्होंने लखनऊ से एक जांच टीम मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट तलब किया है।मीडिया द्वारा उक्त महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने व मुख्यमंत्री महंथ योगी आदित्य नाथ द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर जांच टीम भेजने से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद की ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित होने की उम्मीद से जनपद वासियों में जबरदस्त उत्साह व्याप्त है।

पुलिस मुठभेड़ पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

सुल्तानपुर। विनोद उपाध्याय के मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कमेटी पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने मुठभेड़ को फर्जी बताया। कहा कि गोरखपुर में सरकार के जनता विरोधी कार्यो का विरोध करना उन्हें भारी पड़ा। प्रदेश में बढ़े अपराध को लेकर बुधवार को हजारों कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे।कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी दी।

मछुआ कल्याण संस्थान ने की आर्थिक मदद

सुलतानपुर। मछुआ कल्याण संस्थान के अध्यक्ष योगेश निषाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल आपदा पीड़ित परिवार से मिला और आर्थिक मदद की, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा पीड़ित परिवार को सांत्वना व आर्थिक मदद न किये जाने से मछुआ समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञातव्य हो कि बीते शुक्रवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के रतनपुर गांव के सुशील कुमार निषाद (30) की आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक निधन हो गया था। आपदा पीड़ित परिवार की मछुआ कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने मछुआ समाज के समाजसेवियों से 18 हजार 100 रुपये संग्रहित कर पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। इस मौके पर रमेश निषाद, हरिश्चंद्र निषाद, अंशू निषाद, संतराम निषाद, अनिल निषाद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

घर के बाहर खड़ी मोटर साइकिल में लगायी आग

ललितपुर। मोहल्ला नेहरू नगर निवासी अपनी बहन के यहां आये थाना बार क्षेत्र के निवासी युवक की मोटर साइकिल को बीती देर रात अज्ञात अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग उठायी है। बार क्षेत्र के निवासी रोहित रजक ने बताया कि वह अपनी बहन के यहां नेहरू नगर आया हुआ था, जहां देर रात उसने अपनी मोटर साइकिल को घर के बाहर खड़ा कर दिया था। सुबह जब वह सोकर उठा तो देखा कि उसकी मोटर साइकिल जली हुयी थी। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात लोगों ने उसकी मोटर साइकिल को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी टीवीएस मोटर साइकिल को अज्ञात लोगों ने आग लगाकर उसे नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह 12 जनवरी को

बहराइच। लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक नेहरू युवा केन्द्र ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानन्द जयन्ती) के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2024 को श्री मानस इण्टर कालेज विशुनपुर राहू भिन्गा रोड, बहराइच मध्यान्ह 12:00 बजे से समारोह का आयोजन किया गया है।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गाड़ी कदापि न दें: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

स्टेशन क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान

यातायात पुलिस व नगर पालिका के संयुक्त निर्देशन में चला अभियान

ललितपुर। शहर क्षेत्र में सड़क किनारे फुटपाथ पर सामान रखकर अस्थाई अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध मंगलवार को नगर पालिका परिषद व यातायात पुलिस टीम के संयुक्त नेतृत्व में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि शहर के व्यस्ततम इलाके स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी यातायात राजकुमार मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में लगातार अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तो वहीं बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ चालान या फिर बिना कागजात वाली गाडियों को सीज करने की कार्यवाही लगातार चल रही है। टीएसआई आलोक कुमार तिवारी ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए कदापि न दें। यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन चलाते हुये पकड़े जाते हैं तो गाड़ी सीज करते हुये अन्य कार्यवाही भी की जायेगी। मंगलवार को स्टेशन क्षेत्र में चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया गया। साथ में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत प्रमुख चौराहों, स्थानों पर आम जनमानस तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले आठ वाहन चालकों के विरूद्ध चालान किया गया। वहीं स्टंटिंग करते हुये वाहन चलाने वालों के विरूद्ध 06 चालान किये गये, इसी प्रकार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर 35, दो पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाकर चलने पर 24, मॉडिफाइड साइलेन्स में किये गये चालानों की संख्या 04 व एम.वी.एक्ट की धारा 207 के तहत पांच वाहनों को सीज किया गया।

मतदान मॉकड्रिल के लिए कलेक्ट्रेट व तहसील मुख्यालयों पर संचालित होंगे काउण्टर

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। आसन्न लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आमजन को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सहित जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों पर काउण्टर स्थापित किये गये हैं। यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्चाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 10 जनवरी 2024 से काउण्टर्स क्रियाशील हो जायेंगे। जनपद को कोई भी मतदाता काउण्टर्स पर आकर अपने हाथों से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पर मतदान कर प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन तथा राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ई.वी.एम. वेयर हाउस पहुंचकर प्रशिक्षण हेतु ई.वी.एम. मशीनों का निकाला। इस अवसर पर भाजपा के सुनील श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के जफर उल्ला खॉ 'बन्टी', कांग्रेस से गोपीनाथ, बसपा से अशर्फी लाल गौतम, अपना दल एस से गिरीश पटेल मौजूद रहे।

कृषक अनुदान हेतु ई-लाटरी के माध्यम से चयनित होंगे किसान

बहराइच। उप कृषि निदेशक टी.पी. शाही ने बताया कि रू. दस हज़ार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों यथा-रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी मल्टी क्राप थ्रेसर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर टिलर, ट्रैक्टर माउण्टेन स्प्रेयर, कस्टम हायरिंग सेन्टर, आलू बोने की मशीन, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, चेपकटर मानव रहित, मिनी राइस मिल, स्ट्रारीपर, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम इत्यादि के लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि 12 जनवरी 2024 को अपरान्ह 11:30 बजे से जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में ई-लाटरी के माध्यम से कृषकों का चयन किया जायेगा।

श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपों से जगमगाएगा संगम

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि ÷विकासार्थ विद्यार्थी÷ द्वारा माघ मेला के दौरान समाज में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने एवं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वृहद रूपरेखा तैयार की गई है। आज प्रेस वार्ता में विकासार्थ विद्यार्थी एवं अभाविप की गतिविधि एवं आयामों द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, नदी संवाद, दीपोत्सव, सांस्कृतिक संध्या, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक, सरस्वती पूजा, स्वास्थ्य शिविर, आदि कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की गई एवं कार्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी को साझा किया गया। विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी की संध्या को 50 हज़ार दीपक कल्पवासियों को वितरित किए जाएंगे और उनसे आग्रह किया जाएगा कि उन दीपकों को अपने शिविर में संध्या को जलाएं। कुछ स्थान चिन्हित कर विद्यार्थियों द्वारा भी दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विकासार्थ विद्यार्थी के प्रांत प्रमुख राम बाबू तिवारी ने कहा कि विद्यार्थी समुदाय को पुनर्निर्माण में लगाने का राष्ट्रीय प्रयास का यह विचार विकासार्थ विद्यार्थी के कार्य का मूल आधार है।

वक्फ बोर्ड उपरौस में तहसील प्रशासन ने जड़ा ताला

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड नें वक्फ बोर्ड 81 के संचालन हेतु तीसरी कमेटी को दी जिम्मेदारी

अवधनामा संवाददाता

मौदहा-हमीरपुर। लगभग तीन वर्षों से विवादों में घिरी वक्फ न081 इमाम चौक उपरौस की कमेटी एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। वक्फ न0 81 पर काबिज होना पूर्व दोनों विवादित कमेटियों के बीच वर्चस्व की जंग बना हुआ था जिस पर तीसरी कमेटी के पावर में आने की बात सामने आ रही है। जबकि तहसील प्रशासन की मौजूदगी में पुरानी कमेटी के ताले तोड़कर सरकारी ताले जड़ दिये गये हैं। मंगलवार के दिन इमाम चौक उपरौस में सुबह से ही गहमागहमी थी क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मंगलवार के दिन उपजिलाधिकरी मौदहा द्वारा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति में बनें हाल पर लगे ताले तोड़ कर नई कमेटो को कार्यभार सौंपा जाएगा क्योंकि कई रोज पहले उपजिलाधिकरी द्वारा पूर्व कमेटे के पदाधिकारियों को नई कमेटी को कार्यभार देनें हुए नोटिस भेजा गया था नोटिस में एक निर्धारित समयावधि भी तै कर दी गयी थी परन्तु पूर्व कमेटी द्वारा नई कमेटो को न कार्यभार सौंपा गया और न ही हाल में लगे अपने ताले हटाए गये थे उस पर अमल दरामद कराने के उद्देश्य से मंगलवार को दोपहर के बाद उपरौस के इमाम चौक में पुलिस बल की उपस्थिति में तहसीलदार बलराम गुप्ता के नेतृत्व में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति में बने हाल में पूर्व कमेटी के लगे ताले तुड़वा कर नये ताले लगवा दिये गये जिन की चाबी तहसीलप्रशान व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के पास है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नें फोन पर बताया कि शान्ति व्यस्था को कायम रखने के उद्देश्य से हाल में लगे तालों की चाबियां किसी कमेटी को नही दी गयी हैं उन्होने आगे बताया कि हाल की चाबी के अतिरिक्त नई कमेटी द्वारा वक्फ का संचालन किया जा रहा है। इमाम चौक वक्त नम्बर 81 उपरोस में नई कमेटी जो रहीमुद्दीन की अध्यक्षता में सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई है उसे संचालन हेतु सभी औपचारिकताऐं पूरी की जा चुकी हैं विवाद मात्र हाल मे लगे तालों को लेकर था जिसे तहसील प्रशासन नें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में नये ताले डाल दिये गये। कस्बे में चर्चा है कि उक्त इमाम चौक कमेटी का हस्तांतरण दोनों विवादित कमेटियों के स्थान पर तीसरी गठित कमेटी के साथ में किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के सम्बन्ध में बैठक

अवधनामा ब्यूरो

हमीरपुर। मंगलवार के दिन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में दिनांक 22.01.2024, 23.01.2024 व 24.01.2024 को 138 एन0 आई0 एक्ट से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत की बैठक नोडल अधिकारी लोक अदालत वी.के. वासवानी के विश्राम कक्ष में की गयी। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर गीतांजलि गर्ग द्वारा बताया गया कि बैठक में सिविल जज (सी.डि.)/एफ.टी.सी. शंशाक गुप्ता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वन्दना अग्रवाल, सिविल जज (जू.डि.) आयुषी चतुर्वेदी, सिविल जज (जू.डि.)/ एफ.टी.सी. क्रा.अ.वू. प्रखर तिवारी, तृतीय सिविल जज (जू.डि.) कीर्ति मिश्रा न्यायिक मजिस्टेट अधिकारीगण उपस्थित रहे। न्यायिक मजिस्ट्रेटण को निर्देशित किया गया कि वह विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुये अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु हर सम्भव प्रयास करें।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाणपत्र

सुमेरपुर हमीरपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्षेत्र के गांव बिल्हड़ी व बड़ागांव में पहुंचने पर ग्रामीण संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। भाजपा नेता सुधेश द्विवेदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक संकल्प और विश्वास की यात्रा है। जो सभी योजनाओ को लेकर गांव गांव जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। किसान को सम्मान निधि, हर घर नल के तहत हर गांव व शहर में पानी पहुंचाने का काम किया है। कार्यक्रम के बीच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्धबोधन सुना व देखा गया है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चक्रवर्ती शुक्ला, अरविंद श्रीवास्तव, केके विश्वकर्मा, रामचन्द्र शर्मा, शिव शंकर गुप्ता, आशीष द्विवेदी, विनीत चौहान, ग्राम प्रधान जयनारायण विश्वकर्मा, बांकी प्रधान जीवन श्रीवास, बड़ागांव प्रधान हरदौल निषाद, पंचायत सचिव सोनाली सचान आदि मौजूद रहे।

जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक सम्पन्न

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक की, इस दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित को निर्देशित किया कि अधिकारियों एवं महान भिवगढ़ से सुझाव प्राप्त करते हुए जनपद की एक बेहद कार्य योजना तैयार कराई जाए, जिसमें विभिन्न पर्यटन स्थलों का एक वर्क प्लान बनाकर उसमें प्राथमिकता वाले कार्य को संबंधित विभाग के साथ बैठक कर उनके कराए जाने वाले कार्यों का चयन किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि एक अलग से प्रस्ताव आर्किटेक्ट के माध्यम से तैयार कर मेरे स्तर से पत्र के साथ शासन को वित्तीय एवं प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए प्रेषित किए जाने हेतु पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया। इस मौके पर उन्होंने जनपद के विभिन्न आकर्षणों, पौराणिक पूरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा संवर्धन पर विचार विचार-विमर्श किया गया, पर्यटन संभावनओं से परिपूर्ण स्थलों के पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित भी किया गया। बैठक के दौरान जनपद के विभिन्न पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों को प्रमुख स्थलों से जुड़े व्यक्तियों, कलाकारों एवं स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार साधनों का सृजन किये जाने पर विचार-विमर्श करते हुए पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास के लिए नये क्षेत्रों की पहचान करने पर भी बल दिया गया।

टूटी पुलिया दे रही हादसे को न्योता

सुमेरपुर हमीरपुर। नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे को जोड़ने वाला इंगोहटा छानी मार्ग का टेंडर होने के बाद मरम्मत कार्य शुरु नहीं हो सका है। 18 किमी लंबे मार्ग में लोग गड्ढों में हिचकोले खाते गुजरने को मजबूर हैं। इस सड़क की एक पुलिया की दीवाल वर्षों से टूटी पड़ी है। जो कभी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। क्योंकि इस पुलिया के पास लोनिवि ने टूटने के बाद किसी तरह का संकेतक भी नहीं लगाया है। इससे पुलिया टूटी है इससे राजगीर अनजान है। ब्लाक का इंगोहटा छानी मार्ग 50 वर्ष से अधिक पुराना है।

यह मार्ग स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे 34 को सीधे जोड़ता है। इस मार्ग से प्रतिदिन दो दर्जन से ज्यादा पंचायत के लोगों का आना-जाना है। अक्टूबर माह में सड़क की मरम्मत के लिए लोनिवि ने टेंडर निकाला था। लेकिन इसके बाद भी मरम्मत शुरू नहीं हुई है। इतना ही नहीं इंगोहटा विदोखर के मध्य एक पुलिया की दीवाल वर्षों से टूटी पड़ी है।

जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लेने हेतु तथा अन्य कार्यों में आधार कार्ड की अनिवार्यता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत जनपद के शत प्रतिशत लोगों को आधार सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान चलाकर 0 से 05 वर्ष की आयु तक वर्ग शत.प्रतिशत बच्चों का आधार बनवाया जाए इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में पोस्ट ऑफिस एवं बैंकों के माध्यम से कैंप लगाया जाए। ज्ञात हो कि स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आधार कार्ड ना होने के कारण उनको विभिन्न योजनाओं यथा स्कूल बैग ,यूनिफार्म ,जूता मोजा आदि की धनराशि का लाभ मिलने में कठिनाई होती है। क्योंकि इन सभी योजनाओं का लाभ आधार से लिंक बैंक खाते के माध्यम से ही मिल पाता है । ज्ञात हो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हमीरपुर में आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि निवासी अपना आधार अपडेट ध् नामांकन आसानी से करा सकेण् इसके लिए विशेष आधार कैंपो का आयोजन किया जा रहा है, जैसा की हम जानते है की आधार एक अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है इसलिए इसका अपडेटेड होना जरुरी और लाभदायक हैण् अगर आपका आधार अपडेटेड होता है तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बहुत आसानी होती हैण् आधार में एक ख़ास फीचर है की आप इसे आसानी से अपडेट करा सकते है विशेष तौर पर अपना पता और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखे। इस सन्दर्भ में निवासियों को सलाह दी जाती है की अगर आपका आधार बने हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए है तो अपना आधार अपडेट जरुर करायेण् आधार अपडेट के लिए अपने पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण लेकर अपने नजदीकी आधार केंद्र आए और अपना आधार अपडेट कराये।

उत्तर प्रदेश में इस समय फैमिली आईडी बनाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिससे आधार के माध्यम से बेहतर सुविधाएं निवासियों को दी जा सकेंगी। इस महत्वपूर्ण कार्य में अगर आधार में पहचान के दस्तावेज तथा पते के दस्तावेज अपडेटेड हैं तो सर्विसेज डिलीवरी में ज्यादा समन्वय हो पायेगाध्ज्यादा पारदर्शिता आएगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेशिक शिक्षाधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, यूआईडीएआई के अधिकारी तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।

एनटीपीसी रिहंद का सुनहरा कदम, बालिका सशक्तिकरण मिशन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/बीजपुर। एनटीपीसी रिहंद ना सिर्फ देश को बिजली बनाकर प्रकाशित करने का कार्य कर रही है अपितु अपने सीएसआर विभाग के माध्यम से अपने परियोजना के आप-पास के क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाकर उनके जीवन को प्रकाशमान कर रही है। इसी तारतम्य में नैगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी रिहंद में 19 मई 2023 से 17 जून 2023 तक चले बालिका सशक्तिकरण अभियान की बालिकाओं हेतु 09 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक बालिका सशक्तिकरण अभियान शीतकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बालिका सशक्तिकरण अभियान शीतकालीन कार्यशाला का उदघाटन परियोजना प्रमुख (रिहंद) पंकज मेदीरत्ता, अध्यक्षा, वर्तिका महिला मण्डल समिति अनीता मेदीरत्ता, सभी महाप्रबंधकगण एवं वर्तिका महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्याएं, विभागाध्यक्षगण ने किया। इस मौके पर उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए मेदीरत्ता ने कहा कि यह शीतकालीन कार्यशाला बालिकाओं को दोबारा से नयी चीजें सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है, जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए है। मेरा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से इन बच्चियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। इन बच्चियों को अपने वास्तविक जीवन में करियर के शिखर पर पहुँचने में इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का लाभ अवश्य मिलेगा। उन्होने यह भी कहा की शिक्षा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आज बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु विभिन्न पहल किए जा रहे है जिससे महिलाएं शिक्षित हो कर अपने जीवन को रोशन कर रही हैं। आज हम जिस भी क्षेत्र में देखे , महिलाए कंधे से कन्धा मिला कर अपना निर्धारित कार्य समर्पण से कर रही है। बालिका सशक्तिकरण मिशन, उड़ान प्रगति की ओर, एनटीपीसी की एक ऐसी ही पहल है। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक, (मानव संसाधन), जाकिर खान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बालिका सशक्तीकरण अभियान 2018 में पहली बार एनटीपीसी रिहंद में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और हमें गर्व है की ये बालिका सशक्तिकरण मिशन बहुत ही सफल साबित हुआ और इससे हजारों बच्चियों को एक नई पंख मिली है जिससे ना सिर्फ रिहंद परियोजना में बल्कि देश के सभी एनटीपीसी की परियोजनाओं में इस मिशन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है जिससे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं को आगे पढ़ने हेतु एक मंच प्रदान किया जा रहा है।

टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/बीजपुर। एनटीपीसी रिहंद ने अपने नैगम समाजिक दायित्व के अंतर्गत म्योरपुर ब्लॉक के कुल 25 टीबी मरीजों को धन्वन्तरी चिकित्सालय मे पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्षा (वर्तिका महिला मण्डल समिति) अनिता मेदीरत्ता एवं वर्तिका महिला मण्डल समिति की वरिष्ठ सदस्याओं नें दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मेदीरत्ता एवं अन्य सदस्याओं द्वारा टीबी मरीजों को किट वितरित किया गया। और अपने सम्बोधन में मेदीरत्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है, और हम हमेशा ही आस-पास के जरूरतमन्द ग्रामीण लोगों के हित में कार्य करते रहेंगे। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि एनटीपीसी रिहंद ने इस पहल के माध्यम से समाज में टीबी के मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के विकास में मदद करेगा। कार्यक्रम में सीएमओ (रिहंद) डॉ. मोनिषा कुलश्रेष्ठा, सीनियर कंसल्टेंट डॉ. तन्मय मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट डॉ. गीताघोष धन्वन्तरी चिकित्सालय के अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

राजमार्ग को काटने के बाद नहीं किया गया समतलीकरण

अवधनामा संवाददाता

जगह-जगह कट होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे वाहन

कमासिन/बांदा। अतर्रा कमासिन राजमार्ग में जगह-जगह अवैध कट होने की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे है। लोगों का कहना है कि एलएंडटी कंपनी द्वारा पेयजल पाइप लाइन बिछाने को लेकर राजमार्ग को काटा गया है। रोड कट करने के बाद कटिंग का समतलीकरण नहीं किया गया। जिससे अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। लार्सन ऐंड टुब्रो कंपनी द्वारा गांव-गांव में पेयजल की लाइन बिछाने का काम जोरो पर चालू किया गया है।जिसकी वजह से गांवों की गलियों तथा राजमार्गों को काटकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गांवों की गलियों का हाल यह है की अच्छी खासी सीसी रोड टूटी पड़ी है। वहीं राजमार्गों को काटकर पाइप लाइन बिछाने से गहरे गड्ढे हो गए हैं।जिनका समतलीकरण कंपनी द्वारा नहीं किया गया। जिसकी वजह से तेज रफ्तार वाहन अचानक कटिंग आने से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कंपनी से शिकायत के बावजूद भी कटिंगों के सुधार हेतु कोई काम नहीं किया गया। जबकि योजना के तहत तोड़ी गई सीसी खरंजा एवं राजमार्गों की कटिंग के समतलीकरण का काम भी पूरा किया जाना है ।किंतु कंपनी ने पाइपलाइन बिछाकर अपना काम तो पूरा किया है किंतु खुदाई के बाद गलियों राजमार्गों का समतलीकरण नहीं किया गया। अतर्रा कमासिन राजमार्ग पर 44 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर छत्तीस कटिंग किए गए हैं। राज मार्ग के कट कितने खतरनाक है। कि सड़के एक से दो फीट तक धंस गई है। कटिंग स्थलों पर कोई संकेतक भी नहीं लगाए गए।

पदाधिकारियों को बचाने के लिए षड़यंत्र रचती है भाजपा: रामराज

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। जिला/शहर कांग्रेस कमेटी सोनभद्र के कार्यालय पर जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सोनभद्र के अध्यक्ष रामराज सिंह गोंड ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी टॉपर छात्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारीयो द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया जिसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने 3 दिसंबर को प्रेस के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रशासन को बता दिया था कि उक्त घटना में भाजपा के लोग शामिल हैं किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए राजनीतिक विद्वेष से अजय राय पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया और अपने पदाधिकारीयो को बचाने के लिए षड्यंत्र रचते रहे जिसमें वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से भी सह मिलती रही यह सब सिर्फ उस समय हो रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव के मद्देनजर किया गया कि इनकी पोल जनता के सामने न खुल पाए एक तरफ जहां बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है वहीं उनके संगठन के लोग बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनायो को अंजाम देते हैं। वही एक दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रतिद्वंदी विनोद उपाध्याय की सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। उपरोक्त दोनों घटनाएं अत्यंत निंदनीय है उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में सुशासन लाने में असफल रही उत्तर प्रदेश में हत्या लूट बलात्कार,महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रहीहै एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर हो रही घटनाओं में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है हम कांग्रेस पार्टी के लोग उपरोक्त घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग करते हैं और इसी संदर्भ में कल दिनांक 10 जनवरी 2024 को जिला/शहर कांग्रेस कमेटी सोनभद्र के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से ज्ञापन भी देने का कार्यक्रम तय किया गया है उक्त प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी सोनभद्र के अध्यक्ष राजीव कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं चंदौली के प्रभारी इंजीनियर कुमार पासवान पूर्व सचिव कमलेश ओझा कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य हाजी फरीद अहमद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बृजेश तिवारी शहर कांग्रेस कमेटी के विशिष्ट कुमार चौबे विमल आदि लोग उपस्थित रहे।

कोहरे के चलते ट्रेनें हो रही लेट, यात्री परेशान

अवधनामा संवाददाता

बांदा। रेल यात्रियों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते एक्सप्रेस ट्रेनों के लेट हो जाने के कारण कई-कई घंटे यात्रियों को स्टेशन में ही गुजारना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरे की धुंध की बदौलत ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि फाग डिवाइस का इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है, ट्रेन के चालकों को कोहरे की धुंध के दौरान तमाम सहूलियत मिलती है और सिग्नल आदि की जानकारी मिलती है। पिछले एक पखवारे से कोहरे की धुंध से जहां सड़क यातायात प्रभावित है, वहीं रेल मार्ग में भी यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनोज शिवहरे ने बताया कि आम तौर पर कोहरे के दौरान रेल यातायात प्रभावित होता है। एक्सप्रेस ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। हालांकि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन ने काफी हद तक अपना समय मैनेज किया है। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि इन दिनों इंजन में फाग डिवाइस रेलवे के द्वारा लगाई गई है जो कोहरे के दौरान सिग्नल के अलावा अन्य सहूलियत चालक को देती है।

विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने किया शानदार प्रदर्शन

अतर्रा/बांदा। विज्ञान प्रदर्शनी के प्रमाण पत्र बांटकर प्रतिभाशाली छात्रों एवं विज्ञान शिक्षक को सम्मानित करते हुए। ब्रह्म विज्ञान इ का अतर्रा बांदा के प्रधानाचार्य शिवदत्त त्रिपाठी ने बताया कि जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सूचना संचार और परिवहन प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत बच्चों ने आदित्य एल 1 का प्रोजेक्ट तैयार किया था, आदेश पटेल एवं धनंजय गुप्ता ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था, प्रदर्शनी संयोजक मेजर मिथलेश कुमार पाण्डेय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक श्री विजय पाल सिंह ने प्रमाण पत्र के साथ 500 रुपये का चेक भेजा, जिसको बच्चों को देकर सम्मानित किया गया तथा प्रदर्शक शिक्षक सुरेन्द्र शर्मा को भी सम्मानित किया गया। सभी शिक्षकों ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

बांदा। नेहरू युवा केन्द्र के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी विनीत गहलावत के निर्देशानुसार राजकीय महिला डिग्री कालेज, बांदा में माई-भारत विकसित भारत 2047 विषय के अर्न्तगत जिला स्तर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डा. दीपाली गुप्ता प्रधानाचार्या के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। निर्णायक मण्डल के रूप में क्रमशः डा सबीहा रहमानी (एन.एस.एस.नोडल प्रभारी), सुनील कुमार सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार), डा. संदीप सामंत सिंह ने अपनी महती भूमिका निभाई। उक्त भाषण प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें प्रथम स्थान-गुनगुन गुप्ता, द्वितीय कृति पाल, तृतीय- अदिति शिवहरे ने प्राप्त किया और सील्ड देकर पुरूस्कृत किया गया। सभी प्रतिभगियों को राइटिंग पैड, पेन व प्रमाणपत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में आये प्रतिभागियों व सम्मानित जजों का आभार नेहरू युवा केन्द्र के एमटीएस रवि अवस्थी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक देवेन्द्र शिवहरे, समाजसेवी प्रकाश कश्यप के द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन देवेन्द्र प्रताप सिहं के द्वारा किया।

एनटीपीसी विंध्याचल मे व्यावसायिक उत्कृष्टता असेसमेंट का उद्घाटन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्याचल। एनटीपीसी-विंध्याचल परियोजना के मैत्री सभागार मे दिनांक 09.01.2023 को व्यावसायिक उत्कृष्टता असेसमेंट का भव्य उदघाटन बी ई टीम के क्वालिटी चैंपियन पीआर मजूमदार एवं अन्य असेसर्स द्वारा कार्यकारी निदेशक (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार , परियोजना के महाप्रबंधकगण एवं विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में किया गया। एनटीपीसी-विंध्याचल द्वारा देश के विशालतम विद्युत संयंत्र की सफलता की कहानी, इसकी चुनौतियों, सी एस आर गतिविधियों के प्रति समर्पण, पर्यावरण से संबन्धित चिंताओं, नई पहल, इसकी प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रशंसा पर एक लघु विवरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी की धरोहर एवं ऊर्जांचल क्षेत्र पर विंध्याचल परियोजना द्वारा तैयार की गई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे असेसर्स एवं दर्शकों की ओर से खूब सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान अपने सम्बोधन में क्वालिटी चैंपियन पीआर मजूमदार ने एनटीपीसी के बी ई माडल एवं इसकी बारीकियों पर प्रकाश डाला। कार्यकारी निदेशक (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार ने अपने सम्बोधन के दौरान बी ई असेसमेंट टीम का स्वागत किया और उन्हें परियोजना मे पधारने हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित किया।

फणि कुमार ने कहा कि टीम विंध्याचल अपने कार्यों के प्रति हमेशा ही सजग रहती है। उन्होने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही राख़ के शत-प्रतिशत उपयोग एवं प्लांट सुरक्षा पर भी हमारा विशेष ध्यान हैं। वरिष्ठ प्रबन्धक (एमटीपी) सुआभा ने बी ई टीम का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बी ई एसेसर्स टीम का उपस्थित जन-समूह को संक्षिप्त परिचय दिया तथा एनटीपीसी-विंध्याचल की सी एस आर गतिविधियों पर एक पी पी टी प्रस्तुति दी।

भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार: केशव

विकसित भारत संकल्प यात्रा

- **इंडिया ठगबंधन कहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे: केशव मौर्य**

अवधनामा ब्यूरो

काकोरी, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तथा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है और यह इंडिया ठगबंधन कहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यह बातें काकोरी के दुर्गागंज चौराहा पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्लित होने जाते समय पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के पश्चात संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जब-जब केंद्र तथा प्रदेश में गैर भाजपा सरकारें रही हैं। लूट-खसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। सरकार की योजनाएं कागजों में चलती थीं। आम जनता त्रस्त थी,2014 से जब देश की अवाम ने भ्रष्ट सरकारों को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बागडोर सौंपी,तब से नये भारत का उदय होने लगा,आज देश के गरीब को विकट बीमारियों की स्थिति में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से उसे अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क इलाज मिलेगा। उसके खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी। हर घर को निशुल्क विद्युत कनेक्शन तथा हर परिवार को निशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आवाहन है कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक हर गांव अयोध्या धाम,हर मंदिर राम का मंदिर है। इसलिए दीपावली की तरह दीप जलाना है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा किए ठगबंधन तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की बात कर रहे हैं लेकिन आप लोग संकल्प ले अबकी बार 400 के पार सीटें मिलेंगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, मण्डल अध्यक्ष रविराज लोधी, जिलाउपाध्यक्ष हंसराज लोधी, महामंत्री विजय मौर्य, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि शिशिर यादव, पूर्व चेयरमैन सुशील लोधी, सहकारी संघ लिमिटेड एण्ड बीज भण्डार सभापति केशरी राव धारा सिंह यादव, सभासद मनीष गुप्ता, गोपी राजपूत, शिवहरी द्विवेदी, चेयरमैन रोहित साहू, धीरू मौर्य, विनय निगम, नवनीत निगम, कौशिक राजपूत, दयाराम, कमलेश लोधी, प्रतिभा वर्मा, फूल दुलारी, शिवमोहन, लीलावती, कमल सैनी, सूरज कनौजिया, ओमप्रकाश कश्यप, नीलम रावत, कामता प्रसाद, राजू यादव, मिथलेश रावत, आशीष शर्मा, विक्रम, आनंद मौर्य, कपिल सिंह, प्रमोद गुप्ता, लवकुश यादव, विमल यादव, सुभ्रात सिंह यादव, अहमद अली सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हज यात्रियों के प्रशिक्षण के लिये मांगे आनलाइन आवेदन

अवधनामा ब्यूरो

- **आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक रहेगी जारी**

लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों को प्रशिक्षिण देने के लिए प्रशिक्षकों के चयन को ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गयी जो 15 जनवरी तक जारी रहेगी। ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर किये जा सकते हैं। राज्य हज समिति की ओर से प्रशिक्षकों के चयन की आखिरी तारीख 25 जनवरी है। राज्य हज समिति के सचिव एस.पी. तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षकों को दो दिवसीय भौतिक प्रशिक्षण दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में होगा। 150 हज आवेदकों पर एक प्रशिक्षक चयनित होगा और सभी जिलों से प्रशिक्षकों का प्रतिनिधित्व होगा।

किसी जिले में 150 आवेदक से कम होने पर भी प्रशिक्षक चयनित होगा। पूर्व प्रशिक्षक जिन्हें अनुभव और पर्याप्त ज्ञान हो का चयन होगा और बीते वर्षों में निराशाजनक प्रदर्शन वाले प्रशिक्षक चयनित नहीं होंगे। प्रशिक्षक को अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी और स्थानीय भाषा का ज्ञान, हज और उमरा के अरकान और क्रियान्वयन की पूरी जानकारी, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, समूह को सम्बोधित व नियंत्रित करने का अनुभव, कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। पूर्व के वर्षों में असिस्टेंट हज अधिकारी, हज असिस्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, खादिमुल हुज्जाज के तौर पर हज पर जाने वालों को वरीयता दी जाएगी। 25 वर्ष से कम न हो आवेदक आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का पहला पन्ना, वीजा और 2 डोज का वैक्सीन प्रमाणपत्र आवेदन के समय अपलोड करना होगा। आवेदक की आयु कम से कम 25 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष हो। किसी तरह का आपराधिक रिकार्ड न हो और पिछले 5 सालों में हज किया हो।

डॉ. राजेश्वर के कंबल वितरण महाअभियान से जरूरतमंदों को मिल रही बड़ी राहत

- **सरोजनीनगर में 10000 से अधिक कम्बल हुए वितरित**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। सरोजनीनगर विधानसभा सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने कड़ाके की ठण्ड और शीतलहर को देखते हुए अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया है, सरोजनीनगर में हर निराश्रित, हर असहाय तक कंबल पहुँचाने के लिए युध्स्तर पर काम किया जा रहा है। विधायक डॉ राजेश्वर सिंह सरोजनीनगर में अब तक 10000 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करा चके हैं।

शीत ऋतु के प्रारंभ से विधायक राजेश्वर द्वारा चलाये जा रहे कंबल वितरण महाअभियान के अंतर्गत मंगलवार को ग्रामसभा गौरी में अनुसूचित जनजाति के लोगो के बीच कंबल वितरित किया गया, कडाके की ठण्ड में सहारा पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। अवगत हो कि जन जातीय गौरव यात्रा के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह ने उनके बीच जाकर जनजातीय समाज की बस्तियों की हर जरूरतों को पूरा करने का आश्वाशन दिया था। वहीं सरोजनीनगर के हर जरूरतमंद को शीतलहर से बचाव हेतु कंबल पहुंचाने के क्रम में सोमवार को बनी स्थित रितेश्वर मन्दिर परिसर में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए थे।

अपर मुख्य सचिव ने जारी किए जिला अधिकारियों को निर्देश

लखनऊ। बेरोजगार युवकों को तहसील स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई एवं असुविधा को देखते हुए शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं में आवेदन करने के निमित्त युवाओं को आय जाति निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं असुविधा न हो इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं अन्यथा शिकायत पाई जाएगी। तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

जनविश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए: महाना

- **प्रधानमंत्री ने राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ/भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जनता ने एक विश्वास के तहत ही सदन भेजा है, इसलिए जनविश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आप लोग अयोध्या अवश्य आए।

उल्लेखनीय है कि भोपाल में आज से दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश माहना सोमवार को भोपाल पहुंचे थे। इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित संसदीय प्रक्रियाओं के कई विद्वान उपस्थित हुए।

इस मौके पर महाना ने प्रथम सत्र मे प्रभावी विधायक कैसे बनें, संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण पर नए सदस्यों से कहा कि नए सदस्यों को आलोचना से न घबराकर केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही संसदीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुराने एवम अनुभवी सदस्यों की कार्यशैली से भी सीखना चाहिए। विधायकों को अपनी पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर का आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा के विधायको को उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का दर्शन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी भ्रमण करना चाहिए। प्रबोधन के इस कार्यक्रम में लोकसभा ओम बिरला, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की कार्यशैली की भी जमकर सराहना की।

टेकनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन

- **34 छात्र-छात्राओं ने भाग लेके 13 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में 9 जनवरी 2024 को दीक्षोत्सव 2024 के अंतर्गत टेकनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसके अंतर्गत भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राओं ने मॉडल और पोस्टर की सहायता से आधुनिक तकनीक का प्रयोग और लाभ बताए। इस प्रतयोगिता में कुल 34 छात्र-छात्राओं ने भाग लेके कुल 13 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये। प्रतयोगिता का आंकलन डॉ. ततहीर फातिमा, डॉ. राजा अब्बास हैदरी और ई. तस्लीम जमाल ने किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. ततहीर फातिमा ने कहा कि तकनीक ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा या सामाजिक संबंधों में नई संभावनाओं का समर्थन किया है। वहीं डॉ. राजा अब्बास हैदरी ने कहा कि अधुनिक तकनीकी समाधानों ने विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की है। प्रतयोगिता का आयोजन डॉ. सय्यद असग़र हुसैन रिज़वी, ई. साएमा अलीम और ई. विवेक बाजपाई द्वारा किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रो. चंदना डे संयोजक-दीक्षोत्सव 2024 द्वारा उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रो. सय्यद हैदर अली, प्रो. संजीव त्रिवेदी, डॉ. राजेंद्र त्रिपाठी, डॉ. शान-ए-फातिमा, ई. उन्नी किशन इत्यादि शिक्षक उपस्थित रहे।

27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के 63 युवा कलाकार लेंगे हिस्सा

लखनऊ। महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में इस बार प्रदेश के 63 युवा कलाकार हिस्सा लेंगे। यह कलाकार वहां आयोजित होने वाली नौ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय युवा उत्सव 12 से 16 जनवरी तक नासिक में आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश के 63 युवा कलाकार, दो नेशनल यूथ अवार्डी नेहा कुशवाहा व अवधेश कुमार और पांच अधिकारियों को मिला कर 70 सदस्यीय दल नासिक के लिए रवाना हुआ। नासिक रवाना होने से पहले युवा कल्याण विभाग के सचिव सुहास एल वाई ने निदेशालय पर इन कलाकारों से मुलाकात कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। विभाग की उप निदेशक मेघना सोनकर ने बताया कि प्रदेश के 63 युवा कलाकारों के दल में 30 पुरुष व 33 महिलाएं शामिल हैं।

दूसरे दिन भी रेल कर्मचारी भूख हड़ताल पर

- **अंग वस्त्र पहना कर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का किया स्वागत**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 6 पर NJMC/ AIRF/ NERMU के आह्वान पर मंडल मंत्री काम आर एन गर्ग के नेतृत्व मे दूसरे दिन भी रेल कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे।

कर्मचारियों का हौंसला बढ़ाने के लिये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फ़ेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा, HMS के प्रदेश महामंत्री काम उमाशंकर मिश्रा के साथ-साथ उप्र राज्य संघ के अध्यक्ष काम हरिकिशोर ने कार्यक्रम मे उपस्थित होकर भूख हड़ताल मे बैठे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। AIRF के महामंत्री ने बताया कि यदि 29 फ़रवरी 2024 तक अगर न्यू पेंशन स्कीम वापस नहीं हुई तो हमको मजबूरन रेल का चक्का जाम करने की नोटिस देना पड़ेगा, कार्यक्रम मे उपस्थित हिन्द मजदूर सभा के अध्यक्ष उमा शंकर ने कहा की राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी कंधा से कंधा मिलाकर NPS को खदेड़ने का काम करेंगे।

एन ई रेलवे मजदूर यूनियन पूर्वांतर रेलवे के मंडल मंत्री आर एन गर्ग ने अंग वस्त्र पहना कर AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा स्वागत किया। सभा में मुख्य रूप से मंडल कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, ए के रावत, प्रमोद कुमार, सुभाष मीणा, मंडल मिडिया प्रभारी मोहम्मद नसीम, भानू प्रताप, प्रवीण कुमार, सूरज पाण्डेय, प्रिया पुरवार, मोईन अंसारी, मुशीर अख्तर, संजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।

सतीश कुमार ने संभाला कार्यभार

लखनऊ, अवधनामा ब्यूरो। सतीश कुमार ने रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड में सदस्य ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक का कार्यभार संभाल लिया है। वे भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। श्री कुमार मार्च 1988 में भारतीय रेलवे में शामिल हुए और उनके पास 34 वर्षों का अनुभव है। एमटीआरएसए रेलवे बोर्ड में शामिल होने से पहले वे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में महाप्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 तक उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी काम किया था। डीआरएम लखनऊ के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचे के काम पूरे किये गये थे।

अरुणा नायर रेलवे बोर्ड के सचिव नियुक्त

लखनऊ, अवधनामा ब्यूरो। 1987 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा आईआरपीएस अधिकारी और लेवल-16 पैनल में शामिल आईआरएमएस अधिकारी अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने छह जनवरी को कार्यभार संभाल लिया है। इसके पहले वे मई 2023 से रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य स्टाफ के रूप में और फरवरी 2022 से मई 2023 तक रेलवे बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक स्टाफ के रूप में कार्यरत थीं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पांच जनवरी को उन्हें आईआरएमएस लेवल-16 में रेलवे सचिव के रूप में नियुक्त किया। अरुणा नायर आईआरएमएस में लेवल-16 में सूचीबद्ध होने वाली पहली आईआरपीएस अधिकारी भी हैं। अरुणा नायर को रेलवे के विभिन्न पदों का व्यापक अनुभव है।

मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान में आतंकवादी हमले की निन्दा की

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने गुलज़ारे शोहदा क़ब्रिस्तान ईरान में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ईरान के शहर किरमान में हुए दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कौन मज़लूम है और कौन ज़ालिम। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा जिस तरह जनरल क़ासिम सुलेमानी और जनरल अबू मेहंदी अल मोहन्दिस को धोखे से शहीद किया गया था वैसे ही उनकी बरसी के मौक़े पर गुलज़ारे शोहदा क़ब्रिस्तान में दहशतगर्दाना हमला करके मासूम बेगुनाहों को शहीद किया गया यह दोनों हमले करने वाली कोई एक ही ताकत है जो इस्लाम विरोधी ताक़तों के इशारों पर काम कर रही है मौलाना ने इस हमले में शहीद होने वालों के परिवार वालों को ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि शहीद हमेशा जिंदा रहता है और मज़लूमों की शहादत कभी ज़ाया नहीं जाती इंशाअल्लाह जल्द इमामे ज़माना का ज़हूर होगा और वह हर एक ज़ुल्म का इंतेक़ाम लेंगे मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यह आतंकवादी हमले करके शियों को खौफ़ज़दा करना चाहते हैं मगर ये जान लें कि हर दौर में शियों ने अपनी शहादत पेश करके यह साबित किया है कि हम कभी ज़ुल्म के सामने नहीं झुकते बल्कि उसका सामना करते हैं और ये दर्स हमको कर्बला से मिला है।

मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी पिछले 56 दिनों से नहीं मिली

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1 करोड़ 17 लाख गरीब मनरेगा मजदूर मजदूरों की दिहाड़ी पिछले 56 दिनों से उनके खातों में नहीं पहुंची। श्री राय ने प्रदेश सरकार से मनरेगा अधिनियम के अनुसार मनरेगा मजदूरों को विलम्बित मजदूरी ब्याज समेत दिलवाने और संविदाकर्मियों को मानदेय न मिलने के दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्री राय ने कहा कि मनरेगा अधिनियम में प्राविधान है कि 15 दिन के भीतर मजदूरी मजदूर के खाते में पहुंच जाना चाहिए। इसी तरह प्रदेश में इस योजना में कार्यरत 45 हजार अल्प मानदेय वाले संविदाकर्मियों का भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक का मानदेय बकाया है।

काकोरी क्षेत्र में एलडीए का चला अभियान

- **अवैध प्लाटिंग के खिलाफ हुई कार्रवाई**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर मंगलवार को प्राधिकरण अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन काकोरी क्षेत्र में अभियान चला कर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई कराई। प्राधिकरण अधिकारियों ने काकोरी क्षेत्र में तीन अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाने के साथ ही चौक के विक्टोरिया स्ट्रीट में अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण को सील कराया। प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि काकोरी के समदा ताल के आगे मनोज कुमार व अन्य की ओर से लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग कर वेलकम सिटी न्यू फेज नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसी तरह विक्की व अन्य की ओर से काकोरी के मौदा रोड के बायें किनारे पर सीमेण्ट गोदाम के सामने लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग करायी गयी थी। इसके अलावा राजू यादव व अन्य की ओर से मौदा रोड पर यूनिवर्सल सिटी कॉन्वेंट स्कूल के मोड़ पर 15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखण्ड बेचे जा रहे थे। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना तीनों स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ विहित न्यायालय ने ध्वस्तीकरण आदेश दिये थे। मंगलवार को सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता भानु प्रकाश वर्मा, भरत पाण्डेय, प्रमोद कुमार पाण्डेय व संजय शुक्ला ने तीनों अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई।

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि तैय्यब व अन्य की ओर से विक्टोरिया स्ट्रीट पर विशाल मेगा मार्ट के सामने लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सेटबैक को आच्छादित करते हुए बेसमेण्ट व प्रथम तल का निर्माण कराया जा रहा था। विहित न्यायालय के सीलिंग के आदेश पर सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता शशिभूषण मिश्रा व विपिन बिहारी राय ने सीलिंग कराई।

लखनऊ मेट्रो ने सुरक्षित यात्री सेवा का पेश किया उदाहरण

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। मेट्रो की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ने एक बार फिर सुरक्षित यात्री सेवा का उदाहरण पेश किया है। लखनऊ मेट्रो का चर्चित लॉस्ट एंड फाउंड सेल यात्रियों का खोया कीमती सामान लौटाने के साथ साथ बिछड़े बच्चों को भी उनके अभिभावक से मिलाने का काम कर रहा है। लखनऊ मेट्रो में सोमवार शाम को एक10 वर्षीय बच्चा घर का रास्ता भूल मेट्रो पर चढ़ कर सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। लखनऊ मेट्रो जब टर्मिनल के आखिरी मेट्रो स्टेशन सीसीएस मेट्रो स्टेशन पहुंची तो बच्चे को गुमसुम व परेशान देख मेट्रो सुरक्षाकर्मी ने उसे स्टेशन कंट्रोलर से मिलवाया। ऐसे मामलों में प्रशिक्षित मेट्रो स्टाफ ने बच्चे से घर का पता एवं अन्य जानकारी हासिल करने की कोशिश की। साथ ही तुरंत पुलिस विभाग को घटना की सूचना भी दी। पुलिसकर्मियों ने मेट्रो स्टेशन पहुंच कर बच्चे से पूछताछ की व कुछ देर पहले बच्चे के पिता द्वारा दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट को भी मिलाया।

प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध: कांग्रेस

अवधनामा ब्यूरो

- **उ.प्र. में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले प्रथम स्थान पर**

लखनऊ। कांग्रेस ने मंगलवार को वाराणसी के बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर पार्टी ने प्रदेश भर के जिलों में प्रेसवार्ता की। राजधानी में जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश त्रिपाठी ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

पार्टी ने गोरखपुर के विनोद उपाध्याय मामले की न्यायिक जांच की मांग की। श्री त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीती 2 नवम्बर को आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। घटना के दूसरे दिन 3 नवम्बर को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि घटना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी। आरोपियों की पुष्टि होने के बाद भाजपा ने आरोपियों को मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से आरोपियों को बचा रही थी। छात्रों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दबाव न होता तो पुलिस आरोपित पकड़े नहीं जाते, जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसी तरह दूसरी घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहक्षेत्र गोरखपुर की है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मार दिया। यह आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर निवासी विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा कसता गया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुण्ठा और राजनैतिक विद्वेष से प्रेरित और योगी सरकार के जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे, राजबहादुर सिंह, प्रदेश सचिव अतुल सिंह, प्रवक्ता डॉ. उमाशंकर पाण्डेय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रुद्रदमन सिंह मौजूद थे।

कई लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन

लखनऊ। कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा में आस्था और पार्टी अध्यक्ष मल्किार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के संघर्षों से प्रेरित हो कुशीनगर और प्रतापगढ़ के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री राजबहादुर के नेतृत्व में कुशीनगर और प्रतापगढ़ के विभिन्न राजनैतिक दलों के लोगों ने प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी प्रशासन दिनेश सिंह के समक्ष कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। कुशीनगर से शोएब अहमद, मरियम खातून, जाहिदा खातून, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, जौनपुर के योगेश कुमार और प्रतापगढ़ के नागेन्द्र सिंह के साथ कई लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा। इस मौके पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. जियाराम वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. पी.के. त्यागी, शशि चौबे, इरफान अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।